



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 30, 2004—नवम्बर 5, 2004 (कार्तिक 8, 1926)
No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 30, 2004—NOVEMBER 5, 2004 (KARTIKA 8, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

(II) तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

नई दिल्ली-110069, दिनांक 29 सितम्बर 2004

सं. ए-19014/8/2004-प्रशा.-1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.09.2004 के आदेश सं. 21/40/2004-सी.एस.-1 के अनुसरण में राष्ट्रपति, के.स.से. के अधिकारी (सीएसएल सं. 4859) श्री बी. डी. अरोड़ा (जन्म-तिथि 15.04.1955), जो कि वर्तमान में व्यय विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं को संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में 29.09.2004 से अपर सचिव के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त अधिकारी की तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :--

- (1) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा के.स.से. के ग्रेड-I (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई हक नहीं होगा।

एस. आनंद

अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 4 अक्टूबर 2004

सं. ए-19011/4/2004-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, श्री एम. पी. तंगीरस्व, आई पी एण्ड टी ए एण्ड एफ ए (90), को संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में रु. 14,300-400-18,300/- के वेतनमान में दिनांक 04.10.2004 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् आगामी आदेशों तक, इसमें जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव (निदेशक स्तर) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. आनंद

अवर सचिव (प्रशा.)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 अक्टूबर 2004

सं. डीपी/पर्स.12004/0077/3/35/96--राष्ट्रपति ने श्री कथूला सूर्यनारायण को 13.09.2004 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया है।

राजीव सिंह

पुलिस अधीक्षक (मु.)

दिनांक 15 अक्टूबर 2004

सं. डीपी/पर्स.1/2004/0079/3/102/2004--निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने श्री एन.जी. चक्रवर्ती, अपराध सहायक, के.अ.ब्यूरो को 1.10.2004 पूर्वाह्न से कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के ग्रेड में नियुक्त किया है।

राजीव सिंह

पुलिस अधीक्षक (मु.)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्टूबर 2004

सं. 2/26/03-प्रशासन/7671--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में मुख्य इंजीनियर (सिविल) श्रीमती पदमजा वर्मा को आयोग में मुख्य तकनीकी परीक्षक के पद पर वेतनमान रु. 18400-400-22400/- में दिनांक 08.10.2004 (अपराह्न) से उनकी

सेवानिवृत्ति की तिथि 31.12.2007 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल

उप सचिव

कुछ केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

गृह मंत्रालय

(पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो)

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 15 अक्टूबर 2004

सं. 18/23/97-प्रशा.11--पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (यातायात एवं परिवहन) के पद पर कार्यरत श्री सतीश कुमार रुहिल, कार्यशाला प्रबंधक, हरियाणा रोडवेज, दिल्ली की प्रतिनियुक्ति की अवधि 25.09.2001 से 24.09.2003 तक के विस्तार हेतु गृह मंत्रालय एवं संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदन को एतद्वारा सूचित किया जाता है। अपने पांचवें वर्ष की प्रतिनियुक्ति की अवधि में वे किसी भी प्रकार के प्रतिनियुक्ति भत्ते के हकदार नहीं होंगे। श्री सतीश कुमार रुहिल अब दिनांक 24.09.2003 (अपराह्न) से अपने मूल विभाग में प्रत्यावर्तित हो गए हैं।

2. यह संघ लोक सेवा आयोग की सहमति तथा गृह मंत्रालय के दिनांक 13.11.2003 के डायरी सं. 982/एम.ओ.एस.(एस)/2003 अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अशोक कुमार सूद

सहायक निदेशक (प्रशा.)

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-03, दिनांक 13 अक्टूबर 2004

सं. ई-15014/1/2004/कार्मिक-11/2674--सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार निम्नलिखित सहायक कमांडेन्टें (कार्यपालक) के संबंध में परीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी करने की घोषणा करते हैं और सीधे भर्ती सहायक कमांडेन्ट (कार्यपालक) को संबंधित रैंक में स्थायी करते हैं :-

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम | रैंक | स.क. के पद पर पदोन्नति/नियुक्ति की तारीख | परीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी करने की तारीख | स्थायीकरण की तारीख यदि कोई हो | यूनिट |
|----------|----------------------|-------------|--|---|-------------------------------|---|
| 1. | श्री एम.एल. कोरट | स.क./कार्य. | 18.03.02 | 17.09.04 (बढ़ी अवधि) | लागू नहीं | जे.एन.पी.टी. सेवा |
| 2. | श्री पटेल केयूर एम. | -वही- | 02.09.02 | 01.09.04 | 02.09.04 | एच.ई.पी. उडी (तारीख 04.09.04 से सेवा से त्यागपत्र) |
| 3. | श्री एम.एस. हेमब्राम | -वही- | 17.10.2000 | 24.09.04 (बढ़ी अवधि) | लागू नहीं | 4वीं आरक्षित वाहिनी, रांची |

ह/- अपठनीय

महानिदेशक/के.ओ.सूब

दिनांक 14 अक्टूबर 2004

सं. ई-16015(2)/1/2002/कार्तिक-1/53--नियमित पदोन्नति होने के फलस्वरूप निम्नलिखित सहायकों ने उनके नाम के सामने दी गई तारीख से के.ओ.सु.ब. में रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) का कार्यभार संभाल लिया। यह पदोन्नति भविष्य में अनुभाग अधिकारी के पद की रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी :-

| क्रम | अधिकारी का नाम | कार्यालय जहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया | अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्य-भार संभालने की दिनांक |
|------|---------------------|--------------------------------------|---|
| 1. | श्री पतरास लकड़ा | बल मुख्यालय नई दिल्ली | 20.09.2004 (पूर्वाह) |
| 2. | कु. मोहनी होलारमानी | बल मुख्यालय नई दिल्ली | 20.09.2004 (पूर्वाह) |

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सु.ब.

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय

नाशिक रोड, दिनांक 9 अक्टूबर 2004

सं. 638/स्थापना-18-1--श्री एस. डी. आबारे, निरीक्षक, विभागीय सुरक्षा संघटन को सुरक्षा अधिकारी (वर्ग 'ख' राजपत्रित) के पद पर वेतनमान रुपये 6,500-200-10,500/- में तदर्थ आधार पर दिनांक 1.10.2004 से 30.11.2004 तक या के.ओ.सु.ब., भा.प्र.मु. में पूरी तरह से लागू होने तक, इसमें जो भी पहले हो, तक नियुक्त किया जाता है।

प्रकाश नारायण
महानिदेशक

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 2004

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (सिविल) "लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल)" के संवर्ग को रु. 7,500-250-12,000/- के

वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं :-

| क्रम | अधिकारियों का नाम | का.आ.सं. तथा तिथि | पदोन्नति तिथि |
|------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| | सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री | | |
| 01. | डी. राधा कृष्ण मूर्ति-II | 96/01.09.2004 | 01.09.2004 (पूर्वाह) |
| 02. | आर. जगदीश्वर राव | 114/01.10.2004 | 01.10.2004 (पूर्वाह) |
| 03. | सी. एच. सुब्बा राव | 114/01.10.2004 | 01.10.2004 (पूर्वाह) |

उपर्युक्त पदोन्नतियाँ उनके वरिष्ठों के दावों, यदि हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/भारत का उच्चतम न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में लम्बित याचिकाओं के फाँसियों के बशर्तें आदेशित हैं। भारत सरकार को.ज्ञा.सं. एफ.-7/1/80-स्वा. (पी.-I) दिनांक 26.09.1988 तथा एफ.-13/20082-स्वा. (पी.-I) दिनांक 08.02.1983 के अनुसार उन्हें अपना विकल्प एक माह के अन्दर देना होगा।

श्रीनिवासु
उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों (सिविल) को स्वीकृत/अधिष्ठापित पर निवृत्त होने पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए तिथि(यों) से सेवानिवृत्ति घोषणा करते हैं :-

| क्रम | कर्मचारी का नाम | पदनाम | सेवानिवृत्ति की तिथि |
|------|------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| | सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री | | |
| 01. | के. बाल सौरी | व.ले.प.अ. | 17.09.2004 (पूर्वाह) (स्वीकृत) |
| 02. | वी.वी.एस.आर. प्रसाद शास्त्री | व.ले.प.अ. | 30.09.2004 (अपराह) |
| 03. | बी. सत्यनारायण-II | व.ले.प.अ. | 30.09.2004 (अपराह) |

श्रीनिवासु
उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) को

अधिवर्षिता पर निवृत्त होने पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए तिथि से सेवानिवृत्ति घोषणा करते हैं :--

| क्रम | कर्मचारी का नाम | पदनाम | सेवानिवृत्ति की तिथि |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|
| 01. | श्री सी. एच. वेंकटेश्वर राव-III | स.ले.प.अ. | 30.09.2004 (अपराह) |
| श्रीनिवासु उप महालेखाकार (प्रशासन) | | | |

लघु उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय
नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्टूबर 2004

सं. ए-19018/742/84-प्रशा. (राज.)--सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री सत्यपाल, उप निदेशक (वैद्युत) लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, नई दिल्ली से दिनांक 30.09.2004 (अपराह) को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-19018/14/73-प्रशा. (राज.)--सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री जी. पी. पठोदिया, निदेशक (यांत्रिकी) लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत लघु उद्योग सेवा संस्थान, इन्दौर से दिनांक 30.09.2004 (अपराह) को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशा.)

दिनांक 14 अक्टूबर 2004

सं. ए-19018/925/88-प्रशा. (राज.)--राष्ट्रपति, सुगन्ध एवं सुरस विकास केन्द्र, कन्नौज में प्रतिनियुक्ति पर, डॉ. बी. दास, सहायक निदेशक (ग्रेड-I) (रसायन) को लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में लघु उद्योग सेवा संस्थान, गुवाहाटी में उप निदेशक (रसायन) स्थानापन्न आधारित के पद पर दिनांक 20.09.2004 (पूर्वाह) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशा.)

खान मंत्रालय
(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-700016, दिनांक 13 अक्टूबर 2004

सं. 2919/बी/ए-32013/(सी.ओ.एस.)/96/19ए--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति जी, श्री देवी सिंह, सहायक लागत लेखा

अधिकारी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को पदोन्नति पर लागत लेखा अधिकारी के रूप में इसी विभाग में रुपये 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर नियमित आधार पर आगामी आदेशों तक 15.09.2004 (पूर्वाह) से प्रभावित, नियुक्त करते हैं।

के. पी. गौतम
निदेशक (कार्मिक)
कृते महानिदेशक

कोयला एवं खान मंत्रालय
(खान विभाग)
भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2004

सं. ए-19011/248/2003-स्था.ए.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री एस. चंद्रमौली, खनिज अर्थशास्त्री (आ.), को भारतीय खान ब्यूरो में दिनांक 17.09.2004 (अपराह) से अधीक्षक खनिज अर्थशास्त्री (आ.) के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस. के. बातव
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक

नागपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

सं. ए-19011/214/2004-स्था. ए.पी.पी.--स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत होने पर श्री तपन बिश्वास, खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, से दिनांक 1.10.2004 के पूर्वाह में कार्यभार से मुक्त हो गए हैं।

बी. सुद
सहायक प्रशासन अधिकारी

दिनांक 11 अक्टूबर 2004

सं. ए-19011/159/2003-स्था. ए.पी.पी.--श्री एस. के. घोष, निदेशक (अयस्क प्रसाधन), भारतीय खान ब्यूरो, वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 30.09.2004 (अपराह) से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

वी. सुद
सहायक प्रशासन अधिकारी

नागपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2004

सं. ए-19011/87/99-स्था. ए--राष्ट्रपति, प्रसन्न होते हुए श्री एस. एस. दास, मुख्य खान नियंत्रक को 06.10.2004 (अपराह) से महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो के पद पर पदोन्नत करते हैं।

[प्राधिकार : मंत्रालय पत्र सं. 26(22)/2003-खान-III दिनांक 6.10.2004]

एस. के. बोसाल
मुख्य प्रशासन अधिकारी
कृते महाविद्यार्थक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुम्बई-85, दिनांक 8 अक्टूबर 2004

सं. पीडी/7(4)/2004-आर-4/1169--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों ग्रेड 'डी' को वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों ग्रेड 'ई' के रूप में फरवरी 1, 2004 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से इसी अनुसंधान केन्द्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं :-

| क्रम संख्या | अधिकारी का नाम |
|-------------|--|
| 1 | 2 |
| 1. | सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री मुद्गल आर. के. |
| 2. | धर अपूर्वा |
| 3. | गोरखनाथ |
| 4. | नरसिंहम के. वी. एन. एस. वी. पी. एल. |
| 5. | दत्ता अरुण |
| 6. | रॉय जे. जे. |
| 7. | मेनन एस. बी. |
| 8. | शंकरन पी. एस. |
| 9. | दास एस. के. डॉ. |
| 10. | कुमारगुरु के. |
| 11. | मिश्रा शिव कुमार डॉ. |
| 12. | नायर श्रीकुमारन बी. |
| 13. | शंकरन एम. आर. |
| 14. | सुंदर डी. |
| 15. | धर डी. सी. |
| 16. | सावंत पी. डी. मिस |
| 17. | करुणास्वामी सी. बी. |
| 18. | रामचंद्रन ई. एन. |
| 19. | मौसमी गरेन डॉ. (श्रीमती) |

| 1 | 2 |
|-----|------------------------------|
| 20. | नायर शोभा एस. डॉ. (श्रीमती) |
| 21. | प्रितिका लांबा डॉ. (श्रीमती) |
| 22. | अम्बुकुन्ही के. |
| 23. | धानवत एल. जे. |
| 24. | पणिकर आर. एस. |
| 25. | चंदर पाल |
| 26. | रे मलयनिल |
| 27. | सर्मा एस. डी. |
| 28. | साहा एस. डॉ. (श्रीमती) |
| 29. | अनिल कुमार एस. |
| 30. | जैठमलानि पी. एल. कुमारी |
| 31. | जोशी जी. एच. |
| 32. | कामत वी. एल. |
| 33. | वेंकटेश प्रसाद ए. जी. |
| 34. | संपतकुमार आर. |
| 35. | पाल जी. बी. |
| 36. | सिंह यू. एस. |

डॉ. जी. डी. पुंगले
निर्देशक

सं. पीडी/7(6)/2004-आर-4/1169--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारियों को वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों ग्रेड 'सी' के रूप में 1 फरवरी, 2004 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से इसी अनुसंधान केन्द्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं :-

| क्रम संख्या | अधिकारी का नाम | वर्तमान पद |
|-------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री थिओडोरे सौरेंग | एसबी |
| 2. | श्रीप्रसाद वी. | एसए/डी |
| 3. | मस्तुराम डी. एच. | एसबी |
| 4. | विश्वेका नंद झा | एसबी |
| 5. | राव पी. आर. एम. | एसबी |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|----------------------------|--------|
| 6. | प्रवीण कुमार पी. | एसबी |
| 7. | सुगंधी सुरेश श्रीमती | एसबी |
| 8. | असनाली एस. एल. | एसबी |
| 9. | सिंह आर. के. | एसबी |
| 10. | नागीलक्ष्मी एच. एस. कुमारी | एसबी |
| 11. | गोयल ए. एच. श्रीमती | एसबी |
| 12. | कुलकर्णी डी. बी. | एसए/बी |
| 13. | ठाकुर वी. एम. श्रीमती | एसबी |
| 14. | सुनील सी. | एसबी |
| 15. | स्वर्णा टी. श्रीमती | एसबी |
| 16. | झरेकर एच. एस. | एसबी |
| 17. | थॉमस बिजु | एसबी |
| 18. | वाल एस. के. | एसबी |
| 19. | सौदामिनी एन. श्रीमती | एसबी |
| 20. | थरियन टी. सी. | एसबी |

डॉ. जी. डी. पुंगले
नियंत्रक

सं. पीडी/7(5)/2004-आर-4/1169--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारियों को वैज्ञानिक अधिकारियों/ इंजीनियरों ग्रेड 'डी' के रूप में 1 फरवरी, 2004 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से इसी अनुसंधान केन्द्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं :-

| क्रम संख्या | अधिकारी का नाम | वर्तमान पद |
|-------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री | |
| 1. | काटदरे जी. ए. श्रीमती | सी |
| 2. | भारद्वाज विवेक | सी |
| 3. | शेलके बी. के. | एसए/ई |
| 4. | सक्सेना आर. के. | सी |
| 5. | करंडे ए. पी. | सी |
| 6. | पांडे बी. सी. | सी |
| 7. | राजपूत वी. आर. | सी |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|----------------------------|-------|
| 8. | बालकृष्ण एस. | एसए/ई |
| 9. | पौटे एम. बी. | सी |
| 10. | सुजाता राधाकृष्ण श्रीमती | सी |
| 11. | रमाशंकर राम | एसए/ई |
| 12. | शक्या वी. आर. | सी |
| 13. | सरवार जे. एन. | सी |
| 14. | वशिष्ठ रमेश | सी |
| 15. | बाबुराजन ए. | सी |
| 16. | शर्मा जे. डी. | सी |
| 17. | मधु बाबु जे. | सी |
| 18. | सोरेन डी. सी. | सी |
| 19. | गंगावणे एस. एस. डॉ. | सी |
| 20. | वेणुगोपालन रमणी श्रीमती | सी |
| 21. | काले डी. एम. | सी |
| 22. | शर्मा एस. सी. | सी |
| 23. | धर बी. के. | सी |
| 24. | कदम एम. पी. | सी |
| 25. | जैन पी. के. | सी |
| 26. | नाबर एस. जे. डॉ. (श्रीमती) | सी |
| 27. | सैनी मंजु श्रीमती | सी |
| 28. | क्षमा श्रीवास्तव श्रीमती | सी |
| 29. | अरुणा कौशिक कुमारी | सी |
| 30. | हरीदास गोपालकृष्ण नायर | सी |
| 31. | बांबी मैथ्यु डॉ. | सी |
| 32. | गांवकर उमा पी. श्रीमती | सी |
| 33. | अनुराधा आर. श्रीमती | सी |
| 34. | अशोक कुमार पी. | सी |
| 35. | हरिकुमार एम. | सी |
| 36. | विश्वनाथन पी. | सी |
| 37. | हरीन्द्रन के. एन. | सी |

डॉ. जी. डी. पुंगले
नियंत्रक

दिनांक 11 अक्टूबर 2004

सं. स्था. 1-ए/6337--

| क्रम सं. | अधिकारी का नाम | पदभार छोड़ने के पद का नाम | पदभार छोड़ने की तिथि | कारण |
|----------|---|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | श्रीमती बर्नाली घोष देव | वैज्ञानिक अधिकारी/डी | 12.08.2004 | त्यागपत्र |
| 2. | श्रीमती सिमरन खुराना | वैज्ञानिक अधिकारी/डी | 13.08.2004 | त्यागपत्र |
| 3. | श्री जिनेन्द्र गुगालिया | वैज्ञानिक अधिकारी/सी | 16.08.2004 | त्यागपत्र |
| 4. | डॉ. बालाकृष्ण रवीकुमार | वैज्ञानिक अधिकारी/ई | 20.08.2004 | त्यागपत्र |
| 5. | श्री सरीपल्ली सुर्यनारायणा | वैज्ञानिक अधिकारी/जी | 23.08.2004 (पूर्वाह्न) | स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति |
| 6. | डॉ. अरुण गोविंद पागे | वैज्ञानिक अधिकारी/एच | 31.08.2004 | अधिवर्षिता |
| 7. | श्री हरीश कुमार कौरा | उत्कृष्ट वैज्ञानिक | 31.08.2004 | अधिवर्षिता |
| 8. | श्री हरीहरन कोलुथु मनी | वैज्ञानिक अधिकारी/ई | 31.08.2004 | अधिवर्षिता |
| 9. | श्री चेमाकल परमेश्वरन रवीन्द्रन नायर | वैज्ञानिक अधिकारी/ई | 31.08.2004 | अधिवर्षिता |
| 10. | श्री सुबोध कुमार गुप्ता | वैज्ञानिक अधिकारी/जी | 31.08.2004 | अधिवर्षिता |
| 11. | श्री सुरेशचंद्र धास्कर वेदक | वैज्ञानिक अधिकारी/ई | 31.08.2004 | अधिवर्षिता |
| 12. | श्रीमती सुचित्रा दत्तात्रय जोशी | वैज्ञानिक अधिकारी/ई | 31.08.2004 | अधिवर्षिता |
| 13. | श्री प्रताप बालकृष्ण सावंत | वैज्ञानिक अधिकारी/ई | 31.08.2004 | अधिवर्षिता |
| 14. | श्री विश्वास वासुदेव तांबवेकर | वैज्ञानिक अधिकारी/ई | 31.08.2004 | अधिवर्षिता |
| 15. | श्री अब्दुल रहीम उमर मुशरिफ | वैज्ञानिक अधिकारी/ई | 31.08.2004 | अधिवर्षिता |

जी. डी. पंगले
नियंत्रकपरमाणु ऊर्जा विभाग
प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर-452013, दिनांक 12 अक्टूबर 2004

सं. केट/स्था.-I/180/988--अधिवर्षिता की आयु प्राप्ति के फलस्वरूप डॉ. एम. एम. बेमलखेडकर ने प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में दिनांक सितम्बर 30, 2004 अपराह्न को वैज्ञानिक अधिकारी/जी, के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

पी. मोहन बाबू
प्रशासनिक अधिकारी-III

क्रय और भंडार निदेशालय

मुम्बई-4000948, दिनांक 4 अक्टूबर 2004

सं. क्रमनि/10015/भर्ती/4124--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने भंडारी श्री एस. मनोहरन को इसी निदेशालय

में दिनांक 19.07.2004 (पूर्वाह्न) से 31.08.2004 (अपराह्न) तक, रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में सहायक भंडार अधिकारी के पद पर तदर्थ आकार पर नियुक्त किया है।

किसन टी. लोंडे
प्रशासनिक अधिकारी-III

भारी पानी बोर्ड

मुम्बई-400094, दिनांक 22 अक्टूबर 2004

सं. भापाके/भर्ती/5(2)-सूची/2004/822--मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय), श्री फाल्गुनीदेवी वेरुसकर, आन्ध्रप्रदेश केन्द्र-III, भारी पानी संयंत्र (सूतीकोरीन) को दिनांक 14 जून, 2004 (पूर्वाह्न) से प्रभावी रूप में जुलाई 29, 2004 (अपराह्न) तक रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में सहायक कार्यकारी अधिकारी के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

डी. एस. राव
प्रशासनिक अधिकारी

(इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र)

कल्पावकम-603102, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

सं. इंगांपअके/ए-11013/2004-भर्ती/376--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को इस विभाग के इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पावकम में सितम्बर 1, 2004 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड "सी" के पद पर वेतनमान 8,000-275-13,500/- रु. में प्रारंभिक वेतन 8,825/- रु. पर नियुक्त करते हैं :-

| क्रम सं. | प.प.सं./अनुभाग | नाम |
|----------|------------------|-----------------------|
| 1. | 6444/आरपीजी | श्री सतीश कुमार वेलगा |
| 2. | 6445/आरपीजी | श्री मेहुल एस. भट्ट |
| 3. | 6446/आरएसडी/एसजी | कुमारी कांचन कुशवाहा |

एम. वेणुगोपालन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. इंगांपअके/वैमि/407/2004-भर्ती/377--राष्ट्रपति, श्री एन. अनंत नारायणन को इस विभाग के इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पावकम में 15.07.2004 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक अस्थायी क्षमता में निजी सचिव के पद पर वेतनमान 6,500-200-10,500/- रुपये में प्रारंभिक वेतन 8,500/- रु. पर नियुक्त करते हैं।

एम. वेणुगोपालन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. इंगांपअके/वैमि/6437/2004-भर्ती/378--राष्ट्रपति, श्री एम. रामकृष्णन को इस विभाग के इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पावकम में 11.08.2004 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक अस्थायी क्षमता में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड "सी" के पद पर वेतनमान 8,000-275-13,500/- रुपये में प्रारंभिक वेतन 8,000/- रु. पर नियुक्त करते हैं।

एम. वेणुगोपालन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. इंगांपअके/वैमि/6434/2004-भर्ती/379--राष्ट्रपति, श्री टी. कार्तिकेयन को इस विभाग के इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पावकम में 21.07.2004 के पूर्वाह्न से अगामी आदेश तक अस्थायी क्षमता में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड "डी" के पद पर वेतनमान 10,000-325-15,200/- रुपये में प्रारंभिक वेतन 10,000/- रु. पर नियुक्त करते हैं।

एम. वेणुगोपालन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. इंगांपअके/ए-11013/2004-भर्ती/380--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को इस विभाग के इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र,

कल्पावकम में सितम्बर 1, 2004 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड "सी" के पद पर वेतनमान 8,000-275-13,500/- रुपये में प्रारंभिक वेतन 9,100/- रु. पर नियुक्त करते हैं :-

| क्रम सं. | प.प.सं./अनुभाग | नाम |
|----------|--------------------|-------------------------------|
| 1. | 6441/ईडी | श्री एम. एस. चन्द्रमौली शर्मा |
| 2. | 6442/ओईडएम/आरओएमजी | श्री कल्याण राव कुच्चिपुडी |
| 3. | 6443/एसटीडी/ईडीजी | श्री शिव प्रकाश रूहेला |
| 4. | 6447/सीजी | श्री एस. बाल कृष्णन |
| 5. | 6448/सीजी | श्री शुद्धसत्व चोष |
| 6. | 6449/आरपीजी | श्री प्रशांत जी. नायर |

एम. वेणुगोपालन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. इंगांपअके/वैमि/6435/2004-भर्ती/381--राष्ट्रपति, श्री किनसुख कुमार दास को इस विभाग के इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पावकम में 23.07.2004 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक अस्थायी क्षमता में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड "सी" के पद पर वेतनमान 8,000-275-13,500/- रुपये में प्रारंभिक वेतन 8,000/- रु. पर नियुक्त करते हैं।

एम. वेणुगोपालन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

(परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय)

हैदराबाद-500016, दिनांक 10 अक्टूबर 2004

सं. ए.एम.डी-4/1/2004-भर्ती/1446--निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सामने लिखित तारीख से आगामी आदेशों तक इसी निदेशालय में रु. 7,450-225-11,500/- के पुनः संशोधित वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/एसबी के रूप में स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते हैं :-

| क्रम सं. | अधिकारी का नाम | वर्तमान ग्रेड | कार्यभार ग्रहण करने की तारीख |
|----------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| | श्री/श्रीमती | | |
| 1. | जी. सरवन कुमार | वैज्ञानिक सहायक/सी | 01.02.2004 |
| 2. | टी. रामा भद्रैय्या | वैज्ञानिक सहायक/सी | 01.02.2004 |
| 3. | टी. सी. सुनील | वैज्ञानिक सहायक/सी | 01.02.2004 |
| 4. | एम. श्रीनिवास रेड्डी | वैज्ञानिक सहायक/सी | 01.02.2004 |

आर. एम. सिन्हा
निदेशक

सं. ए.एम.डी-4/1/2004-भर्ती/1447--राष्ट्रपति महोदय, मुम्बई।
खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद
के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों को उनके नाम के
सामने लिखित तारीख से आगामी आदेशों तक इसी निदेशालय में प्रत्येक
के सामने (यहां नीचे वर्णित वेतनमान युक्त) उल्लिखित ग्रेड में स्थापनापन्न
क्षमता में नियुक्त करते हैं :--

| क्रम सं. | अधिकारी का नाम | वर्तमान ग्रेड | पदोन्नत ग्रेड | धारित स्थायी पद | कार्यभार ग्रहण करने की तारीख |
|------------------|--------------------------------|---|--|----------------------|------------------------------|
| श्री/श्रीमती/डॉ. | | | | | |
| 1. | एल. सिरी राम रेड्डी वै.अधि./डी | वै.अधि./ई (रु. 12000- 375-16500) | वै.अधि./ई | ग्रुप-बी (तकनीकी) | 01-2-2004 |
| 2. | टी. अरिवल्लगन | वै.अधि./डी | वै.अधि./ई | ग्रुप-ए (वैज्ञा.) | 01-2-2004 |
| 3. | के. विजय कुमारे | वै.अधि./डी | वै.अधि./ई | ग्रुप-ए (वैज्ञा.) | 01-2-2004 |
| 4. | उषा नाथन | वै.अधि./डी | वै.अधि./ई | ग्रुप-सी (तकनीकी) | 01-2-2004 |
| 5. | के. श्रीनिवास | वै.अधि./डी | वै.अधि./ई | -- | 01-2-2004 |
| 6. | रूपा कोत्त | वै.अधि./सी (रु. 10000- 325-13200) | वै.अधि./डी | ग्रुप-सी (तकनीकी) | 01-2-2004 |
| 7. | ए.बी. रघुनाथ | वै.अधि./सी | वै.अधि./डी | ग्रुप-सी (तकनीकी) | 01-2-2004 |
| 8. | के.सी. राजन | वै.अधि./सी | वै.अधि./डी | वैज्ञानिक सहा-बी | 01-2-2004 |
| 9. | अनिल दत्त | वै.अधि./सी | वै.अधि./डी | वै.अधि./सी | 11-2-2004 |
| 10. | राजीव रंजन | वै.अधि./सी | वै.अधि./डी | वै.अधि./सी | 01-2-2004 |
| 11. | एच.एस. राजारामन | वै.अधि./सी | वै.अधि./डी | वै.अधि./सी | 01-2-2004 |
| 12. | ए.के. द्विवेदी | वै.अधि./सी | वै.अधि./डी | वै.अधि./सी | 01-2-2004 |
| 13. | पी.डी.एम. प्रताप | वै.अधि./सी | वै.अधि./डी | ग्रुप-सी (तकनीकी) | 01-2-2004 |
| 14. | पी.के. गुर्वे | वै.अधि./ एस.बी | वै.अधि./सी (रु. 8000- 275-13500) | ग्रुप-सी (तकनीकी) | 01-2-2004 |
| 15. | सी.बी. मैठणी | वै.अधि./ एस.बी | वै.अधि./सी | ग्रुप-सी (तकनीकी) | 01-2-2004 |

ओर. एम. सिन्हा
निदेशक

हैदराबाद-500016, दिनांक 15 अक्टूबर 2004

सं. पखनि-16/1/95-भर्ती/1497--निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण
एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा श्री डी. सी.
मीना, सुरक्षा अधिकारी (वेतनमान रु. 6500-200-10500), बी.ए.
आर.सी.(टी) को दिनांक 16.08.2004 धूर्वाह से आगामी आदेश तक

2-306 GI/2004

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग
में सहायक कार्मिक अधिकारी (वेतनमान रु. 6500-200-10,500) के
रूप में नियुक्त करते हैं।

श्रीमती आगनस बैसिली
मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी

अन्तरिक्ष विभाग
(सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र शार)

श्रीहरिकोट-524124, दिनांक 5 अक्टूबर 2004

सं. एससीएफ/पीजीए/स्थापना-II/15/04--नियंत्रक, शार केन्द्र,
निम्नांकित कर्मचारियों को रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में
पदोन्नति पर प्रत्येक कर्मचारी के आगे अंकित तारीखों से स्थापनापन्न
क्षमता के रूप में आगामी आदेश जारी होने तक सतीश धवन अन्तरिक्ष
केन्द्र शार, श्रीहरिकोट में नियुक्त करते हैं :--

| क्रम सं. | नाम | पदनाम | नियुक्ति की तारीख |
|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| सर्वश्री/श्रीमती | | | |
| 1. | कै. सुरेश | सहायक प्रशासन अधिकारी | 03.04.2004 |
| 2. | रमा श्रीनिवासन | सहायक प्रशासन अधिकारी | 22.04.2004 |
| 3. | वी. वेंकटेश्वरलू | वैयक्तिक सहायक- सी | 23.06.2004 |
| 4. | जी. रामा राव | परियोजना आयुक्तिक सहायक | 04.08.2004 |

वी. प्रसाद
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रभान, कृते नियंत्रक

द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र

तिरुवनन्तपुरम-695547, दिनांक 30 सितम्बर 2004

सं. 2/2(5.1)/2004-स्था.--नियंत्रक, द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र
एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रत्येक के आगे दिए गए दिनांक के
धूर्वाह से आगामी आदेशों तक अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली
केन्द्र में पदोन्नति पर प्रत्येक के आगे दशाए पदों पर स्थापनापन्न रूप में
नियुक्त करते हैं :--

| क्रम सं. | नाम | जिस पद पर पदोन्नति | पदोन्नति की तिथि |
|------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| सर्वश्री/श्रीमती | | | |
| 01. | पी. सेन्तिल सेल्वन | सहायक क्रय व भंडार अधिकारी | 11.11.2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--------------------|----------------------------|------------|
| 02. | एन. सुजन कुमार | सहायक क्रय व भंडार अधिकारी | 21.04.2004 |
| 03. | के. वी. सेबस्टियन | वैयक्तिक सहायक 'सी' | 24.05.2004 |
| 04. | टी. चेल्लतुरै | वैयक्तिक सहायक 'सी' | 25.05.2004 |
| 05. | आर. गीता | वैयक्तिक सहायक 'सी' | 07.06.2004 |
| 06. | एम. आर. प्रेमकुमार | सहायक क्रय व भंडार अधिकारी | 07.06.2004 |
| 07. | के. मुरलीधरन नायर | परियोजना आशुलिपि सहायक | 04.08.2004 |

आर. मुरुगेशन
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-3, दिनांक 11 अक्टूबर 2004

सं. ए-32013/4/2004-स्था.-2--राष्ट्रपति, महानिदेशक, नागर विमानन कार्यालय के श्री एन. एस. मुन्डे, निदेशक (अनुसन्धान एवं विकास) को उप महानिदेशक (अनुसन्धान एवं विकास) के ग्रेड में, 16,400-450-20,000/- रुपये के वेतनमान में, दिनांक 08.10.2004 (पूर्वाह्न) से 6 माह के लिए या जब तक यह पद नियमित रूप से भरा जाए, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उप महानिदेशक (अनुसन्धान एवं विकास) के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति होने पर श्री एन. एस. मुन्डे की नियुक्ति महानिदेशक, नागर विमानन के कार्यालय, नई दिल्ली मुख्यालय में की जाती है।

चानन राम
उपनिदेशक, प्रशासन

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड

एन.एच.-4, फरीदाबाद-121001, दिनांक 18 अगस्त 2004

सं. 3-1494/2004-इंजि.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री मंगत राम को दिनांक 1.7.2004 (पूर्वाह्न) में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में प्रभारी वेधक के पद पर सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (राजपत्रित) रुपये 7,500-250-12,000/- में अस्थाई रूप में नियुक्त किया जाता है।

आशिष चक्रवर्ती
अधिशाली अभियन्ता
कृते निदेशक (प्रशा.)

सं. 3-1493/2004-इंजि.अनु.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री दयाल चन्द को दिनांक 12.7.2004 (पूर्वाह्न) में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में प्रभारी वेधक के पद पर सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (राजपत्रित) रुपये 7,500-250-12,000/- में अस्थाई रूप में नियुक्त किया जाता है।

आशिष चक्रवर्ती
अधिशाली अभियन्ता
कृते निदेशक (प्रशा.)

कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फोकस पोर्टफोलियो प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 अक्टूबर 2004

सं. एफटीएस-560(5)/एसईएस/55/75060/291/2153--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स फोकस पोर्टफोलियो प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए.बी.पी. इनवायरमेंटल सल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 अक्टूबर 2004

सं. 560/74730/9685--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ए.बी.पी. इनवायरमेंटल सल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. साह
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर. पी. जी. एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 अक्टूबर 2004

सं. 560/55621/9689--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती

है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आर. पी. जी. एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. साह
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टाइम वर्ल्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 अक्टूबर 2004

सं. 560(3)/55/70426/9693--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स टाइम वर्ल्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. साह
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जी.आर. इक्युपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 अक्टूबर 2004

सं. 560(3)/55/74324/9696--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जी.आर. इक्युपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. साह
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बेकर बन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 अक्टूबर 2004

सं. एफटीएस-560(5)/एसईएस/55/111768/239/2282 -- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स बेकर बन इण्डिया

प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विन्डलेस इन्फोरमेशन सिस्टम्स लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 अक्टूबर 2004

सं. एफटीएस-560(5)/55/103649/2239--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स विन्डलेस इन्फोरमेशन सिस्टम्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वेनस हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 अक्टूबर 2004

सं. एफटीएस-560(5)/एसईएस/55/89325/306/2392--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स वेनस हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुमन फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 अक्टूबर 2004

सं. एफटीएस-560(5)/एसईएस/05/33177/2396--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स सुमन फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लीथो कलरक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 अक्टूबर 2004

सं. 560(5)/55/103204/2399--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स लीथो कलरक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कन्टेन्टगार्ड काम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 अक्टूबर 2004

सं. 60(5)/55/104405/2402--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स कन्टेन्टगार्ड काम प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टेविराना गार्डन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 अक्टूबर 2004

सं. एफटीएस-560(5)/एसईएस/55/99137/2405--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स टेविराना गार्डन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कासबरी एक्विजम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 अक्टूबर 2004

सं. 560(5)/55/90827/2408--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स कासबरी एक्विजम प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स अनमोल एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 8 अक्टूबर 2004

सं. आर.ओ.सी./560/2101/1376--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स अनमोल एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स कामधेनु ईट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 11 अक्टूबर 2004

सं. आर.ओ.सी./560/5783/1382--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स कामधेनु ईट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं निम्नलिखित कम्पनियों (संलग्न सूची के अनुसार) के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2004

सं. आर.ओ.सी./560/1323--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त निम्नलिखित कम्पनियाँ (जिनकी सूची संलग्न है--कुल 548 कम्पनियाँ) यदि इनके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियाँ विघटित कर दी जाएंगी :--

| क्रम सं. | कम्पनी का नाम | रजिस्ट्रेशन सं./सिन नम्बर |
|----------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01. | मैसर्स दादा जिन्दुत्सुरी ज्ञान सिन्धु लिमिटेड | 4093/यू80302आरजे1987पीटीसी004093 |
| 02. | मैसर्स मैग प्राईवेट लिमिटेड | 3663/यू74300आरजे1986पीटीसी003663 |
| 03. | मैसर्स तुषार कैपिटल सर्विस प्राईवेट लिमिटेड | 8190/यू28933आरजे1994पीटीसी008190 |
| 04. | मैसर्स स्टार लाइट लीफिन लिमिटेड | 9141/यू65910आरजे1994पीटीसी009141 |
| 05. | मैसर्स मालती एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड | 5709यू55101आरजे1990पीटीसी005709 |
| 06. | मैसर्स स्विन्सरा स्ट्रिप्स प्राईवेट लिमिटेड | 2235/यू27107आरजे1981पीटीसी002235 |
| 07. | मैसर्स वधवा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 14645/यू60210आरजे1980पीटीसी014645 |
| 08. | मैसर्स जिवतराम चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड | 1201/यू55101आरजे1965पीटीसी001201 |
| 09. | मैसर्स सत्यम रॉयन प्राईवेट लिमिटेड | 4556/यू17117आरजे1988पीटीसी004556 |
| 10. | मैसर्स श्री बजरंग टिम्बर प्राईवेट लिमिटेड | 14219/यू20211आरजे1997पीटीसी014219 |
| 11. | मैसर्स ओसो कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड | 10325/यू67120आरजे1995पीटीसी010325 |
| 12. | मैसर्स गोलेछा एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड | 2320/यू51101आरजे1981पीटीसी002320 |
| 13. | मैसर्स सुरवीवाल रब्वर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड | 15069/यू25191आरजे1998पीटीसी015069 |
| 14. | मैसर्स लेनिएन्ट टेक्स प्राईवेट लिमिटेड | 13993/यू17124आरजे1997पीटीसी013993 |
| 15. | मैसर्स नवज्योति पब्लिसिटी एण्ड अलाईड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड | 2947/यू74300आरजे1984पीटीसी002947 |
| 16. | मैसर्स अनुकूल सिन्टेक्स प्राईवेट लिमिटेड | 4607/यू17118आरजे1988पीटीसी004607 यू14101आरजे1995पीटीसी010350 |
| 17. | मैसर्स श्रीराज कृष्णा परनामी एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड | 13015/यू51311आरजे1996पीटीसी013015 |
| 18. | मैसर्स सुप्रिमो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड | 13036/यू29299आरजे1996पीटीसी013036 |
| 19. | मैसर्स श्री गणेश फिनसर्व प्राईवेट लिमिटेड | 13091/यू67120आरजे1997पीटीसी013091 |
| 20. | मैसर्स रिजेन्सी मोटर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 13112/यू34103आरजे1997पीटीसी013112 |
| 21. | मैसर्स हीरा ट्रेड लिक्स प्राईवेट लिमिटेड | 13148/यू27107आरजे1997पीटीसी013148 |
| 22. | मैसर्स श्री शंकर ऑयल्स प्राईवेट लिमिटेड | 13153/यू15142आरजे1997पीटीसी013153 |
| 23. | मैसर्स राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लिमिटेड | 13170/यू40102आरजे1997पीटीसी013170 |
| 24. | मैसर्स धरमराज लीज एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड | 13249यू65910आरजे1997पीटीसी013249 |
| 25. | मैसर्स जसप्रीत डेयरी प्राईवेट लिमिटेड | 13260/यू15203आरजे1997पीटीसी013260 |
| 26. | मैसर्स क्वालिटी फिनकेप प्राईवेट लिमिटेड | 13275/यू67120आरजे1997पीटीसी013275 |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|---|-----------------------------------|
| 27. | मैसर्स आईपीई प्रोफेशनल्स प्राईवेट लिमिटेड | 13294/यू67190आरजे1997पीटीसी013294 |
| 28. | मैसर्स संस्कृति एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 13299/यू18101आरजे1997पीटीसी013299 |
| 29. | मैसर्स ग्लोरी फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 13403/यू15499आरजे1997पीटीसी013403 |
| 30. | मैसर्स नरुका होलीडे रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 13415/यू55102आरजे1997पीटीसी013415 |
| 31. | मैसर्स अंखलेश्वर मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड | 13507/यू14101आरजे1997पीटीसी013507 |
| 32. | मैसर्स अनु टेक्सस्पेयर प्राईवेट लिमिटेड | 13513/यू45201आरजे1997पीटीसी013513 |
| 33. | मैसर्स जारखण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 13681/यू17118आरजे1997पीटीसी013681 |
| 34. | मैसर्स राजस्थान लिथोट्रीप्सी हास्पिटल एण्ड यूरोलाजी रिसर्च सेंटर प्राईवेट लिमिटेड | 13720/यू85110आरजे1997पीटीसी13720 |
| 35. | मैसर्स पेन ब्यूल्ड प्राईवेट लिमिटेड | 13722/यू26939आरजे1997पीटीसी013722 |
| 36. | मैसर्स वैद्या टूरस एण्ड कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड | 13751/यू63040आरजे1997पीटीसी013751 |
| 37. | मैसर्स नितिशा ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड | 13758/यू18101आरजे1997पीटीसी013758 |
| 38. | मैसर्स एजेएम फूड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड | 13822/यू28992आरजे1997पीटीसी013822 |
| 39. | मैसर्स त्रिसर लाईम एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड | 13829/यू24117आरजे1997पीटीसी013829 |
| 40. | मैसर्स नन्दा मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड | 13867/यू14101आरजे1997पीटीसी013867 |
| 41. | मैसर्स एन. आर. फिनकेप प्राईवेट लिमिटेड | 13882/यू67120आरजे1997पीटीसी013882 |
| 42. | मैसर्स माधव ऑटो पार्क प्राईवेट लिमिटेड | 13926/यू34300आरजे1997पीटीसी013926 |
| 43. | मैसर्स पालरिवाल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 13968/यू45201आरजे1997पीटीसी013968 |
| 44. | मैसर्स भारत एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट प्राईवेट लिमिटेड | 13500/यू80302आरजे1997पीटीसी013500 |
| 45. | मैसर्स जयपुर पब्लिक स्कूल लिमिटेड | 14000/यू80211आरजे1997पीटीसी014000 |
| 46. | मैसर्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग लिमिटेड | 14013/यू52201आरजे1997पीटीसी014013 |
| 47. | मैसर्स स्टार्स कार्ड प्राईवेट लिमिटेड | 14045/यू92199आरजे1997पीटीसी014045 |
| 48. | मैसर्स धरती धन मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड | 14107/यू14102आरजे1997पीटीसी014107 |
| 49. | मैसर्स यूरो कॉम एन्टरप्राइजेज (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड | 14172/यू18101आरजे1997पीटीसी014172 |
| 50. | मैसर्स कनबरो कैप्सुल्स प्राईवेट लिमिटेड | 14203/यू24232आरजे1997पीटीसी014203 |
| 51. | मैसर्स सूर्या व्हीट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 14279/यू15311आरजे1997पीटीसी014279 |
| 52. | मैसर्स मिड लैण्ड क्लब प्राईवेट लिमिटेड | 14309/यू92419आरजे1997पीटीसी014309 |
| 53. | मैसर्स अम्बिका हार्डवेयर प्राईवेट लिमिटेड | 14404/यू28939आरजे1997पीटीसी014404 |
| 54. | मैसर्स श्रेष्ठ मेडीसिन प्राईवेट लिमिटेड | 14450/यू24232आरजे1997पीटीसी014450 |
| 55. | मैसर्स सच्चा सूर्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड | 14445/यू18108आरजे1997पीटीसी014445 |
| 56. | मैसर्स ओडिसी होटल प्राईवेट लिमिटेड | 14457/यू55101आरजे1997पीटीसी014457 |
| 57. | मैसर्स बी एण्ड बी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 14611/यू18101आरजे1998पीटीसी014611 |
| 58. | मैसर्स गोमती सागर आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड | 14499/यू63022आरजे1997पीटीसी014499 |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--|-----------------------------------|
| 59. | मैसर्स डीएपी वेंचर प्राईवेट लिमिटेड | 14657/यू55101आरजे1998पीटीसी014657 |
| 60. | मैसर्स राज बेगू हेरिटेज रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 14744/यू55102आरजे1998पीटीसी014744 |
| 61. | मैसर्स पूर्णिमा अजय फिन एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड | 14764/यू67120आरजे1998पीटीसी014764 |
| 62. | मैसर्स ओवरसीज कॉलोनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड | 14975/यू45201आरजे1998पीटीसी014975 |
| 63. | मैसर्स डॉ. नरेन्द्र होस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड | 14621/यू85110आरजे1998पीटीसी014621 |
| 64. | मैसर्स शाकम्भरी विल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड | 15017/यू51432आरजे1998पीटीसी015017 |
| 65. | मैसर्स नोवा केयर फार्माकेम प्राईवेट लिमिटेड | 15060/यू24232आरजे1998पीटीसी015060 |
| 66. | मैसर्स इण्टर सिटी कार्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड | 15094/यू74999आरजे1998पीटीसी015094 |
| 67. | मैसर्स श्रीगणेश एग्रोकोन प्राईवेट लिमिटेड | 15175/यू72100आरजे1998पीटीसी015175 |
| 68. | मैसर्स एडीएमजी आर्कटेक्ट एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड | 15189/यू51432आरजे1998पीटीसी015189 |
| 69. | मैसर्स चिराग रेजीडेन्सी रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 15232/यू55102आरजे1998पीटीसी015232 |
| 70. | मैसर्स मोती ज्वेलरी प्राईवेट लिमिटेड | 15251/यू36111आरजे1998पीटीसी015251 |
| 71. | मैसर्स नाजू मीडिया सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड | 15252/यू72200आरजे1998पीटीसी015252 |
| 72. | मैसर्स अल्बुम नेट प्राईवेट लिमिटेड | 15258/यू72100आरजे1998पीटीसी015258 |
| 73. | मैसर्स बी.सी.एम. मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड | 15274/यू14101आरजे1998पीटीसी015274 |
| 74. | मैसर्स लक्ष्मी पावरलूम फैक्ट्री प्राईवेट लिमिटेड | 15277/यू74999आरजे1998पीटीसी015277 |
| 75. | मैसर्स सर्वोदय हर्ब्स फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड | 15312/यू24234आरजे1999पीटीसी015312 |
| 76. | मैसर्स मानसून रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 15388/यू55102आरजे1999पीटीसी015388 |
| 77. | मैसर्स कनास्ता कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड | 15413/यू72100आरजे1999पीटीसी015413 |
| 78. | मैसर्स श्री श्याम इरीगेशन प्राईवेट लिमिटेड | 15556/यू29212आरजे1999पीटीसी015556 |
| 79. | मैसर्स प्रदीप सिनेविजन प्राईवेट लिमिटेड | 14176/यू92111आरजे1997पीटीसी014176 |
| 80. | मैसर्स अजयमेरू एग्रोएक्वा प्राईवेट लिमिटेड | 13809/यू15142आरजे1997पीटीसी013809 |
| 81. | मैसर्स मोनिका कैपिटल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड | 13404/यू67120आरजे1997पीटीसी013404 |
| 82. | मैसर्स नेसटोर्स मल्वेरी लिमिटेड | 15506/यू15432आरजे1999पीटीसी015506 |
| 83. | मैसर्स नरुका सिन्युरिटी एण्ड डिटेक्टिव सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड | 15619/यू74920आरजे1999पीटीसी015619 |
| 84. | मैसर्स राजगरहिया कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड | 15669/यू63022आरजे1999पीटीसी015669 |
| 85. | मैसर्स गेमटेक टूल्स एण्ड बिट्स प्राईवेट लिमिटेड | 15711/यू28939आरजे1999पीटीसी015711 |
| 86. | मैसर्स मोटोरेप एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 15786/यू24246आरजे1999पीटीसी015786 |
| 87. | मैसर्स नरसिंह प्लान्टेशन प्राईवेट लिमिटेड | 15790/यू02001आरजे1999पीटीसी015790 |
| 88. | मैसर्स जयपुर बायोफर्टिलाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड | 15795/यू24124आरजे1999पीटीसी015795 |
| 89. | मैसर्स कोसेला हास्पिटलिटी प्राईवेट लिमिटेड | 15811/यू85110आरजे1999पीटीसी015811 |
| 90. | मैसर्स मेवा आइस प्राईवेट लिमिटेड | 15918/यू63022आरजे1999पीटीसी015918 |
| 91. | मैसर्स जीएससी इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड | 16962/यू24232आरजे1999पीटीसी015962 |

| 1 | 2 | 3 |
|------|--|-----------------------------------|
| 92. | मैसर्स फोर्ट टेक्नोलोजी कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 15969/यू74210आरजे1999पीटीसी015969 |
| 93. | मैसर्स वेन एस्थेटिक क्रिएशन प्राईवेट लिमिटेड | 15983/यू17118आरजे1999पीटीसी015983 |
| 94. | मैसर्स स्काईलाइन इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड | 15675/यू72200आरजे1999पीटीसी015675 |
| 95. | मैसर्स श्री करणी दाल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड | 1042/यू15313आरजे1957पीटीसी001042 |
| 96. | मैसर्स माहेश्वरी मिनरल्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड | 2409/यू14107आरजे1982पीटीसी002409 |
| 97. | मैसर्स बैंकर्स बुक पब्लिशिंग हाउस प्राईवेट लिमिटेड | 2257/यू22122आरजे1981पीटीसी002257 |
| 98. | मैसर्स एलबी ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड | 2939/यू63040आरजे1984पीटीसी002939 |
| 99. | मैसर्स जोधपुर सीमेन्ट्स इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड | 2878/यू26943आरजे1984पीटीसी002878 |
| 100. | मैसर्स एमडेक डाइज प्राईवेट लिमिटेड | 1794/यू24114आरजे1978पीटीसी001794 |
| 101. | मैसर्स सराफ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड | 2304/यू70101आरजे1981पीटीसी002304 |
| 102. | मैसर्स ब्ल्यू माल्ट (इण्डिया) लिमिटेड | 1566/यू15532आरजे1974पीएलसी001566 |
| 103. | मैसर्स युनाइटेड आयरन एण्ड स्टील मरचेन्ट एसोसियेशन, (श्रीगंगानगर) प्राईवेट लिमिटेड | 959/यू27101आरजे1953पीटीसी000959 |
| 104. | मैसर्स बन्नीदास गिरधरदास प्राईवेट लिमिटेड | 1374/यू18101आरजे1971पीटीसी001374 |
| 105. | मैसर्स मारू एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 2798/यू51214आरजे1983पीटीसी002798 |
| 106. | मैसर्स देव राजस्थान ग्लेण्ड टाईल्स लिमिटेड | 2102/यू31300आरजे1980पीएलसी002102 |
| 107. | मैसर्स खालसा मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड | 2357/यू27101आरजे1981पीटीसी002357 |
| 108. | मैसर्स मेरू थियेटर्स प्राईवेट लिमिटेड | 2311/यू92120आरजे1981पीटीसी002311 |
| 109. | मैसर्स टोडी बुडन्स मिल्स लिमिटेड | 1811/यू17117आरजे1978पीएलसी001811 |
| 110. | मैसर्स सुपर मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड | 2565/यू14101आरजे1982पीटीसी002565 |
| 111. | मैसर्स अंकुर इस्पात प्राईवेट लिमिटेड | 2670/यू29130आरजे1983पीटीसी002670 |
| 112. | मैसर्स कासलीवाल ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड | 1328/यू26932आरजे1970पीटीसी001328 |
| 113. | मैसर्स जयपुर इण्डस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग कार्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड | 391 |
| 114. | मैसर्स आर्या सेठिया मौदाल लिमिटेड | 31 |
| 115. | मैसर्स श्री गुरूनानक स्टील मिल प्राईवेट लिमिटेड | 2300/यू27107आरजे1981पीटीसी002300 |
| 116. | मैसर्स शिव पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड | 2689/यू22122आरजे1983पीटीसी002689 |
| 117. | मैसर्स सन शाईन लकी सेविंग प्राईवेट लिमिटेड | 1329/यू26932आरजे1970पीटीसी001329 |
| 118. | मैसर्स ट्रेडिंग एंड सेविंग सन शाईन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 1579/यू24222आरजे1974पीटीसी001579 |
| 119. | मैसर्स हेम कुंद सीमेंट लिमिटेड | 2731/यू26943आरजे1983पीएलसी002731 |
| 120. | मैसर्स जोधपुर केमोप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड | 2452/यू24117आरजे1982पीटीसी002452 |
| 121. | मैसर्स फ्रेण्ड्स लोजिलिस्टिक प्राईवेट लिमिटेड | 2408/यू27101आरजे1982पीटीसी002408 |
| 122. | मैसर्स कारनेशन टेक्सटाइल प्राईवेट लिमिटेड | 2226/यू17124आरजे1981पीटीसी002226 |
| 123. | मैसर्स दालसन साइड प्राईवेट लिमिटेड | 2700/यू17101आरजे1983पीटीसी002700 |

| 1 | 2 | 3 |
|------|--|------------------------------------|
| 124. | मैसर्स एस डी प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड | 1424/यू70101आरजे1972पीटीसी001424 |
| 125. | मैसर्स राज बुलन्स लिमिटेड | 1821/यू171117आरजे1978पीएलसी001821 |
| 126. | मैसर्स वायगोरस डिटेक्टिव प्राईवेट लिमिटेड | 1743/यू74920आरजे1977पीटीसी001743 |
| 127. | मैसर्स बाबूलाल रमेशचन्द प्राईवेट लिमिटेड | 1842/यू51211आरजे1978पीटीसी001842 |
| 128. | मैसर्स राजपुताना स्क्यूरीटिज एण्ड डिटेक्टिव प्राईवेट लिमिटेड | 2395/यू24920आरजे1982पीटीसी002395 |
| 129. | मैसर्स धीर इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड | 2587/यू26943आरजे1982पीटीसी002587 |
| 130. | मैसर्स इलेक्ट्रीकल सेल्स प्राईवेट लिमिटेड | 1931/यू51101आरजे1979पीटीसी001931 |
| 131. | मैसर्स रिलायन्स रबड़ लिमिटेड | 2493/यू25191आरजे1982पीएलसी002493 |
| 132. | मैसर्स ब्राइट सिमेन्ट्स लिमिटेड | 2778/यू26943आरजे1983पीएलसी002778 |
| 133. | मैसर्स डायमण्ड मिनरल्स लिमिटेड | 1812/यू14219आरजे1978पीटीसी001812 |
| 134. | मैसर्स शक्ति टायरस प्राईवेट लिमिटेड | 2377/यू25111आरजे1981पीटीसी002377 |
| 135. | मैसर्स फ्लेमिंग लेबोरेटोरिज प्राईवेट लिमिटेड | 2990/यू |
| 136. | मैसर्स बलदवा फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड | 2533/यू17124आरजे1982पीटीसी002533 |
| 137. | मैसर्स मरुधर केवल्स प्राईवेट लिमिटेड | 1996/यू31300आरजे1980पीटीसी001996 |
| 138. | मैसर्स आशियाना ट्रांसपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 1905/यू60231आरजे1997पीटीसी001905 |
| 139. | मैसर्स के.वी.एस. कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड | 2720/यू45201आरजे1983पीटीसी002720 |
| 140. | मैसर्स राजस्थान फॉसफोरस एण्ड केमिकल्स लिमिटेड | 1749/यू241117आरजे1977पीएलसी001749 |
| 141. | मैसर्स श्री विरधी केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड | 12643/यू241117आरजे1996पीटीसी012643 |
| 142. | मैसर्स पहाडावाली कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड | 11066/यू67120आरजे1995पीटीसी011066 |
| 143. | मैसर्स एम टेक्स आवरसीज प्राईवेट लिमिटेड | 10257/यू18101आरजे1995पीटीसी010257 |
| 144. | मैसर्स बगरी हास्पिटल प्राईवेट लिमिटेड | 10593/यू85110आरजे1995पीटीसी010593 |
| 145. | मैसर्स चुन्नीलाल कान्डीब्यूशन प्राईवेट लिमिटेड | 10878/यू45201आरजे1995पीटीसी010878 |
| 146. | मैसर्स बी. जे. ब्विड कान प्राईवेट लिमिटेड | 12947/यू45201आरजे1996पीटीसी012947 |
| 147. | मैसर्स एजीके पैकिंग प्राईवेट लिमिटेड | 10342/यू74950आरजे1995पीटीसी010342 |
| 148. | मैसर्स श्री आदित्य वर्मा केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड | 11186/यू29117आरजे1995पीटीसी011186 |
| 149. | मैसर्स करल इन्फार्मेशन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड | 10760/यू92112आरजे1995पीटीसी010760 |
| 150. | मैसर्स स्पीड वेल रोड लाइनर्स प्राईवेट लिमिटेड | 11786/यू60221आरजे1996पीटीसी011786 |
| 151. | मैसर्स सांचेटी सिन्थोरिटीज प्राईवेट लिमिटेड | 10180/यू67120आरजे1995पीटीसी010180 |
| 152. | मैसर्स काबरा बियरिंग्स प्राईवेट लिमिटेड | 10710/यू29130आरजे1995पीटीसी010710 |
| 153. | मैसर्स जेन स्टोर स्पिनटेक्स प्राईवेट लिमिटेड | 10117/यू18101आरजे1995पीटीसी010117 |
| 154. | मैसर्स जेन स्टार इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड | 10123/यू65993आरजे1995पीटीसी010123 |
| 155. | मैसर्स श्री एम. अशोका मिल्स प्राईवेट लिमिटेड | 11462/यू18101आरजे1996पीटीसी011462 |
| 156. | मैसर्स जेन इण्डिया इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड | 10219/यू51102आरजे1995पीटीसी010219 |

| 1 | 2 | 3 |
|------|---|-----------------------------------|
| 157. | मैसर्स कारस फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड | 11766/यू67120आरजे1996पीटीसी011766 |
| 158. | मैसर्स भामासा फाइनेन्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड | 11770/यू67120आरजे1996पीटीसी011770 |
| 159. | मैसर्स गिशा एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड | 11070/यू14102आरजे1995पीटीसी011070 |
| 160. | मैसर्स शकुन एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड | 10605/यू51102आरजे1995पीटीसी010605 |
| 161. | मैसर्स सन फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड | 12185/यू67120आरजे1996पीटीसी012185 |
| 162. | मैसर्स चिरायु मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड | 10023/यू14101आरजे1995पीटीसी010023 |
| 163. | मैसर्स सप्तरिषी मारमो प्राईवेट लिमिटेड | 10022/यू14101आरजे1995पीटीसी010022 |
| 164. | मैसर्स शिव शंकर बिड केम प्राईवेट लिमिटेड | 11156/यू29299आरजे1995पीटीसी011156 |
| 165. | मैसर्स पीयेश स्पिनर्स प्राईवेट लिमिटेड | 10570/यू17114आरजे1995पीटीसी010570 |
| 166. | मैसर्स माइक्रो कैपसूल्स प्राईवेट लिमिटेड | 10553/यू24232आरजे1995पीटीसी010553 |
| 167. | मैसर्स मा फिनसेक प्राईवेट लिमिटेड | 12145/यू67120आरजे1996पीटीसी012145 |
| 168. | मैसर्स पी. एल. फेबटेक्स प्राईवेट लिमिटेड | 10674/यू18101आरजे1995पीटीसी010674 |
| 169. | मैसर्स जय श्रीनाथ स्प्रिंग ऑटो प्राईवेट लिमिटेड | 11993/यू34300आरजे1996पीटीसी011993 |
| 170. | मैसर्स शिवम स्टूडियोस प्राईवेट लिमिटेड | 4566/यू74940आरजे1988पीटीसी004566 |
| 171. | मैसर्स सुजुकी फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड | 10210/यू65910आरजे1995पीटीसी010210 |
| 172. | मैसर्स टीपीडी रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 10116/यू55101आरजे1995पीटीसी010116 |
| 173. | मैसर्स टीपीडी स्टॉक ब्रोकिंग्स प्राईवेट लिमिटेड | 11790/यू67120आरजे1996पीटीसी011790 |
| 174. | मैसर्स रचना मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड | 15567/यू14102आरजे1999पीटीसी015567 |
| 175. | मैसर्स अपनाघर बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड | 10969/यू45201आरजे1995पीटीसी010969 |
| 176. | मैसर्स लाल सोटवाला प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड | 12708/यू45201आरजे1996पीटीसी012708 |
| 177. | मैसर्स रेगिस्तान होटल्स प्राईवेट लिमिटेड | 12843/यू45201आरजे1996पीटीसी012843 |
| 178. | मैसर्स एस. चौहान केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड | 10206/यू27201आरजे1995पीटीसी010206 |
| 179. | मैसर्स एबीसी लीफिन प्राईवेट लिमिटेड | 11957/यू65910आरजे1996पीटीसी011957 |
| 180. | मैसर्स मास एग्रो फार्मर्स प्राईवेट लिमिटेड | 11552/यू70109आरजे1996पीटीसी011552 |
| 181. | मैसर्स योगमाया मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड | 12428/यू14101आरजे1996पीटीसी012428 |
| 182. | मैसर्स बसेरा मिनरल्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड | 10726/यू24117आरजे1995पीटीसी010726 |
| 183. | मैसर्स एक्सेस लायसन एण्ड प्लेसमेन्ट सर्विस प्राईवेट लिमिटेड | 12812/यू74910आरजे1996पीटीसी012812 |
| 184. | मैसर्स बहेती लीजिंग्स प्राईवेट लिमिटेड | 12681/यू65910आरजे1999पीटीसी012681 |
| 185. | मैसर्स उत्कर्ष फिनकोम प्राईवेट लिमिटेड | 10216/यू67120आरजे1995पीटीसी010216 |
| 186. | मैसर्स मास क्रिएशन प्राईवेट लिमिटेड | 11538/यू74300आरजे1996पीटीसी011538 |
| 187. | मैसर्स मास इनफिन प्राईवेट लिमिटेड | 11551/यू65993आरजे1996पीटीसी011551 |
| 188. | मैसर्स जुबली फिनकाम प्राईवेट लिमिटेड | 12061/यू67120आरजे1996पीटीसी12061 |
| 189. | मैसर्स क्लासिक बीमर्स प्राईवेट लिमिटेड | 11539/यू74241आरजे1996पीटीसी011539 |

| 1 | 2 | 3 |
|------|--|-----------------------------------|
| 190. | मैसर्स परिहार मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड | 11940/यू34300आरजे1996पीटीसी011940 |
| 191. | मैसर्स नेहा फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड | 11728/यू65993आरजे1996पीटीसी011728 |
| 192. | मैसर्स केमटेक पालीमर्स प्राईवेट लिमिटेड | 10860/यू24117आरजे1995पीटीसी010860 |
| 193. | मैसर्स पिकसिटी फिनस्टॉक एण्ड लीज लिमिटेड | 11434/यू67120आरजे1996पीटीसी011434 |
| 194. | मैसर्स कुन्दन स्टेड्स एण्ड होटल प्राईवेट लिमिटेड | 12082/यू70101आरजे1996पीटीसी012082 |
| 195. | मैसर्स तेसपंथी एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड | 10676/यू51102आरजे1995पीटीसी010676 |
| 196. | मैसर्स कोरल फाइनेन्सीयल सर्विस प्राईवेट लिमिटेड | 12798/यू67120आरजे1996पीटीसी012798 |
| 197. | मैसर्स रिगल फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड | 11928/यू65910आरजे1996पीटीसी011928 |
| 198. | मैसर्स गोलडलाइन फिनक्रेप प्राईवेट लिमिटेड | 12800/यू67120आरजे1996पीटीसी012800 |
| 199. | मैसर्स गुडमार्निंग इण्डिया डेवलप्स हाऊस प्राईवेट लिमिटेड | 10269/यू63040आरजे1995पीटीसी010269 |
| 200. | मैसर्स के.एन. इम्पोर्टेड आर्टिकल्स लिमिटेड | 12110/यू51399आरजे1996पीटीसी012110 |
| 201. | मैसर्स स्क्राई लाइन मार्निंग इजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड | 12468/यू63090आरजे1996पीटीसी012468 |
| 202. | मैसर्स आर. एस. विद्या फैशन इजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड | 12771/यू74994आरजे1996पीटीसी012771 |
| 203. | मैसर्स पुष्पा मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड | 11911/यू34300आरजे1996पीटीसी011911 |
| 204. | मैसर्स कारटयून नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड | 11260/यू92111आरजे1995पीटीसी011260 |
| 205. | मैसर्स इशा कैफेस प्राईवेट लिमिटेड | 12610/यू55209आरजे1996पीटीसी012610 |
| 206. | मैसर्स अरविश डिस्ट्रीब्यूटर्स एण्ड फेब्रिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड | 11608/यू25201आरजे1996पीटीसी011608 |
| 207. | मैसर्स होटल हेमलानी प्राईवेट लिमिटेड | 11439/यू आरजे1996पीटीसी011439 |
| 208. | मैसर्स एसआईआर सिक्वोरिटीज प्राईवेट लिमिटेड | 10460/यू67120आरजे1995पीटीसी010460 |
| 209. | मैसर्स के. के. मेडि प्रोब प्राईवेट लिमिटेड | 10026/यू73100आरजे1995पीटीसी010026 |
| 210. | मैसर्स रेज फार्मा प्राईवेट लिमिटेड | 11644/यू24232आरजे1996पीटीसी011644 |
| 211. | मैसर्स कावेरी फिन मार्क प्राईवेट लिमिटेड | 11679/यू67120आरजे1996पीटीसी011679 |
| 212. | मैसर्स तुसार प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड | 12390/यू92132आरजे1996पीटीसी012390 |
| 213. | मैसर्स प्रिमियर फेल्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 11125/यू17117आरजे1995पीटीसी011125 |
| 214. | मैसर्स मर्च वेली होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड | 10684/यू65993आरजे1995पीटीसी010684 |
| 215. | मैसर्स अफार्मा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 12786/यू24232आरजे1996पीटीसी012786 |
| 216. | मैसर्स सिल्वर लाइन फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड | 12799/यू65710आरजे1996पीटीसी012799 |
| 217. | मैसर्स व्हाइट लाइन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड | 11530/यू24232आरजे1996पीटीसी011530 |
| 218. | मैसर्स यश सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड | 10859/यू26943आरजे1995पीटीसी010859 |
| 219. | मैसर्स सिद्धार्थ कम्प्यूटर लीजिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 10139/यू65910आरजे1995पीटीसी010139 |
| 220. | मैसर्स नॉवेल्टी मिन्केम प्राईवेट लिमिटेड | 12794/यू14219आरजे1996पीटीसी012794 |
| 221. | मैसर्स अंकिता मार्बल्स एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड | 11182/यू14101आरजे1995पीटीसी011182 |
| 222. | मैसर्स क्लासिक चैम्बर्स प्राईवेट लिमिटेड | 11898/यू45201आरजे1996पीटीसी011898 |

| 1 | 2 | 3 |
|------|--|------------------------------------|
| 223. | मैसर्स सन्नी ज्वेलरी प्राईवेट लिमिटेड | 12059/यू36911आरजे1996पीटीसी012059 |
| 224. | मैसर्स कै. जय फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड | 10686/यू65910आरजे1995पीटीसी010686 |
| 225. | मैसर्स कै. आर. कैप प्राईवेट लिमिटेड | 10009/यू671201आरजे1995पीटीसी010009 |
| 226. | मैसर्स टेलीविजन एक्यूरिस प्राईवेट लिमिटेड | 12448/यू32101आरजे1996पीटीसी012448 |
| 227. | मैसर्स विजिबल फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड | 12243/यू65923आरजे1996पीटीसी012243 |
| 228. | मैसर्स माधोश्याम हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड | 10728/यू85110आरजे1995पीटीसी010728 |
| 229. | मैसर्स नमेश फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 10972/यू67120आरजे1995पीटीसी010972 |
| 230. | मैसर्स मोहित फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड | 12702/यू65993आरजे1996पीटीसी012702 |
| 231. | मैसर्स जिम-डिम रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 11560/यू55102आरजे1996पीटीसी011560 |
| 232. | मैसर्स पीबीएम ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड | 11483/यू51311आरजे1996पीटीसी011483 |
| 233. | मैसर्स इकोफाइन एलॉइज प्राईवेट लिमिटेड | 10261/यू27107आरजे1995पीटीसी010261 |
| 234. | मैसर्स कंसल प्रेमिनेट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 11830/यू14101आरजे1996पीटीसी011830 |
| 235. | मैसर्स तिरुपति ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड | 10592/यू24232आरजे1995पीटीसी010592 |
| 236. | मैसर्स राम दूत सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड | 10844/यू26943आरजे1995पीटीसी010844 |
| 237. | मैसर्स प्रेस्टाइन फाइनेन्सियल प्राईवेट लिमिटेड | 12291/यू67120आरजे1996पीटीसी012291 |
| 238. | मैसर्स मोनीलेक प्रापर्टीज एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड | 10584/यू45201आरजे1995पीटीसी010584 |
| 239. | मैसर्स जुबेरी इन्जीनियरिंग सर्विस प्राईवेट लिमिटेड | 11934/यू45201आरजे1996पीटीसी011934 |
| 240. | मैसर्स हेमगिरी इरीगेशन प्राईवेट लिमिटेड | 12222/यू29212आरजे1996पीटीसी012222 |
| 241. | मैसर्स पी. सी. अग्रवाल एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 11914/यू67120आरजे1996पीटीसी011914 |
| 242. | मैसर्स लवरोश्वर फूट वियर्स प्राईवेट लिमिटेड | 11494/यू19201आरजे1996पीटीसी011494 |
| 243. | मैसर्स नमस्ते मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड | 10552/यू14101आरजे1995पीटीसी010552 |
| 244. | मैसर्स जेडीएल क्रेडिट्स एण्ड कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड | 11901/यू65923आरजे1996पीटीसी011901 |
| 245. | मैसर्स मीकॉन केमिकल्स लिमिटेड | 12210/यू23201आरजे1996पीटीसी012210 |
| 246. | मैसर्स राठोड टेक्स-एन-प्रिन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 11169/यू18101आरजे1995पीटीसी011169 |
| 247. | मैसर्स जयपुर फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड | 11673/यू65910आरजे1996पीटीसी011673 |
| 248. | मैसर्स शुभम् एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड | 10279/यू45201आरजे1995पीटीसी010279 |
| 249. | मैसर्स अभिमन्यू टूअर्स एण्ड ट्रेवलस प्राईवेट लिमिटेड | 11132/यू63040आरजे1995पीटीसी011132 |
| 250. | मैसर्स व्हील इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड | 10985/यू45201आरजे1995पीटीसी010985 |
| 251. | मैसर्स इलेनेस एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड | 12745/यू70101आरजे1996पीटीसी012745 |
| 252. | मैसर्स भाला सिक्वोरिटीज प्राईवेट लिमिटेड | 11674/यू67120आरजे1996पीटीसी011674 |
| 253. | मैसर्स परनामी स्टाम्पिंग प्राईवेट लिमिटेड | 11809/यू74999आरजे1996पीटीसी011809 |
| 254. | मैसर्स सत्यम् फाइन-सर प्राईवेट लिमिटेड | 12259/यू65923आरजे1996पीटीसी012259 |
| 255. | मैसर्स सत्यम् ग्रेनिमार्मो प्राईवेट लिमिटेड | 12261/यू14101आरजे1996पीटीसी012261 |

| 1 | 2 | 3 |
|------|---|-----------------------------------|
| 256. | मैसर्स मार्केटिंग प्वाइन्ट प्राईवेट लिमिटेड | 12224/यू51214आरजे1996पीटीसी012224 |
| 257. | मैसर्स ए. जी. ककरेवाला प्राईवेट लिमिटेड | 11241/यू14220आरजे1995पीटीसी011241 |
| 258. | मैसर्स बांसवाड़ा सीमेन्ट वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड | 11933/यू26943आरजे1996पीटीसी011933 |
| 259. | मैसर्स घूमर होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 12637/यू55101आरजे1996पीटीसी012637 |
| 260. | मैसर्स आर.पी.जी. टून्स लिमिटेड | 11794/यू63040आरजे1996पीटीसी011794 |
| 261. | मैसर्स सिटीलाइन कैपिटल लिमिटेड | 11756/यू67120आरजे1996पीटीसी011756 |
| 262. | मैसर्स मुरली फार्म्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 12977/यू70109आरजे1996पीटीसी012977 |
| 263. | मैसर्स सोफिओम सस्पेन्शन लिमिटेड | 11541/यू34300आरजे1996पीटीसी011541 |
| 264. | मैसर्स सुशील एप्लाइन्सेज प्राईवेट लिमिटेड | 11921/यू25201आरजे1996पीटीसी011921 |
| 265. | मैसर्स सत्यम् लेडीज क्लब लिमिटेड | 11938/यू92412आरजे1996पीटीसी011938 |
| 266. | मैसर्स मार्क्स एण्ड मार्क्स गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 6489/यू17124आरजे1992पीटीसी006489 |
| 267. | मैसर्स सनराइज सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड | 6005/यू26943आरजे1991पीटीसी006005 |
| 268. | मैसर्स मित्तल प्रोटीनेक्स (इण्डिया) लिमिटेड | 6803/यू15497आरजे1992पीएलसी006803 |
| 269. | मैसर्स फोरसाइट केमटेक प्राईवेट लिमिटेड | 7169/यू29117आरजे1993पीटीसी007169 |
| 270. | मैसर्स पेसिफिक स्पिनर्स लिमिटेड | 7594/यू17111आरजे1993पीएलसी007594 |
| 271. | मैसर्स एच. बी. एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड | 7532/यू51101आरजे1993पीटीसी007532 |
| 272. | मैसर्स श्रेष्ठ इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 7140/यू63040आरजे1993पीटीसी007140 |
| 273. | मैसर्स सत्यम् इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेन्ट (इण्डिया) लिमिटेड | 6897/यू29299आरजे1992पीएलसी006897 |
| 274. | मैसर्स आदित्य हाईड्रोटेड लाइम प्राईवेट लिमिटेड | 6048/यू14101आरजे1991पीटीसी006048 |
| 275. | मैसर्स आशी-आशु इनफिन ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड | 7499/यू14101आरजे1993पीटीसी007499 |
| 276. | मैसर्स सराओगिस्ट चार्ट प्राईवेट लिमिटेड | 7493/यू18101आरजे1993पीटीसी007493 |
| 277. | मैसर्स सोहनलाल सरावगी एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड | 7770/यू45201आरजे1993पीटीसी007770 |
| 278. | मैसर्स डिजाइन सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड | 6144/यू72300आरजे1991पीटीसी006144 |
| 279. | मैसर्स कोय इलेक्ट्रोड्स प्राईवेट लिमिटेड | 6323/यू31909आरजे1994पीटीसी006323 |
| 280. | मैसर्स जयदेवी जिनिंग एण्ड प्रोसेसिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 6083/यू01405आरजे1991पीटीसी006083 |
| 281. | मैसर्स राम कोटसयन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 6600/यू17111आरजे1992पीटीसी006600 |
| 282. | मैसर्स जसोल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 6866/यू51101आरजे1992पीटीसी006866 |
| 283. | मैसर्स पाम ऑफिस ऑटोमेशन प्राईवेट लिमिटेड | 7686/यू30009आरजे1993पीटीसी007686 |
| 284. | मैसर्स दुर्गा भवानी सोलेक्स प्राईवेट लिमिटेड | 6210/यू15142आरजे1991पीटीसी006210 |
| 285. | मैसर्स नूरी हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड | 6119/यू85110आरजे1991पीटीसी006119 |
| 286. | मैसर्स गेटवेल एण्ड के. के. मेरी रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड | 7422/यू85195आरजे1993पीटीसी007422 |
| 287. | मैसर्स ए. टी. ग्रेनाइट प्राईवेट लिमिटेड | 6750/यू14102आरजे1992पीएलसी006750 |
| 288. | मैसर्स आई. बी. एस. टेक्नोलोजीज लिमिटेड | 7023/यू51395आरजे1992पीएलसी007023 |

| 1 | 2 | 3 |
|------|---|-----------------------------------|
| 289. | मैसर्स प्रोटेक लेपरोस्कोपीज लिमिटेड | 6666/यू85195आरजे1992पीएलसी006666 |
| 290. | मैसर्स राज प्लान्टेशन लिमिटेड | 7439/यू02001आरजे1993पीएलसी007439 |
| 291. | मैसर्स हेराल्ड टेक्नोलॉजिकल कम्पनी लिमिटेड | 7556/यू72100आरजे1993पीएलसी007556 |
| 292. | मैसर्स स्वेन्सका इन्वेस्टमेन्ट एण्ड लीजिंग लिमिटेड | 7238/यू14101आरजे1993पीटीसी007238 |
| 293. | मैसर्स शान्ती उपवन एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड | 6837/यू70101आरजे1992पीटीसी006837 |
| 294. | मैसर्स रिशी मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड | 7196/यू14101आरजे1993पीटीसी007196 |
| 295. | मैसर्स चोर्डिया टेक्नो कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 7679/यू74140आरजे1993पीटीसी007679 |
| 296. | मैसर्स सिद्धा कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड | 7332/यू63022आरजे1993पीटीसी007332 |
| 297. | मैसर्स सर्वोदय पोलीब्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड | 6441/यू19201आरजे1992पीटीसी006441 |
| 298. | मैसर्स कूलवाल एग्रो प्राईवेट लिमिटेड | 6655/यू |
| 299. | मैसर्स पतलून फैशन प्राईवेट लिमिटेड | 7412/यू74994आरजे1993पीटीसी007412 |
| 300. | मैसर्स बीकानेर सेनेट्री वेयर्स प्राईवेट लिमिटेड | 7873/यू26914आरजे1993पीटीसी007873 |
| 301. | मैसर्स गणपति टेक्नोफेब प्राईवेट लिमिटेड | 7784/यू27107आरजे1993पीटीसी007784 |
| 302. | मैसर्स छाबड़ा मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड | 6711/यू14101आरजे1992पीटीसी006711 |
| 303. | मैसर्स चारभुजानाथ सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | 7315/यू26943आरजे1993पीएलसी007315 |
| 304. | मैसर्स माउण्ट वुलग्रोथ एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड | 6801/यू17117आरजे1992पीएलसी006801 |
| 305. | मैसर्स जान्स होटल्स प्राईवेट लिमिटेड | 7696/यू55101आरजे1993पीटीसी007696 |
| 306. | मैसर्स सोनल प्रोटीन्स प्राईवेट लिमिटेड | 6550/यू15497आरजे1992पीटीसी006550 |
| 307. | मैसर्स कबीरचन्द एग्रो मिल्स प्राईवेट लिमिटेड | 7745/यू15311आरजे1993पीटीसी007745 |
| 308. | मैसर्स वीरेन्द्र भटनागर सिमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 6120/यू26943आरजे1991पीटीसी006120 |
| 309. | मैसर्स मन्दा सिमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड | 6829/यू26943आरजे1992पीटीसी006829 |
| 310. | मैसर्स केशव फिनीमपेक्स प्राईवेट लिमिटेड | 7940/यू67120आरजे1994पीटीसी007940 |
| 311. | मैसर्स पिओटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड | 6784/यू51395आरजे1992पीटीसी006784 |
| 312. | मैसर्स ओमिनी एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड | 7392/यू01122आरजे1993पीटीसी007392 |
| 313. | मैसर्स सुमित्रा सेल्स प्राईवेट लिमिटेड | 16428/यू74994आरजे2000पीटीसी016428 |
| 314. | मैसर्स बलराम गोयल प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड | 16010/यू70101आरजे1999पीटीसी016010 |
| 315. | मैसर्स नेने एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड | 16772/यू70100आरजे2000पीटीसी016772 |
| 316. | मैसर्स शंकरम इन्फोसिस प्राईवेट लिमिटेड | 16837/यू72200आरजे2001पीटीसी016837 |
| 317. | मैसर्स के. एन. जैन हॉस्पिटल लि. | 16682/यू85110आरजे2000पीएलसी016682 |
| 318. | मैसर्स आशादीप मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड | 16763/यू51399आरजे2000पीटीसी016763 |
| 319. | मैसर्स जी. के. मिनकैम प्राईवेट लिमिटेड | 16158/यू26939आरजे2000पीटीसी016158 |
| 320. | मैसर्स मरुधर कटसकन सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड | 16308/यू85195आरजे2000पीटीसी016308 |
| 321. | मैसर्स ए. जे. फिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड | 16456/यू92112आरजे2000पीटीसी016456 |

| 1 | 2 | 3 |
|------|--|-----------------------------------|
| 322. | मैसर्स यू. पी. एल. इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड | 16460/यू72200आरजे2000पीटीसी016460 |
| 323. | मैसर्स चेतना ह्यूमन डवलपमेन्ट कन्सल्टेन्ट्स प्रा. लि. | 16497/यू74140आरजे2000पीटीसी016497 |
| 324. | मैसर्स शताब्दी क्लब एण्ड रिसोर्ट्स लिमिटेड | 16718/यू55201आरजे2000पीएलसी016718 |
| 325. | मैसर्स सिल्वर बिल्ड एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड | 16758/यू70100आरजे2000पीटीसी016758 |
| 326. | मैसर्स सेनजी इन्फोस्ट प्राईवेट लिमिटेड | 16791/यू72200आरजे2000पीटीसी016791 |
| 327. | मैसर्स ब्ल्यू प्लेनेट टेक्नोलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड | 16806/यू72200आरजे2000पीटीसी016806 |
| 328. | मैसर्स फेयरवे नेटवर्क मार्केटिंग एण्ड शोपर्स प्रा. लि. | 17497/यू52190आरजे2002पीटीसी017497 |
| 329. | मैसर्स एस के वाई दीप कोरियर्स प्राईवेट लिमिटेड | 16040/यू64120आरजे1999पीटीसी016040 |
| 330. | मैसर्स गौरव बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड | 16085/यू45201आरजे2000पीटीसी016085 |
| 331. | मैसर्स सॉफ्टलाइन इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड | 16230/यू72100आरजे2000पीएलसी016230 |
| 332. | मैसर्स हॉरिजन हेल्थ केअर डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड | 17396/यू24232आरजे2002पीटीसी017396 |
| 333. | मैसर्स सुरभि एप्लायंसेज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड | 16027/यू29308आरजे1999पीटीसी016027 |
| 334. | मैसर्स इन्वेन्शन डिगिऑफ्ट प्राईवेट लिमिटेड | 16084/यू72200आरजे2000पीटीसी016084 |
| 335. | मैसर्स आई. डी. शर्मा मेमोरियल मेडिकल एण्ड नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड | 16146/यू85110आरजे2000पीटीसी016146 |
| 336. | मैसर्स आई. आर. आई. एस. कन्सलटेन्सी लिमिटेड | 16179/यू74140आरजे2000पीएलसी016179 |
| 337. | मैसर्स उमेश इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड | 16184/यू36101आरजे2000पीटीसी016184 |
| 338. | मैसर्स सम्राट ग्रीन मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड | 16405/यू14101आरजे2000पीटीसी016405 |
| 339. | मैसर्स टाइटन माइक्रो डिवाइसेज लेब प्राईवेट लिमिटेड | 16417/यू72200आरजे2000पीटीसी016417 |
| 340. | मैसर्स यू. एस. सी. मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड | 16534/यू50300आरजे2000पीटीसी016534 |
| 341. | मैसर्स जूपिटर एड्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड | 16604/यू74300आरजे2000पीटीसी016604 |
| 342. | मैसर्स सेबुस्टा हेल्थकेयर लिमिटेड | 16658/यू85110आरजे2000पीएलसी016658 |
| 343. | मैसर्स जेड. ई. सी. स्टील पाइप्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड | 16672/यू27109आरजे2000पीटीसी016672 |
| 344. | मैसर्स यशोदा दर्शन होटल प्राईवेट लिमिटेड | 16721/यू55101आरजे2000पीटीसी016721 |
| 345. | मैसर्स वीनस फेबटेक्स प्राईवेट लिमिटेड | 16882/यू17120आरजे2001पीटीसी016882 |
| 346. | मैसर्स मनीश एण्ड मनोज इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड | 16973/यू72200आरजे2001पीटीसी016973 |
| 347. | मैसर्स भोज नगरवाला सुगर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 17275/यू15421आरजे2001पीटीसी017275 |
| 348. | मैसर्स वन्डर ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड | 3960/यू14102आरजे1987पीटीसी003960 |
| 349. | मैसर्स अनुभव मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड | 4606/यू14101आरजे1988पीटीसी004606 |
| 350. | मैसर्स यूनिरैम फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड | 3838/यू24232आरजे1986पीटीसी003838 |
| 351. | मैसर्स पारस एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड | 3125/यू51101आरजे1984पीटीसी003125 |
| 352. | मैसर्स निर्मल एल्गोग्राफिक्स एण्ड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड | 5298/यू72100आरजे1990पीटीसी005298 |
| 353. | मैसर्स इलेक्ट्रो मैकेनिकल मेटल फार्मिंग प्राईवेट लिमिटेड | 3442/यू28939आरजे1985पीटीसी003442 |
| 354. | मैसर्स मंगल श्री इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड | 3932/यू18101आरजे1987पीटीसी003932 |

| 1 | 2 | 3 |
|------|---|----------------------------------|
| 355. | गैसर्स कुमार बुड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 3222/यू20291आरजे1985पीटीसी003222 |
| 356. | गैसर्स पी. एस. पोल प्राईवेट लिमिटेड | 3297/यू26956आरजे1985पीटीसी003297 |
| 357. | गैसर्स स्पेक्ट्रम ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड | 5684/यू14102आरजे1990पीटीसी005684 |
| 358. | गैसर्स याया ग्रेनाइट्स इण्डिया लिमिटेड | 5607/यू14102आरजे1990पीटीसी005607 |
| 359. | गैसर्स सराफ ग्रेनाइट्स लिमिटेड | 5626/यू14102आरजे1990पीटीसी005626 |
| 360. | गैसर्स सोनू फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 4280/यू15499आरजे1988पीटीसी004280 |
| 361. | गैसर्स ग्राफिक कामर्शियल काम्प्लेक्स प्राईवेट लिमिटेड | 3962/यू51101आरजे1987पीटीसी003962 |
| 362. | गैसर्स यूनिवर्सल रेमेडीस प्राईवेट लिमिटेड | 3835/यू24232आरजे1986पीटीसी003835 |
| 363. | गैसर्स हर्षा प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड | 4613/यू25209आरजे1988पीटीसी004613 |
| 364. | गैसर्स हाई एस्टीम एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 5737/यू18101आरजे1990पीटीसी005737 |
| 365. | गैसर्स श्रीहनु मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड | 3069/यू14101आरजे1984पीटीसी003069 |
| 366. | गैसर्स सुलभ सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड | 4540/यू24304आरजे1988पीटीसी004540 |
| 367. | गैसर्स त्रिशूल मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड | 5490/यू14101आरजे1990पीटीसी005490 |
| 368. | गैसर्स चन्द्रा मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड | 5930/यू28939आरजे1991पीटीसी005930 |
| 369. | गैसर्स रंगोली ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल प्राईवेट लिमिटेड | 5410/यू24232आरजे1990पीटीसी005410 |
| 370. | गैसर्स साका इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड | 5233/यू51311आरजे1989पीटीसी005233 |
| 371. | गैसर्स अशोका हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड | 5670/यू85110आरजे1990पीटीसी005670 |
| 372. | गैसर्स हिरा किरण मेंडिक्स प्राईवेट लिमिटेड | 5990/यू24232आरजे1991पीटीसी005990 |
| 373. | गैसर्स बहरोर सीमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 5625/यू26943आरजे1990पीटीसी005625 |
| 374. | गैसर्स श्री बालाजी मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड | 3071/यू14101आरजे1984पीटीसी003071 |
| 375. | गैसर्स सरस्वती क्लोर एल्केलिस प्राईवेट लिमिटेड | 4788/यू24117आरजे1989पीटीसी004788 |
| 376. | गैसर्स रिन्की फाइनेन्सियल कन्स्यूलेशन्स प्राईवेट लिमिटेड | 3794/यू50101आरजे1986पीटीसी003793 |
| 377. | गैसर्स बैरियस एण्ड बैरियस प्राईवेट लिमिटेड | 3730/यू55101आरजे1986पीटीसी003730 |
| 378. | गैसर्स सारगानेर कॉटेज रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड | 5485/यू55102आरजे1990पीटीसी005485 |
| 379. | गैसर्स आभा मार्बल्स एण्ड टाइल्स प्राईवेट लिमिटेड | 5055/यू14101आरजे1989पीटीसी005055 |
| 380. | गैसर्स बर्जन ऑटोमैटिक प्राईवेट लिमिटेड | 4841/यू31909आरजे1989पीटीसी004841 |
| 381. | गैसर्स ट्रान्सलैब (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड | 3067/यू24232आरजे1984पीटीसी003067 |
| 382. | गैसर्स मारम्यू 84 प्राईवेट लिमिटेड | 3014/यू14101आरजे1984पीटीसी003014 |
| 383. | गैसर्स पी. जी. सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड | 5933/यू26943आरजे1991पीटीसी005933 |
| 384. | गैसर्स प्रमोशन इण्डिया नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड | 5856/यू64203आरजे1991पीटीसी005856 |
| 385. | गैसर्स अकाई प्रोजेक्ट्स एण्ड कन्सल्टेशन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 3020/यू45201आरजे1984पीटीसी003020 |
| 386. | गैसर्स अप्परा मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड | 4490/यू14101आरजे1988पीटीसी004490 |
| 387. | गैसर्स अजमेर बोर्डिंग प्राईवेट लिमिटेड | 3344/यू15541आरजे1985पीटीसी003344 |

| 1 | 2 | 3 |
|------|--|----------------------------------|
| 388. | मैसर्स शर्मा सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड | 3719/यू26943आरजे1986पीटीसी003719 |
| 389. | मैसर्स स्टेलर रीयल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड | 3762/यू70101आरजे1986पीटीसी003762 |
| 390. | मैसर्स रामा शिल्पा प्राईवेट लिमिटेड | 4266/यू36911आरजे1988पीटीसी004266 |
| 391. | मैसर्स अंकुर एस्बेस्टोआ प्राईवेट लिमिटेड | 3674/यू26999आरजे1986पीटीसी003674 |
| 392. | मैसर्स सीकर सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड | 3250/यू26943आरजे1985पीटीसी003250 |
| 393. | मैसर्स अट्टलिका बिल्डर एण्ड कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड | 3975/यू45201आरजे1987पीटीसी003975 |
| 394. | मैसर्स राजस्थान टेक्नोलोजी पार्क लिमिटेड | 4142/यू70101आरजे1987पीटीसी004142 |
| 395. | मैसर्स गोपी मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड | 5497/यू14101आरजे1990पीटीसी005491 |
| 396. | मैसर्स गेटवैल डाइग्नोस्टिक्स लिमिटेड | 3470/यू85195आरजे1985पीटीसी003470 |
| 397. | मैसर्स डेजर्ट इलेक्ट्रीकल प्राईवेट लिमिटेड | 5397/यू51395आरजे1990पीटीसी005397 |
| 398. | मैसर्स आदित्य लैबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड | 3051/यू85195आरजे1984पीटीसी003051 |
| 399. | मैसर्स शान्ती लैबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड | 5001/यू85195आरजे1989पीटीसी005001 |
| 400. | मैसर्स सुनील कुमार प्राईवेट लिमिटेड | 3429/यू17111आरजे1985पीटीसी003429 |
| 401. | मैसर्स वैभव अपार्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड | 5475/यू70101आरजे1990पीटीसी005475 |
| 402. | मैसर्स अग्रवाल पैराफिन्स प्राईवेट लिमिटेड | 5600/यू23201आरजे1990पीटीसी005600 |
| 403. | मैसर्स अशोक टाल्क प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 3630/यू24246आरजे1986पीटीसी003630 |
| 404. | मैसर्स गणपति टूरिस्ट सर्विस प्राईवेट लिमिटेड | 5621/यू63040आरजे1990पीटीसी005621 |
| 405. | मैसर्स यूनिक स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड | 3982/यू14101आरजे1987पीटीसी003982 |
| 406. | मैसर्स के. टी. मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड | 5807/यू14101आरजे1991पीटीसी005807 |
| 407. | मैसर्स शान्ति ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड | 3019/यू51420आरजे1984पीटीसी003019 |
| 408. | मैसर्स इलिंगेन्स हाऊसिंग फाइनेन्स लिमिटेड | 5568/यू26943आरजे1990पीटीसी005568 |
| 409. | मैसर्स विराट फार्मा प्राईवेट लिमिटेड | 4550/यू24232आरजे1988पीटीसी004550 |
| 410. | मैसर्स केलसिट केमिकल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड | 3426/यू24119आरजे1985पीटीसी003426 |
| 411. | मैसर्स ग्लोब मार्बल्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड | 3398/यू14101आरजे1985पीटीसी003398 |
| 412. | मैसर्स प्रशार लीजिंग एण्ड हाऊसिंग कम्पनी | 3651/यू51395आरजे1986पीटीसी003651 |
| 413. | मैसर्स श्री पॉली इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड | 3063/यू25201आरजे1984पीटीसी003063 |
| 414. | मैसर्स सोलानिया मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड | 5722/यू14101आरजे1990पीटीसी005722 |
| 415. | मैसर्स लिबर्टी एक्सक्लूसिव प्राईवेट लिमिटेड | 3563/यू19201आरजे1986पीटीसी003563 |
| 416. | मैसर्स तिरुपति क्रीमिक्स प्राईवेट लिमिटेड | 5810/यू26933आरजे1991पीटीसी005810 |
| 417. | मैसर्स दीवान मार्केटिंग एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड | 3386/यू51101आरजे1985पीटीसी003386 |
| 418. | मैसर्स पुष्पा ऑइल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड | 3302/यू15141आरजे1985पीटीसी003302 |
| 419. | मैसर्स धारू एस्टे. प्राईवेट लिमिटेड | 5117/यू70101आरजे1989पीटीसी005117 |
| 420. | मैसर्स इम्स (पाइप) प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 3324/यू27107आरजे1985पीटीसी003324 |

| 1 | 2 | 3 |
|------|---|----------------------------------|
| 421. | मैसर्स सुपर कम्प्यूटर प्राईवेट लिमिटेड | 3774/यू72100आरजे1986पीएलसी003774 |
| 422. | मैसर्स सूर्य किरण मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड | 3693/यू14101आरजे1986पीटीसी003693 |
| 423. | मैसर्स गंगवाल बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड | 4579/यू45201आरजे1988पीटीसी004579 |
| 424. | मैसर्स दहानुका कन्सलटेन्ट्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 5524/यू51110आरजे1990पीटीसी005524 |
| 425. | मैसर्स क्वालिटी कारपेट्स एण्ड रग्स प्राईवेट लिमिटेड | 5920/यू17222आरजे1991पीटीसी005920 |
| 426. | मैसर्स बिओलिन डिटर्जेंट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 4218/यू24243आरजे1987पीटीसी004218 |
| 427. | मैसर्स ए. एम. इग्ज प्राईवेट लिमिटेड | 3823/यू24232आरजे1986पीटीसी003823 |
| 428. | मैसर्स एक्ज्युरेट सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड | 5784/यू26943आरजे1991पीटीसी005784 |
| 429. | मैसर्स सुदेश ऑइल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 3112/यू74994आरजे1984पीटीसी003112 |
| 430. | मैसर्स शाह स्टील रोलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड | 3107/यू27107आरजे1984पीटीसी003107 |
| 431. | मैसर्स वकील कोल सेल्स प्राईवेट लिमिटेड | 5972/यू23101आरजे1991पीटीसी005972 |
| 432. | मैसर्स नीयो-क्राफ्ट एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड | 4188/यू18101आरजे1987पीटीसी004188 |
| 433. | मैसर्स सुपर स्पेस ट्रानिक्स प्राईवेट लिमिटेड | 4037/यू31907आरजे1987पीटीसी004037 |
| 434. | मैसर्स धवन रग्स प्राईवेट लिमिटेड | 5246/यू17222आरजे1989पीटीसी005246 |
| 435. | मैसर्स श्री राधिका कारपेट इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड | 4969/यू17222आरजे1989पीटीसी004969 |
| 436. | मैसर्स विनायक्स टी एण्ड एलाईड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड | 3566/यू15491आरजे1996पीएलसी003566 |
| 437. | मैसर्स नेम हाऊसिंग फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड | 8034/यू67120आरजे1994पीएलसी008034 |
| 438. | मैसर्स अभिनव सूर्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड | 8063/यू18108आरजे1994पीटीसी008063 |
| 439. | मैसर्स तेज पोर्टफोलियो लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड | 8081/यू65910आरजे1994पीटीसी008081 |
| 440. | मैसर्स अरिहन्त लाकर्स एण्ड फीन इन्वेस्ट लिमिटेड | 8165/यू27107आरजे1994पीटीसी008164 |
| 441. | मैसर्स एकतासियस (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड | 8192/यू18101आरजे1994पीटीसी008192 |
| 442. | मैसर्स शक्ति कम्प्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड | 8207/यू64201आरजे1994पीटीसी008207 |
| 443. | मैसर्स मन्जारी सीमेन्ट वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड | 8241/यू26943आरजे1994पीटीसी008241 |
| 444. | मैसर्स यथा सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड | 8258/यू51101आरजे1994पीटीसी008258 |
| 445. | मैसर्स एस. एस. फायर प्रोडक्शन प्राईवेट लिमिटेड | 8266/यू29193आरजे1994पीटीसी008266 |
| 446. | मैसर्स हिमान्स चैम (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड | 8309/यू22211आरजे1994पीटीसी008309 |
| 447. | मैसर्स परमात्मा कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड | 8325/यू24117आरजे1994पीटीसी008325 |
| 448. | मैसर्स जी. एस. कैपिटल्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड | 8336/यू67120आरजे1994पीटीसी008336 |
| 449. | मैसर्स गोकुल संगमरमर प्राईवेट लिमिटेड | 8340/यू14101आरजे1994पीटीसी008340 |
| 450. | मैसर्स हरियाणा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड | 8355/यू51101आरजे1994पीटीसी008355 |
| 451. | मैसर्स अग्रोहा सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड | 8363/यू67120आरजे1994पीटीसी008363 |
| 452. | मैसर्स पैरामाउन्ट लैडर्स लिमिटेड | 8415/यू19201आरजे1994पीएलसी008415 |
| 453. | मैसर्स नितर वैल ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड | 8429/यू14102आरजे1994पीटीसी008429 |

| 1 | 2 | 3 |
|------|--|----------------------------------|
| 454. | मैसर्स अनमोल सूर्टिस प्राईवेट लिमिटेड | 8455/यू18108आरजे1994पीटीसी008455 |
| 455. | मैसर्स राजदीप ऑफसेट प्राईवेट लिमिटेड | 8497/यू22121आरजे1994पीटीसी008497 |
| 456. | मैसर्स अमेदोआ अशायर वायर्स रोप्स लिमिटेड | 8499/यू31300आरजे1994पीएलसी008499 |
| 457. | मैसर्स कालिका हार्जिसिंग प्राईवेट लिमिटेड | 8508/यू01409आरजे1994पीटीसी008508 |
| 458. | मैसर्स डाबडिया फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड | 8521/यू14101आरजे1994पीटीसी008521 |
| 459. | मैसर्स बाल माता स्विटिक्स प्राईवेट लिमिटेड | 8527/यू24304आरजे1994पीटीसी008527 |
| 460. | मैसर्स रायसथाली लीज फाइनेन्स लिमिटेड | 8532/यू65910आरजे1994पीएलसी008532 |
| 461. | मैसर्स पंचायाना फाइनेन्स लिमिटेड | 8539/यू51101आरजे1994पीटीसी008539 |
| 462. | मैसर्स क्लवाथा मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड | 8547/यू50101आरजे1994पीटीसी008547 |
| 463. | मैसर्स पिनाकाया कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड | 8617/यू64201आरजे1994पीटीसी008617 |
| 464. | मैसर्स एन. हैस मोटासेस प्राईवेट लिमिटेड | 8648/यू72200आरजे1994पीटीसी008648 |
| 465. | मैसर्स ए. डी. फ्यूजन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड | 8654/यू74300आरजे1994पीटीसी008654 |
| 466. | मैसर्स गुलाबी नगर गेसेस प्राईवेट लिमिटेड | 8664/यू24111आरजे1994पीटीसी008664 |
| 467. | मैसर्स अंकित प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड | 8740/यू17117आरजे1994पीटीसी008740 |
| 468. | मैसर्स बालाजी क्रैसर्स प्राईवेट लिमिटेड | 8749/यू45500आरजे1994पीटीसी008749 |
| 469. | मैसर्स प्लड्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड | 8769/यू36911आरजे1994पीटीसी008769 |
| 470. | मैसर्स स्वेटमैक इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड | 8856/यू65993आरजे1994पीटीसी008856 |
| 471. | मैसर्स श्रिया फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड | 8871/यू17124आरजे1994पीटीसी008871 |
| 472. | मैसर्स सरोवर रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड | 8988/यू55102आरजे1994पीटीसी008988 |
| 473. | मैसर्स सौभाग्यशाली डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड | 9012/यू45201आरजे1994पीटीसी009012 |
| 474. | मैसर्स अमरसा कैपिटल्स एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड | 9023/यू67120आरजे1994पीटीसी009023 |
| 475. | मैसर्स कविता फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड | 9088/यू67120आरजे1994पीटीसी009088 |
| 476. | मैसर्स पार्श्वनाथ मार्बल प्राईवेट लिमिटेड | 9024/यू14101आरजे1994पीटीसी009024 |
| 477. | मैसर्स श्री नर्सिंग मार्बल प्राईवेट लिमिटेड | 9117/यू14101आरजे1994पीटीसी009117 |
| 478. | मैसर्स अलताब मार्बल प्राईवेट लिमिटेड | 9120/यू14101आरजे1994पीटीसी009120 |
| 479. | मैसर्स रबिया एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड | 9163/यू51909आरजे1994पीटीसी009163 |
| 480. | मैसर्स जय माइनिंग एण्ड स्टोन प्राईवेट लिमिटेड | 9234/यू14101आरजे1994पीटीसी009234 |
| 481. | मैसर्स न्यूटन रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड | 9237/यू55101आरजे1994पीटीसी009237 |
| 482. | मैसर्स मदसाया कैमिकल्स एण्ड प्लास्टीलाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड | 9240/यू24299आरजे1994पीटीसी009240 |
| 483. | मैसर्स श्री बालाजी वीबिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड | 9248/यू17100आरजे1994पीटीसी009248 |
| 484. | मैसर्स मधश्री संगमरमर प्राईवेट लिमिटेड | 9262/यू14290आरजे1995पीटीसी009262 |
| 485. | मैसर्स कंसल सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड | 9270/यू65990आरजे1995पीटीसी009270 |
| 486. | मैसर्स मैक्स होलिडिंग प्राईवेट लिमिटेड | 9326/यू65923आरजे1995पीटीसी009326 |

| 2 | 3 |
|---|--------------------------------------|
| 489. मैसर्स चन्द्र मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड | 9327/यू14101आरजे1995पीटीसी009327 |
| 490. मैसर्स एल. एन. कैपिटल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड | 9340/यू67120आरजे1995पीटीसी009340 |
| 491. मैसर्स पैरामाउण्ट कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड | 9345/यू67120आरजे1995पीटीसी009345 |
| 492. मैसर्स प्रिशियस लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड | 9377/यू65910आरजे1995पीटीसी009377 |
| 493. मैसर्स स्नेहा मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड | 9383/यू14101आरजे1995पीटीसी009383 |
| 494. मैसर्स भालपानी ली-फिन प्राईवेट लिमिटेड | 9395/यू65910आरजे1995पीटीसी009395 |
| 495. मैसर्स धनु आवास निर्माण प्राईवेट लिमिटेड | 9416/यू45201आरजे1995पीटीसी009416 |
| 496. मैसर्स प्रीमियर डिस्टेलरीज लिमिटेड | 9427/यू15511आरजे1995पीएलसी009427 |
| 497. मैसर्स सी.आई.एस. एक्जिम (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड | 9446/यू24232आरजे1995पीटीसी009446 |
| 498. मैसर्स जुगल भाटिया प्राईवेट लिमिटेड | 9447/यू25111आरजे1995पीटीसी009447 |
| 499. मैसर्स प्रीमियम ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड | 9460/यू36911आरजे1995पीएलसी009460 |
| 500. मैसर्स सिंघाल फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड | 9517/यू65910आरजे1995पीटीसी009517 |
| 501. मैसर्स सरिस्का क्लब एण्ड रिसोर्ट लिमिटेड | 9540/यू55101आरजे1995पीटीसी009540 |
| 502. मैसर्स कुनिका इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड | 9555/यू65993आरजे1995पीटीसी009555 |
| 503. मैसर्स अमित संगेमरमर प्राईवेट लिमिटेड | 9603/यू14101आरजे1995पीटीसी009603 |
| 504. मैसर्स स्पान एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड | 9639/यू18109आरजे1995पीटीसी009639 |
| 505. मैसर्स रूंगटा क्लासिक फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड | 9668/यू65910आरजे1995पीटीसी009668 |
| 506. मैसर्स राहुल शारा ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड | 9718/यू65993आरजे1995पीटीसी009718 |
| 507. मैसर्स बेलरिंग शॉपी प्राईवेट लिमिटेड | 9752/यू18101आरजे1995पीटीसी009752 |
| 508. मैसर्स म. तेश्वरी मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड | 9801/यू14101आरजे1995पीटीसी009801 |
| 509. मैसर्स ग्लेशियर लीजफिन प्राईवेट लिमिटेड | 9808/यू65910आरजे1995पीटीसी009808 |
| 510. मैसर्स रेलेबल इन्फोकॉम प्राईवेट लिमिटेड | 9884/यू27320आरजे1995पीटीसी009884 |
| 511. मैसर्स सुपर फिनलीज लिमिटेड | 9945/यू65910आरजे1995पीटीसी009945 |
| 512. मैसर्स सिम्ब्योसिस क्रेडिट मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड | 9950/यू67120आरजे1995पीटीसी009950 |
| 513. मैसर्स ऑवर सरस स्पेशियलिटी केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड | 9952/यू24117आरजे1995पीटीसी009952 |
| 514. मैसर्स भानु फर्टिलाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड | 13557/515यू24124आरजे1997पीटीसी013557 |
| 515. मैसर्स भानु प्लाईवुड प्राईवेट लिमिटेड | 13558/यू20211आरजे1997पीटीसी013558 |
| 516. मैसर्स भानु मोटल प्राईवेट लिमिटेड | 13559/यू55101आरजे1997पीटीसी013559 |
| 517. मैसर्स भानु केसरी केबल्स एण्ड प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड | 13560/यू31300आरजे1997पीटीसी013560 |
| 518. मैसर्स भानु एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड | 13561/यू51101आरजे1997पीटीसी013561 |
| 519. मैसर्स भानु धनु फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड | 13562/यू65910आरजे1997पीटीसी013562 |
| 520. मैसर्स भानु एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड | 13563/यू27101आरजे1997पीटीसी013563 |
| 521. मैसर्स भानु गैसेज प्राईवेट लिमिटेड | 15591/यू24111आरजे1999पीटीसी015591 |

| 1 | 2 | 3 |
|------|---|-----------------------------------|
| 520. | मैसर्स नवीन फुट वियर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड | 14215/यू19201आरजे1997पीटीसी014215 |
| 521. | मैसर्स स्पेशियल इफेक्ट्स एन्टरटेनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड | 14274/यू92112आरजे1997पीटीसी014274 |
| 522. | मैसर्स निशा कन्टेनर्स लिमिटेड | 14281/यू28992आरजे1997पीटीसी014281 |
| 523. | मैसर्स किलोल कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड | 13212/यू45201आरजे1997पीटीसी013212 |
| 524. | मैसर्स दुगर फिनकेप प्राईवेट लिमिटेड | 14819/यू85195आरजे1998पीटीसी014819 |
| 525. | मैसर्स प्रास्पेक्ट्स जॉब रिक्रूटमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड | 15051/यू74910आरजे1998पीटीसी015051 |
| 526. | मैसर्स नीलम ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड | 15524/यू63040आरजे1999पीटीसी015524 |
| 527. | मैसर्स सेन्टिमियल होटल्स एण्ड रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड | 15551/यू55101आरजे1999पीटीसी015551 |
| 528. | मैसर्स एस. पी. एस. डिक्कोस्टोन प्राईवेट लिमिटेड | 15854/यू14101आरजे1999पीटीसी015854 |
| 529. | मैसर्स श्री सैंडस्टोन एसोसियेटेड प्राईवेट लिमिटेड | 18361/यू |
| 530. | मैसर्स बिनायक पॉलीसेम्स प्राईवेट लिमिटेड | 17530/यू25202आरजे2002पीटीसी017530 |
| 531. | मैसर्स सरस्वती ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड | 17907/यू52190आरजे2002पीटीसी017907 |
| 532. | मैसर्स नाथल्टी मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड | 9666/यू14101आरजे1995पीटीसी009666 |
| 533. | मैसर्स धोलपुर वायर्स प्राईवेट लिमिटेड | 3772/यू31300आरजे1986पीटीसी003772 |
| 534. | मैसर्स देवी सिक्योरिटीज सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड | 8671/यू18108आरजे1994पीटीसी008671 |
| 535. | मैसर्स आई. यू. कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 10092/यू74140आरजे1995पीटीसी010092 |
| 536. | मैसर्स शिखर सेविंग्स प्राईवेट लिमिटेड | 11623/यू67120आरजे1996पीटीसी011623 |
| 537. | मैसर्स पैराडाइज सेविंग्स प्राईवेट लिमिटेड | 11625/यू67120आरजे1996पीटीसी011625 |
| 538. | मैसर्स कावेरी पॉली गोल्ड प्राईवेट लिमिटेड | 12675/यू20211आरजे1996पीटीसी012675 |
| 539. | मैसर्स राज टूरिज्म कम टूरिस्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड | 16859/यू63040आरजे2001पीटीसी016859 |
| 540. | मैसर्स जय मीनेश रिसोर्ट एण्ड होटल प्राईवेट लिमिटेड | 13117/यू55101आरजे1997पीटीसी013117 |
| 541. | मैसर्स सैटर्न ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड | 15461/यू51311आरजे1999पीटीसी015461 |
| 542. | मैसर्स निर्मल फाइनेन्स एण्ड प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड | 1423/यू67120आरजे1972पीटीसी001423 |
| 543. | मैसर्स जयपुर किडनी स्टोन एण्ड यूरोलॉजिकल रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड | 5643/यू85110आरजे1990पीटीसी005643 |
| 544. | मैसर्स मोहनमुरली ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड | 1774/यू63040आरजे1978पीटीसी001774 |
| 545. | मैसर्स जी. टी. ऑयल्स प्राईवेट लिमिटेड | 5644/यू15141आरजे1990पीटीसी005644 |
| 546. | मैसर्स गोल्डनजुबली (राजस्थान) एग्रो प्लान्टेशन प्राईवेट लिमिटेड | 14282/यू02001आरजे1997पीटीसी014282 |
| 547. | मैसर्स चन्दन बिल्डर्स एण्ड माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड | 5793/यू45201आरजे1991पीटीसी005793 |
| 548. | मैसर्स महर्षि ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड | 5340/यू15141आरजे1990पीटीसी005340 |

बी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
जालन्धर शहर, दिनांक 01 अक्टूबर 2004

सं. 560(5)/एसईएस-2003/123 से 143/5828--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी
जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट
दिए गए हैं तथा इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से कम्पनियां
विघटित समझी जाएंगी :--

| क्र.सं. | कम्पनी सं. | कम्पनी का नाम |
|---------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 19153 | मैसर्स एचकेएस फिनलिज प्राईवेट लिमिटेड |
| 2. | 19154 | मैसर्स एचकेएस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड |
| 3. | 03596 | मैसर्स एफएमएस इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 4. | 15298 | मैसर्स गोपाल पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 5. | 15454 | मैसर्स जी.जी. सील्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 6. | 19155 | मैसर्स मथोडा एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 7. | 0585 | मैसर्स मथोडा प्रापर्टीज प्राईवेट लिमिटेड |
| 8. | 13125 | मैसर्स बी वी इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 9. | 19156 | मैसर्स डायमंड निर्वर्ज प्राईवेट लिमिटेड |
| 10. | 19157 | मैसर्स डीजी मार्कीटिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 11. | 19391 | मैसर्स हंस एंटरप्राइजिज प्राईवेट लिमिटेड |
| 12. | 20678 | मैसर्स प्रयाग एग्रो फारैस्ट्री (इंडिया) लिमिटेड |
| 13. | 23400 | मैसर्स सिनैप्स टेक्नालोजीज लिमिटेड |
| 14. | 20434 | श्री गुरु तेग बहादुर फारैस्ट्स लिमिटेड |
| 15. | 11417 | मैसर्स गगन हास्पिटल प्राईवेट लिमिटेड |
| 16. | 23526 | मैसर्स डायनामिक रूट प्राईवेट लिमिटेड |
| 17. | 15744 | मैसर्स रैमर क्रेडिट एंड फाईनांस लिमिटेड |
| 18. | 19147 | मैसर्स नंदा होटल्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 19. | 18117 | मैसर्स वी.जे.एस. फाईनांस प्राईवेट लिमिटेड |
| 20. | 12905 | मैसर्स महेन्द्र हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड |
| 21. | 7812 | मैसर्स ट्रांसवर्ल्ड ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड |

दिवान चन्द
कम्पनी पंजीकार
पंजाब, हि. प्र. एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
जालन्धर शहर, दिनांक 01 अक्टूबर 2004

सं. 560(5)/एसईएस-2003/01 से 86/5839--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी

जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट
दिए गए हैं तथा इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से कम्पनियां
विघटित समझी जाएंगी :--

| क्र.सं. | कम्पनी सं. | कम्पनी का नाम |
|---------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 16022 | मैसर्स एचएच प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 2. | 23835 | मैसर्स पर्ल टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड |
| 3. | 18002 | मैसर्स सुशील एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड |
| 4. | 16026 | मैसर्स आतम एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 5. | 16272 | मैसर्स सी.डी. कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 6. | 12110 | मैसर्स गिलको टैलिफेक्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 7. | 12112 | मैसर्स गिलको सेटेलाइट कम्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 8. | 08132 | मैसर्स गिलको कारपेट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 9. | 15737 | मैसर्स डिल्लों पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 10. | 09106 | मैसर्स मौनिका हौलीडे रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 11. | 19145 | मैसर्स चण्डीगढ़ ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 12. | 16776 | मैसर्स ए.आर. कैपीटल सर्विसेस लिमिटेड |
| 13. | 15299 | मैसर्स एक्सल कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 14. | 13951 | मैसर्स फेम्मी मार्कीटिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 15. | 13416 | मैसर्स पारस फिनकैप लिमिटेड |
| 16. | 17824 | मैसर्स आर.एम. कोनस प्राईवेट लिमिटेड |
| 17. | 23557 | मैसर्स बल्यूबे सोफ्टवेयर नेटवर्क लिमिटेड |
| 18. | 23556 | मैसर्स गार्डिनर इन्फोसिस लिमिटेड |
| 19. | 12228 | मैसर्स धिनजन इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 20. | 21748 | मैसर्स नैलेस कैनेडा एण्ड पी.एस. सांचा एन्टरप्राइसेस लिमिटेड |
| 21. | 17957 | मैसर्स चिराग कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 22. | 21811 | मैसर्स पंजाब मशरूम इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड |
| 23. | 16060 | मैसर्स जी.एस. स्टोरवेल प्राईवेट लिमिटेड |
| 24. | 17052 | मैसर्स सुपर हिट इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 25. | 19803 | मैसर्स कृष्णा एस एण्ड कारपेट्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 26. | 08186 | मैसर्स राजू स्पाइसेस प्राईवेट लिमिटेड |
| 27. | 13690 | मैसर्स भांचल होस्पिटल्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 28. | 06355 | मैसर्स क्वालिटी स्पिनर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 29. | 16397 | मैसर्स एम.बी. बाईक्स प्राईवेट लिमिटेड |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|---|
| 30. | 23942 | मैसर्स प्रकाश शकुन इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 31. | 03566 | मैसर्स मेन्ड्रिन टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड |
| 32. | 16234 | मैसर्स ओलंपिक स्पीनर्स लिमिटेड |
| 33. | 19871 | मैसर्स ओलंपिक फूड्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 34. | 13898 | मैसर्स भाम्बरी गैसेस प्राईवेट लिमिटेड |
| 35. | 19955 | मैसर्स वुड वर्थ प्लान्टेशन लिमिटेड |
| 36. | 21218 | मैसर्स एस.आई.आर. पोल्ट्री फार्म प्राईवेट लिमिटेड |
| 37. | 10574 | मैसर्स रूबीकौन फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 38. | 08922 | मैसर्स एस.एन. होस्पिटल्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 39. | 15949 | मैसर्स अटल सोलवेक्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 40. | 15826 | मैसर्स बालाचौर फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड |
| 41. | 15072 | मैसर्स जे.एल.एस. फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 42. | 09008 | मैसर्स लिली हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड |
| 43. | 22152 | मैसर्स जागीरदार फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 44. | 23003 | मैसर्स क्वान्टम साइबरनेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 45. | 14378 | मैसर्स एगोस्कोप कन्सल्टेन्ट्स एण्ड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 46. | 14199 | मैसर्स यूनीक शूज प्राईवेट लिमिटेड |
| 47. | 10154 | मैसर्स अरोमा क्रेडिट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड |
| 48. | 17271 | मैसर्स शाम लाल बंसल एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 49. | 09739 | मैसर्स वी.वी.एस. मर्केन्टाइल प्राईवेट लिमिटेड |
| 50. | 22335 | मैसर्स एराड भीटर्स लिमिटेड |
| 51. | 16116 | मैसर्स लिली फन पार्क प्राईवेट लिमिटेड |
| 52. | 16115 | मैसर्स क्रेजी फन-एन-फन पार्क प्राईवेट लिमिटेड |
| 53. | 11231 | मैसर्स पीपल फाईनान्स प्रोपर्टी कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 54. | 16504 | मैसर्स चण्डीगढ़ पोल्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड |
| 55. | 04218 | मैसर्स जगदम्बा वूलन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 56. | 13009 | मैसर्स मूमाक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 57. | 16280 | मैसर्स अनुज पोल्ट्रीस लिमिटेड |
| 58. | 21186 | मैसर्स रोवन फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 59. | 19606 | मैसर्स ब्ल्यू हेवन फाईनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 60. | 16840 | मैसर्स तारा फिनलीस प्राईवेट लिमिटेड |
| 61. | 16200 | मैसर्स पुजानी फोरेस्ट एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 62. | 18300 | मैसर्स चेतन स्ट्रिप्स प्राईवेट लिमिटेड |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|--|
| 63. | 18160 | मैसर्स विजेता एगो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 64. | 15896 | मैसर्स एमसन फाईनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड |
| 65. | 16266 | मैसर्स इनोवेटिव एक्जिजीटिव्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 66. | 19174 | मैसर्स कमल नेत्रा न्यूज लिमिटेड |
| 67. | 18500 | मैसर्स छाबड़ा एण्ड छाबड़ा फाईनान्सियर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 68. | 18720 | मैसर्स चिराग केकमी लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 69. | 15608 | मैसर्स मॉर्डन डिस्ट्रीलरीज प्राईवेट लिमिटेड |
| 70. | 16338 | मैसर्स डेनिश डेरीज लिमिटेड |
| 71. | 16376 | मैसर्स हिल डेल होटल्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 72. | 13446 | मैसर्स हिमगिरी रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 73. | 23810 | मैसर्स किरन टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड |
| 74. | 22571 | मैसर्स मलिक वर्मा बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 75. | 15439 | मैसर्स स्पीयर इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 76. | 16450 | मैसर्स पॉल कारगोस प्राईवेट लिमिटेड |
| 77. | 08234 | मैसर्स पैसिफिक केबल्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 78. | 18756 | मैसर्स रूस्ट रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 79. | 12694 | मैसर्स नीलम फोजिंस प्राईवेट लिमिटेड |
| 80. | 13555 | मैसर्स पुजेक्स ओवरसीस प्राईवेट लिमिटेड |
| 81. | 13924 | मैसर्स मनोहर शूज लिमिटेड |
| 82. | 14465 | मैसर्स संत मालिन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 83. | 03828 | मैसर्स चेलका पेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 84. | 22737 | मैसर्स मादव मार्किटिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 85. | 17816 | मैसर्स गारफिन माक्स प्राईवेट लिमिटेड |

दिवान चन्द

कम्पनी पंजीकार

पंजाब, हि. प्र. एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पॉलीटेक्स प्रासेसर्स लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर, दिनांक 13 अक्टूबर 2004

सं. 560(5)/5183/1155--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पॉलीटेक्स प्रासेसर्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधित हो गई है।

दिवान चन्द

कम्पनी रजिस्ट्रार

पंजाब, हि. प्र. एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दोआबा वसटेड स्पिनर्स लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर, दिनांक 13 अक्टूबर 2004

सं. 560(5)/5177/1156--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दोआबा वसटेड स्पिनर्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हि. प्र. एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दोआबा शुइडी स्पीनर्स मिल्स लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर, दिनांक 13 अक्टूबर 2004

सं. 560(5)/5178/1160--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दोआबा शुइडी स्पीनर्स मिल्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हि. प्र. एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नकोदर कॉटन वेस्ट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर, दिनांक 13 अक्टूबर 2004

सं. 560(5)/4644/1157--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नकोदर कॉटन वेस्ट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हि. प्र. एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वी के इनवेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2004

सं. एल. सी. (560)/एस. ई. एस-6267/6871--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वी के इनवेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स संगरूर वसटेड स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर, दिनांक 13 अक्टूबर 2004

सं. 560(5)/5180/1158--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स संगरूर वसटेड स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हि. प्र. एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डालमिया पावर कारपोरेशन लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2004

सं. एल. सी. (560)/एस. ई. एस-18173/7105--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डालमिया पावर कारपोरेशन लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लुधियाना स्पीनर्स लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर, दिनांक 13 अक्टूबर 2004

सं. 560(5)/5182/1159--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लुधियाना स्पीनर्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिशान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हि. प्र. एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मिडलैण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2004

सं. एल. सी. (560)/एस. ई. एस-364/7107--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मिडलैण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड

का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर. पी. पाण्डेय इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्शियल कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2004

सं. एल. सी. (560)/एस. ई. एस-18070/7109--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आर. पी. पाण्डेय इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्शियल कन्सलटेन्ट्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जेन लेदर क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2004

सं. एल. सी. (560)/एस. ई. एस-24405/7113--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जेन लेदर क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अमृतधारा फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2004

सं. एल. सी. (560)/एस. ई. एस-11109/7115--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अमृतधारा फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लक्की ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2004

सं. एल. सी. (560)/एस. ई. एस-15755/7117--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लक्की ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इलाहाबाद एलोएज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2004

सं. एल. सी. (560)/एस. ई. एस-10026/7119--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इलाहाबाद एलोएज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दा मेटल गुड्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2004

सं. एल. सी. (560)/एस. ई. एस-1535/7121--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दा मेटल गुड्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कर्म इलैक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2004

सं. एल. सी. (560)/एस. ई. एस-13659/7123--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कर्म इलैक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जयसवाल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2004

सं. एल. सी. (560)/एस. ई. एस-24759/7125--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जयसवाल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मथुरा मदनानी कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2004

सं. एल. सी. (560)/एस. ई. एस-3237/7127--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मथुरा मदनानी कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रिताब इन्फोरमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2004

सं. एल. सी. (560)/एस. ई. एस-21018/7129--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रिताब इन्फोरमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इन्फोकान्स कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2004

सं. एल. सी. (560)/एस. ई. एस-26543/7131--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इन्फोकान्स कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स महशा इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2004

सं. एल. सी. (560)/एस. ई. एस-14808/7133--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स महशा इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2004

सं. एल. सी. 560(5)/7195--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और निम्न कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

| क्र.सं. | कम्पनी सं. | कम्पनी का नाम |
|---------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 20-15483 | मै. शाकुम्बरी इलेक्ट्रोड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 2. | 20-11259 | मै. पराग पालीमर्स (एल.के.ओ.) प्राइवेट लिमिटेड |
| 3. | 20-21130 | मै. नैनी म्युचुअल बेनीफिट्स (इंडिया) लिमिटेड |
| 4. | 20-24321 | मै. देवी हैन्डलूम प्राइवेट लिमिटेड |
| 5. | 20-17568 | मै. पालिया इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 6. | 20-13943 | मै. दिया इंजीनियरिंग एण्ड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 7. | 20-21969 | मै. ओरियंटल बिल्डकाम इंडिया लिमिटेड |
| 8. | 20-10921 | मै. शिवालिक मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड |
| 9. | 20-10541 | मै. यूरेका एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|----------|--|
| 10. | 20-24943 | मै. महालक्ष्मी लुब्रीकेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 11. | 20-24119 | मै. ए. बी. के. पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड |
| 12. | 20-15698 | मै. रूपापुर एप्रोटेक लिमिटेड |
| 13. | 20-9031 | मै. बी. एन. ग्रासकेट मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड |

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

मुम्बई, दिनांक 2004

सं. 560(5)/2000--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और निम्न कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

| क्र.सं. | कम्पनी सं. | कम्पनी का नाम |
|---------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 55009 | मै. सिद्धेश्वर लैण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 2. | 97444 | मै. हीमराज फायनान्स एण्ड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 3. | 33000 | मै. सागर केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 4. | 90007 | मै. वॉडलेस फायनान्स एण्ड सेक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 5. | 90027 | मै. टिपटॉप कम्प्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 6. | 90296 | मै. जयराम आयरन एण्ड स्टील प्राइवेट लिमिटेड |
| 7. | 91200 | मै. चोकसी ग्यास प्राइवेट लिमिटेड |
| 8. | 92544 | मै. जीनल इम्पेक्स लि. |
| 9. | 92595 | मै. नीरज नीटिंग इंडस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड |
| 10. | 92605 | मै. सोलीगॉन इंजीनियरिंग कं. (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 11. | 92799 | मै. पीरल प्रमोशनस एण्ड कंमेजन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 12. | 93489 | मै. कप्रीकोर्न फाइनवेस्ट ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड |
| 13. | 94706 | मै. पुमा कैपीटल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड |
| 14. | 98186 | मै. आंचल हर्बस लि. |
| 15. | 95420 | मै. पी. पलेजा एण्ड संधिप कनसलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड |
| 16. | 95774 | मै. सीविंड होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड |

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

मुम्बई, दिनांक 2004

सं. 560(5)/2000--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और निम्न कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

| क्र.सं. | कम्पनी सं. | कम्पनी का नाम |
|---------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 66858 | मै. चीनसर प्रोपर्टीस एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 2. | 86534 | मै. कफ एन कोलर क्रायेशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 3. | 115850 | मै. ग्रेमी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 4. | 19563 | मै. कनन एक्सपोर्ट्स एण्ड ट्रेडिंग कं. प्राइवेट लिमिटेड |
| 5. | 53836 | मै. अर्च यूनीक कनसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 6. | 107936 | मै. चैक ट्रेड इन्वेस्ट कं. प्राइवेट लिमिटेड |
| 7. | 80670 | मै. मल्टी ट्रेड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड |
| 8. | 92118 | मै. कव्रीया इस्पात प्राइवेट लिमिटेड |
| 9. | 43162 | मै. सुप्रीम टूल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 10. | 30260 | मै. राजेन्द्र झवेरी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 11. | 30247 | मै. दिलीप झवेरी फायनान्स एण्ड ट्रेडिंग कं. प्राइवेट लिमिटेड |
| 12. | 79884 | मै. भुव ओवरसीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 13. | 58183 | मै. साज मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 14. | 41283 | मै. ओनलुकर कम्प्युनिकेशन्स एण्ड एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 15. | 38875 | मै. अपनाई आई केम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 16. | 45880 | मै. इपीसक्यू फार्म प्राइवेट लिमिटेड |
| 17. | 43971 | मै. रीक्स इंटरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड |
| 18. | 16278 | मै. रीतु फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 19. | 45119 | मै. हलवासिका इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 20. | 82120 | मै. पर्सिंग एग्रो प्राइवेट लिमिटेड |

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कैकर्स इंडस्ट्रियस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400 002, दिनांक 6 अक्टूबर 2004

सं. 2883/11089/560/2980--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि मैसर्स कैकर्स इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 फास्ट ट्रैक स्कीम के
अंतर्गत आवेदन के मामले में।

मुंबई, दिनांक 2004

मे. भारत को सी/560 (3)/2000—एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20/9/2000 के पत्र सं. 1/5/2000 सी एल. व्ही. के परिपत्र सं. 10/2000 द्वारा पठित के अनुसरण में किसी व्यक्ति प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कम्पनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं दर्शाती है तो उनका रजिस्टर से नाम काट दिया जायेगा तथा निम्न कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी।

| क्र.सं. कम्पनी सं. | कम्पनी का नाम |
|--------------------|--|
| 1 | 2 |
| 3 | |
| 1. | 49282 मै. ब्रजराज सेल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 2. | 46505 मै. मेजिस्टीक सेल्स एण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड |
| 3. | 83224 मै. रौन अक्वा फर्म प्राइवेट लिमिटेड |
| 4. | 113671 मै. फुंकशय पोलीकार्बोनेट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 5. | 89618 मै. समिप्लेक्स टेक्स होम फरनीशिंग्स लि. |
| 6. | 38386 मै. सतनीक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 7. | 36999 मै. एडवान्स अडप्टीहा टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड |
| 8. | 41031 मै. आकांक्ष इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स लिमिटेड |
| 9. | 29978 मै. ग्रीन्वुड मीडवेस्ट इंजीनियरिंग कं. लि. |
| 10. | 68001 मै. शगुन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड |
| 11. | 66850 मै. अर्जय एगो एक्सपो प्राइवेट लिमिटेड |
| 12. | 66607 मै. श्री स्वाधी स्टॉक्स ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 13. | 66599 मै. एच. ई. डानचिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|---|
| 14. | 66450 | मै. पोर्ट फाउन्डेशन प्राइवेट लिमिटेड |
| 15. | 66140 | मै. वीजूअल आइडिया एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड |

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनी के विषय में
पांडिचेरी-605 011, दिनांक 8 अक्टूबर 2004

सं. 445/560(3)/2004—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनी का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और निम्न कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

| सं. कम्पनी सं. | कम्पनी का नाम | रजिस्ट्रेशन दिनांक |
|----------------|--|--------------------|
| 1. | 445 मै. एन. टी. इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड | 26.9.1985 |

एम. कण्णन
कम्पनियों का रजिस्ट्रार
पांडिचेरी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनी के विषय में
पांडिचेरी-605 011, दिनांक 8 अक्टूबर 2004

सं. 755/560(3)/2004—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनी का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और निम्न कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

| सं. कम्पनी सं. | कम्पनी का नाम | रजिस्ट्रेशन दिनांक |
|----------------|--------------------------------|--------------------|
| 1. | 755 मै. कारैकाल शुगर्स लिमिटेड | 1.7.1991 |

एम. कण्णन
कम्पनियों का रजिस्ट्रार
पांडिचेरी

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 29th September 2004

No. A-19014/08/2004-Admn.I—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 21/40/2004-CS.I dated 14th September 2004, the President is pleased to appoint Shri V.D. Arora (Date of Birth: 15.4.1955) (CSL No. 4859), an officer of CSS, who is presently working as Section Officer in the Department of Expenditure, as Under Secretary in the Office of UPSC on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 w.e.f. 29th September 2004.

2. The appointment of the above officer on ad-hoc basis is subject to the following conditions:

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or, for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I (Under Secretary) CSS;
- (ii) The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

The 4th October 2004

No. A-19011/4/2004-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri M.P. Tangirala, IP&TA&FA(90), as Joint Secretary (Director level) in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300 in the Office of the Union Public Service Commission for a period of five years w.e.f. the forenoon of 4th October, 2004 or until further orders, whichever event takes place earlier.

S. ANANDAN, Under Secy. (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 14th October 2004

No. DP PERS.I/2004/0077/3/35/96—The President is pleased to appoint Sh. Kathula Suryanarayana as Public Prosecutor in the CBI with effect from the forenoon of 13.09.2004 and until further orders.

RAJIV SINGH
Supdt. of Police (HQ)

The 15th October 2004

No. DP/PERS.I/0079/3/102/2004—Director, Central Bureau of Investigation is pleased to appoint Shri N.G. Chakravorty, Crime Assistant, CBI in the grade of Office

Superintendent, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 01.10.2004.

RAJIV SINGH
Supdt. of Police (HQ.)

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi-110023, the 14th October 2004

No. 2/26/03-Admn./7671—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Smt. Padmaja Varma, Chief Engineer (Civil), Central Public Works Department as Chief Technical Examiner in the Commission in the scale of pay of Rs. 18,400-400-22,400/- with effect from the afternoon of 08.10.2004 till her retirement on 31.12.2007 or until further orders, whichever is earlier.

MANGE LAL
Dy. Secy.
for the Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

BUREAU OF POLICE RESEARCH & DEVELOPMENT

New Delhi-110003, the 15th October 2004

No. 18/23/97-Adm.II—Approval of the MHA and UPSC is hereby conveyed to the extension of the deputation period of Shri Satish Kumar Ruhil, Works Manager, Haryana Roadways, Delhi in the post of Senior Scientific Officer (Traffic and Transport) in the Bureau of Police Research & Development, New Delhi for the period with effect from 25.09.2001 to 24.9.2003. He will not be entitled to draw any deputation allowance during the 5th year of his deputation period. Shri Ruhil has since been repatriated with effect from 24.9.2003 (AN) to his parent department.

2. This issues with the approval of the Ministry of Home Affairs vide their Dy. No. 982/MOS(S)/2003 dated 13.11.2003 and concurrence of the Union Public Service Commission.

A.K. SOOD
Assistant Dir. (Adm.)

DIRECTORATE GENERAL

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 13th October 2004

No. E-15014/1/2004/Pers.II/2674.—The competent authority is pleased to declare satisfactory completion of probation period in respect of following Assistant Commandants (Exe) and confirm in the respective rank in respect of directly recruited Assistant Commandant (Exe), as per details given below:—

| Sl. No. | Name of Officer | Rank | Date of promotion/ appointment as AC | Probation period completed satisfactorily on | Date of confirmation if any | Unit |
|---------|------------------------|--------|---|--|-----------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | (S/Shri) M.L. Korat | AC/Exe | 18.03.2002 | 17.09.2004 (Extended period) | N.A. | JNPT Sheva |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------------------|--------|------------|---------------------------------|------------|---|
| 2 | Patel Keyur M. (CSE-2001) | AC/Exe | 02.09.2002 | 01.09.2004 | 02.09.2004 | HEP Uri (Resigned from service on 04.09.04) |
| 3. | M.S. Hembram | -do- | 17.10.2K | 24.09.2004 (Extended period) | N.A. | 4th RBN Ranchi |

Sd/- ILLEGIBLE
DIRECTOR GENERAL/CISF

The 14th October 2004

No. F-15015(2)/1/2002/Pers.I/53—Consequent on regular promotion the following Assistants assumed the charge of Section Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in CISF with effect from the dates noted against each. Promotion will be subject to the availability of vacancy of Section Officer in future:—

| S.No. | Name of Officer | Office where assumed the charge | Date of assumption of charge as Section Officer on regular basis |
|-------|-----------------------|---------------------------------|--|
| 1 | Sh. Patris Lakra | FHQrs New Delhi | 20.09.2004 (FN) |
| 2 | Ms. Mohini Holaramani | FHQrs New Delhi | 20.09.2004 (FN) |

Sd/- ILLEGIBLE
DIRECTOR GENERAL/CISF

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)
INDIA SECURITY PRESS

Nashik Road, the 09th October 2004

Sub:—Gazetted Officer Gr. 'B' Adhoc promotion of.

No. 638/G/Estt-18-1—Shri S.D. Aware, Inspector, D.S.O. is appointed to the post of Security Officer (Group 'B' Gazetted) in the scale of Rs. 6500-200-10500/- on adhoc basis from 1.10.2004 to 30.11.2004 or till the DSO cadre is declared surplus, whichever is earlier.

PRAKASH NARAYAN
General Manager

INDIAN AUDITS & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (CIVIL AUDIT) ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500004, the 2004

Principal Accountant General (Civil Audit), Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to promote the following Assistant Audit Officers (Civil) of this Office to the cadre of "Audit Officer" (Civil) in the Scale of Rs. 7500-250-12000 with effect from the date mentioned against their names:—

| Sl. No. | Name of the Officer | Office Order No. & Date | Date of Assumption of Charge |
|---------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | (S/Shri) | | |
| 1. | D. Radha Krishna Murthy-II | 96/01.09.04 | 01.09.2004 F.N. |
| 2. | R. Jagadeeswar Rao | 114/01.10.04 | 01.10.2004 F.N. |
| 3. | Ch. Subba Rao | 114/01.10.04 | 01.10.2004 F.N. |

The above promotions are ordered without prejudice to the claims of their seniors, if any and subject to the result of the Writ Petitions, if any, pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court of India/Central Administrative Tribunal etc.

The above officials should exercise option within one month from the date of promotion in terms of Government of India O.M. No. F7/1/80-Estt. (P.I) dated 26.09.1981 and F. 13/26/82-Estt. (P.I) dated 08.02.1983.

G. SRINIVAS
Dy. Accountant General (Admn.)

Principal Accountant General (Civil Audit), Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to declare the retirement of the following Senior Audit Officers (Civil) with effect from the date noted against their names:—

| Sl. No. | Name and Designation | Date of Retirement |
|---------|-------------------------|---|
| | (S/Shri) | |
| 1. | K. Bala Shoury | 17.09.2004 F.N. (Voluntary Retirement) |
| 2. | V.V.S.R. Prasada Sastri | 30.09.2004 A.N. |
| 3. | B. Satyanarayana-II | 30.09.2004 A.N. |

G. SRINIVAS
Dy. Accountant General (Admn.)

Principal Accountant General (Civil Audit), Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to declare the retirement of

the following Assistant Audit Officer (Civil) with effect from the date noted against his name:—

| Sl. No. | Name and Designation | Date of Retirement |
|---------|----------------------|--------------------|
|---------|----------------------|--------------------|

| | | |
|----|------------------------------|------------------|
| 1. | Sh. Ch. Venkateswara Rao-III | 30.09.2004 A..N. |
|----|------------------------------|------------------|

G. SRINIVAS
Dy. Accountant General (Admn.)

**MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(SMALL SCALE INDUSTRIES)**

New Delhi, the 13th October 2004

No. A-19018/742/84-Admn.(G)—On attaining the age of superannuation, Shri Satya Pal, Deputy Director (Electronics), Office of the Development Commissioner (Small Scale Industries), New Delhi under Small Industry Development Organisation retired from Government service on the afternoon of 30.09.2004.

S.V.N. PILLAI
Dy. Director (Admn.)

No. A-19018/14/73-Admn.(G)—On attaining the age of superannuation, Shri G.P. Pathodia, Director (Mechanical), Samil Industries Service Institute, Indore under Small Industry Development Organisation retired from Government service on the afternoon of 30.09.2004.

S.V.N. PILLAI
Dy. Director (Admn.)

The 14th October 2004

No. A-19018/925/88-Admn.(G).—The President is pleased to appoint Dr. B. Dash, Assistant Director (Grade I) (Chemical), on deputation in Fragrance & Flavour Development Centre, Kannauj as Deputy Director (Chemical) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 in Small Industries Service Institute, Guwahati with effect from the forenoon of 20.9.2004 until further orders.

S.V.N. PILLAI
Dy. Director (Admn.)

**MINISTRY OF COAL & MINES
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA**

Kolkata-700016, the 13th October 2004

No. 2919/B/A-32013/COS/96/19A—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Shri Devi Singh, Assistant

Cost Accounts Officer, Geological Survey of India on promotion as Cost Accounts Officer on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the same Department on regular basis with effect from 15.09.2004 (FN) until further orders.

K.P. GAUTAM
Director (Personnel)
for Director General

**(DEPARTMENT OF MINES)
INDIAN BUREAU OF MINES**

Nagpur, the 27th September 2004

No. A-19011/248/2003-Estt. A.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee Shri S. Chandramouli, Mineral Economist (Int) has been promoted to the post of Superintending Mineral Economist (Int) in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 17.9.2004 (AN).

S.K. BATAV
Senior Adm. Officer
for Controller General

Nagpur, the 01st October 2004

No. A-19011/214/2004-Estt. App—"On acceptance of Voluntary Retirement Shri Tapan Biswas, Controller of Mines, Indian Bureau of Mines has relinquished charge on the forenoon of 1.10.2004".

B. SOOD
Asstt. Adm. Officer

No. A-19011/159/2003-Estt. App—"Shri S.K. Ghosh, Director (OD), Indian Bureau of Mines, has relinquished charge on the afternoon of 30.9.2004 on attaining the age of superannuation."

B. SOOD
Asstt. Adm. Officer

Nagpur, the 08th October 2004

No. A-19011/87/99-Estt.A.—The President is pleased to promote Shri S.S. Das, Chief Controller of Mines to the post of Controller General, Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 6.10.2004 (A.N.)

[Authority: Ministry's letter No. 26(22)/2003-Mines-III Dt. 6.10.2004]

S.K. GHOSAL
Chief Adm. Officer
for Controller General

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 8th October 2004

Ref. PD/7(4)/2004-R-IV/1169—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'E' of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officers/Engineers Grade 'E' in the same Research Centre with effect from the forenoon of February 1, 2004, in an officiating capacity until further orders :—

Sl. No. Name of the Officer

1. S/Chn

2. S/Chn R. K.

3. S/Chn Apurba

4. S/Chn Bhath

5. Narasimham K. V. N. S. V.P. L.

6. S/Chn Arun

7. S/Chn J. J.

8. S/Chn S. B.

9. S/Chn P. S.

10. S/Chn S. K. Dr.

11. S/Chn raguru K.

12. S/Chn Shiv Kumar Dr.

13. S/Chn Sreekguran B.

14. S/Chn M. R.

15. S/Chn D.

16. S/Chn D. C.

17. S/Chn P. D. Ms.

18. S/Chn appasamy C. V.

19. S/Chn chandran E. N.

20. S/Chn gurni Garain Dr (Smt)

21. S/Chn Shobha S. Dr (Smt)

22. S/Chn Pritika Lamba Dr (Smt)

23. S/Chn Ambulohi K.

24. S/Chn Ghanwat S. J.

25. S/Chn Panicker R. M.

26. S/Chn Chander Pal

27. S/Chn Ray Malayanil

28. S/Chn Sharma S. D.

29. S/Chn Saha S. Dr (Smt)

30. S/Chn Anil Kumar S.

1

2

30. Jethmalani P. S. Kum.

31. Joshi G. H.

32. Kamath V. S.

33. Venkatesha Prasad A. G.

34. Sampathkumar R.

35. Pal G.B.

36. Singh U. S.

Dr. G. D. PUNGLE
Controller

Ref. PD/7(6)/2004-R-IV/1169—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officers/Engineers Grade 'C' in the same Research Centre with effect from the forenoon of February 1, 2004, in an officiating capacity until further orders :—

Sl. No. Name of the Officer Present Grade

1

2

3

S/Shri

1. Theodore Soreng SB

2. Shreeprasad V. SA/D

3. Parshuram D. H. SB

4. Vivcka Nand Jha SB

5. Rao P. R. M. SB

6. Pravinkumar P. SB

7. Sugandhi Suresh Smt. SB

8. Asanali S. L. SB

9. Singh R. K. SB

10. Nagi Laxmi H. S. Kum. SB

11. Goyal A. H. Smt. SB

12. Kulkarni D. B. SA/B

13. Thakur V. M. Smt. SB

14. Sunil C. SB

15. Swarna T. Smt. SB

16. Zarekar H.S. SB

17. Thomas Biju SB

18. Pol S. K. SB

19. Soudamini N. Smt. SB

20. Thariyan T.C. SB

Dr. G. D. PUNGLE
Controller

Ref: PD/7(5)/2004-R-IV/1169—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officers/Engineers Grade 'D' in the same Research Centre with effect from the forenoon of February 1, 2004, in an officiating capacity until further orders :—

| Sl. No. | Name of the Officer | Present Grade |
|---------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | S/Shri | |
| 1. | Katdare G. A. Smt. | C |
| 2. | Bhardwaj Vivek | C |
| 3. | Shelke B. K. | SA/E |
| 4. | Saxena R. K. | C |
| 5. | Karande A. P. | C |
| 6. | Pandey B. C. | C |
| 7. | Rajput V. R. | C |
| 8. | Balakrishnan S. | SA/E |
| 9. | Pote M. B. | C |
| 10. | Sujata Radhakrishnan Smt. | C |
| 11. | Ramashanker Ram | SA/E |
| 12. | Shakya V. R. | C |
| 13. | Sarwar J. N. | C |
| 14. | Vashishtha Rakesh | C |
| 15. | Baburajan A. | C |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-----------------------------|---|
| 16. | Sharma J. D. | C |
| 17. | Madhu Babu J. | C |
| 18. | Soren D. C. | C |
| 19. | Gangawane S. S. Dr. | C |
| 20. | Venugopalan Ramani Smt. | C |
| 21. | Kale D. M. | C |
| 22. | Sharma S. C. | C |
| 23. | Dhar V. K. | C |
| 24. | Kadam M. P. | C |
| 25. | Jain P. K. | C |
| 26. | Nabar S. J. Dr. Smt. | C |
| 27. | Saini Manju Smt. | C |
| 28. | Kshama Srivastava Smt. | C |
| 29. | Aruna Kaushik Kum. | C |
| 30. | Haridas Gopalakrishnan Nair | C |
| 31. | Boby Mathew Dr. | C |
| 32. | Gaonkar Uma P. Smt. | C |
| 33. | Anuradha R. Smt. | C |
| 34. | Ashok Kumar P. | C |
| 35. | Harikumar M. | C |
| 36. | Viswanathan P. | C |
| 37. | Hareendran K. N. | C |

Dr. G. D. PUNGLE
Controller

The 11th October 2004

No. Estt. IA/6337—

| Sl. No. | Name of the Officer | Relinquished the charge of the post of | Date of relinquishment | Event |
|---------|--|--|------------------------|-----------------|
| 01. | Smt. Barnali Ghosh Deb | SO/D | 12.08.2004 | Resignation |
| 02. | Smt. Simran Khurana | SO/T | 13.08.2004 | Resignation |
| 03. | Shri Jinendra Gugaliya | SO/C | 16.08.2004 | Resignation |
| 04. | Dr. Balakrishnan Ravikumar | SO/E | 20.08.2004 | Resignation |
| 05. | Shri Saripalle Suryanarayana | SO/G | 23.08.2004 (FN) | Vol. Retirement |
| 06. | Dr. Arun Govind Page | SO/H | 31.08.2004 | Superannuation |
| 07. | Shri Harish Kumar Kaura | O.S. | 31.08.2004 | Superannuation |
| 08. | Shri Hariharan Kolluthu Mani | SO/E | 31.08.2004 | Superannuation |
| 09. | Shri Chennackal Parameswaran Raveendran Nair | SO/F | 31.08.2004 | Superannuation |
| 10. | Smt. Subodh Kumar Gupta | SO/G | 31.08.2004 | Superannuation |
| 11. | Shri Sureshchandra Bhaskar Vedak | SO/E | 31.08.2004 | Superannuation |
| 12. | Smt. Suchitra Dattatraya Joshi | SO/E | 31.08.2004 | Superannuation |
| 13. | Shri Pratap Balkrishna Sawant | SO/E | 31.08.2004 | Superannuation |
| 14. | Shri Vishwas Vasudeo Tambwekar | SO/E | 31.08.2004 | Superannuation |
| 15. | Shri Abdul Rahiman Umar Mushrif | SO/G | 31.08.2004 | Superannuation |

Dr. G. D. PUNGLE
Controller

**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
(CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY)**

Indore-452013, the 12th October 2004

No. CAT/Estt.-I/180/988—Consequent on attaining the age of superannuation, Dr. M. M. Bemalkhedkar has relinquished the charge of the post of Scientific Officer/G in the Centre for Advanced Technology, Indore w.e.f. afternoon of September 30, 2004.

P. MOHAN BABU
Administrative Officer-III

(DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES)

Mumbai-400094, the 4th October 2004

No. DPS/10015/Rectt./4124—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy has appointed Shri S. Manoharan, Storekeeper, CSU, DPS, Mumbai, as Assistant Stores Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- on an adhoc basis in the same Directorate with effect from 19.07.2004 (FN) to 31.03.2004 (AN).

KISHAN T. LONDHE
Administrative Officer-III

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-94, the 12th October 2004

No. HWB/R/5(2)-Tut/2004/822—Chief Executive, Heavy Water Board, (Central Office) appoints Shri Palanichamy Velraja, Stenographer Grade-II, Heavy Water Plant (Tuticorin) to officiate as Assistant Personal Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 with effect from June 14, 2004 (Forenoon) to July 29, 2004 (Afternoon).

D. S. RAO
Administrative Officer

INDIRA GANDHI CENTRE FOR ATOMIC RESEARCH

Kalpakkam-603102, the 1st October 2004

No. IGCAR/A-11013/2004-R/376—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of this Department as Scientific Officers/Engineers Grade "C" on an initial pay of Rs. 8825/- in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- with effect from the forenoon of 01st September 2004 until further orders.

| Sl. No. | IC. No/Divn | Name |
|---------|-------------|--------------------------|
| 1. | 6444/RpG | Shri Satish Kumar Velaga |
| 2. | 6445/RpG | Shri Mehul S. Bhatt |
| 3. | 6446/RSD/SG | Shri Kanchan Kushwaha |

M. VENUGOPALAN
Chief Administrative Officer

No. IGC/PF/407/2004-R/377—The President is pleased to appoint Shri N. Ananthanarayanan in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of this Department as Private Secretary on an initial pay of Rs. 8,500/- in the scale of Rs. 6500-200-10500/- with effect from the forenoon of 15.07.2004 in a temporary capacity until further orders.

M. VENUGOPALAN
Chief Administrative Officer

No. IGC/PF/6437/2004-R/378—The President is pleased to appoint Shri M. Ramakrishnan in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of this Department as Scientific Officer/Engineer Grade 'C' on an initial pay of Rs. 8,000/- in the scale of Rs. 8000-275-13500/- with effect from the forenoon of 11.08.2004 in a temporary capacity until further orders.

M. VENUGOPALAN
Chief Administrative Officer

No. IGC/PF/6434/2004-R/379—The President is pleased to appoint Shri T. Karthikeyan in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of this Department as Scientific Officer/Engineer Grade 'D' on an initial pay of Rs. 10,000/- in the scale of Rs. 10000-325-15200/- with effect from the forenoon of 21.07.2004 in a temporary capacity until further orders.

M. VENUGOPALAN
Chief Administrative Officer

No. IGCAR/A-11013/2004-R/380—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of this Department as Scientific Officers/Engineers Grade 'C' on an initial pay of Rs. 9100/- in the scale of Rs. 8000-275-13500/- with effect from the forenoon of 01 September 2004 until further orders.

| Sl. No. | IC. No/Divn | Name |
|---------|---------------|---------------------------|
| | | S/Shri |
| 1. | 6441/ED | M. S. Chandramouli Sharma |
| 2. | 6442/O&M/ROMG | Kalyana Rao Kuchipudi |
| 3. | 6443/STD/EDG | Shiv Prakash Ruhela |
| 4. | 6447/CG | S. Balakrishnan |
| 5. | 6448/CG | Suddhasattwa Ghosh |
| 6. | 6449/RpG | Prasanth G. Nair |

M. VENUGOPALAN
Chief Administrative Officer

No. IGC/PF/6435/2004-R/381—The President is pleased to appoint Shri Kinsuk Kumar Das in Indira Gandhi Centre

for Atomic Research, Kalpakkam of this Department as Scientific Officer/Engineer Grade 'C' on an initial pay of Rs.8,000/- in the scale of Rs. 8000-275-13500/- with effect from the forenoon of 23.07.2004 in a temporary capacity until further orders.

M. VENUGOPALAN
Chief Administrative Officer

**ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR
EXPLORATION & RESEARCH**

Hyderabad-500016, the 10th October 2004

No. AMD-4/1/2004-Rectt/1446—The Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, hereby appoints the following officials of the Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research as Scientific Officer-SB in the re-revised scale of pay of Rs. 7450-225-11500/- in the same Directorate in an officiating

capacity with effect from the dates shown against each, until further orders:—

| Sl. No. | Name | Present Grade | Date of assumption of charge |
|---------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| | S/Shri | | |
| 1. | G. Saravana Kumar | Scientific Assistant-C | 01.02.2004 |
| 2. | T. Rama Bhadrach | Scientific Assistant-C | 01.02.2004 |
| 3. | T. C. Sunil | Scientific Assistant-C | 01.02.2004 |
| 4. | M. Sreenivasa Reddy | Scientific Assistant-C | 01.02.2004 |

R. M. SINHA
Director

No. AMD-4/1/2004-Rectt/1447—The President is pleased to appoint the under mentioned Scientific Officers/Engineers of the Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, Hyderabad to the grades mentioned against each (carrying the scale of pay as mentioned thereunder) in the same Directorate in an officiating capacity on the dates shown against them, until further orders :

| Sl. No. | Name of the Officer | Present Grade | Promotion to Grade/ Scale of pay | Substantive post held | Date of Assumption of Charge |
|---------|---------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | (Shri/Smt./Dr.) | | | | |
| 01. | L. Siddi Ram Reddy | SO-D | SO-E (Rs. 12000-375-16500) | GRP-B (Tech) | 01.02.2004 |
| 02. | T. Arivalagan | SO-D | SO-E | GRP-A (Scient) | 01.02.2004 |
| 03. | K. Vijay Kumar | SO-D | SO-E | GRP-A (Scient) | 01.02.2004 |
| 04. | Usha Nathan | SO-D | SO-E | GRP-C (Tech) | 01.02.2004 |
| 05. | K. Srinivas | SO-D | SO-E | — | 01.02.2004 |
| 06. | Roopa Bose | SO-C | SO-D (Rs. 10000-325-15200) | GRP-C (Tech) | 01.02.2004 |
| 07. | A. V. Raghunadh | SO-C | SO-D | GRP-C (Tech) | 01.02.2004 |
| 08. | K. C. Rajan | SO-C | SO-D | SA-B | 01.02.2004 |
| 09. | Anil Dutt | SO-C | SO-D | SO-C | 11.02.2004 |
| 10. | Rajeev Ranjan | SO-C | SO-D | SG-C | 01.02.2004 |
| 11. | H. S. Rajaraman | SO-C | SO-D | SO-C | 01.02.2004 |
| 12. | A. K. Dwivedi | SO-C | SO-D | SO-C | 01.02.2004 |
| 13. | P. D. M. Pratap | SO-C | SO-D | GRP-C (Tech) | 01.02.2004 |
| 14. | P. K. Gurve | SO-SB | SO-C (Rs. 8000-275-13500) | GRP-C (Tech) | 01.02.2004 |
| 15. | C. B. Maithani | SO-SB | SO-C | GRP-C (Tech) | 01.02.2004 |

R. M. SINHA
Director

Hyderabad-500016, the 15th October 2004

No. AMD-16/1/95-Recdt./1497—Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri D. C. Meena, Security Officer (Rs. 6500-200-10500) BARC (T), Mumbai as Assistant Personnel Officer (Rs. 6500-200-10500) in the Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy with effect from the forenoon of 16.08.2004 until further orders.

Smt. AGNES BENSELY
Chief Admn. & Accounts Officer

DEPARTMENT OF SPACE

SATISH DHAWAN SPACE CENTRE SHAR

Sriharikota-524124, the 5th October 2004

No. SCF/PGA/Estt-II/15/04/950—The Controller, SDSC SHAR is pleased to appoint on Promotion the following personnel to the post indicated against each in the grade of Rs. 6500-200-10500/- in an Officiating capacity with effect from the forenoon of the date mentioned against each and until further orders at SDSC SHAR, Sriharikota.

| Sl. No. | Name | Designation | Date of Appointment |
|---------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| | S/Shri/Smt. | | |
| 01. | K. Suresh | Assistant Administrative Officer | 05.04.2004 |
| 02. | Rema Srinivasan | Assistant Administrative Officer | 22.04.2004 |
| 03. | V. Venkateswarlu | Personal Assistant-C | 23.06.2004 |
| 04. | G. Rana Rao | Project Stenographic Assistant | 04.08.2004 |

V. PRASAD
Senior Administrative Officer
Head of Office
For Controller

LIQUID PROPULSION SYSTEMS CENTRE

Thiruvananthapuram-695547, the 30th September 2004

No. 2/2 (5.1)/2004-Estt—Controller, LPSC hereby appoints on promotion the under mentioned persons to the posts mentioned against each in the LIQUID PROPULSION SYSTEMS CENTRE of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each, until further orders.

| Sl. No. | Name | Post to which promoted | Date of Promotion |
|---------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | S/Shri/Smt. | | |
| 01. | P. Senthil Selvan | Assistant Purchase & Stores Officer | 11.11.2003 |
| 02. | N. Sujan Kumar | Assistant Purchase & Stores Officer | 21.04.2004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|----------------------|--------------------------------|------------|
| 03. | K. V. Sebastian | Personal Assistant 'C' | 24.05.2004 |
| 04. | T. Chellathurai | Personal Assistant 'C' | 25.05.2004 |
| 05. | R. Geetha | Personal Assistant 'C' | 07.06.2004 |
| 06. | M. R. Prem Kumar | Asstt. Pur. & Stores Officer | 07.06.2004 |
| 07. | K. Muralidharan Nair | Project Stenographic Assistant | 04.08.2004 |

R. MURUGESAN
Senior Administrative Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 11th October 2004

No. A-32013/4/2004-E.II.—The President is pleased to appoint Shri N.S. Munday, Director (Research and Development) of the Office of the Director General of Civil Aviation to the grade of Deputy Director General (Research and Development), in the scale of pay of Rs. 16400-450-20000/- on ad-hoc basis, for a period of 06 months, with effect from 08.10.2004 (forenoon) or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

CHANAN RAM
Dy. Dir. of Administration

MINISTRY OF WATER RESOURCES (CENTRAL GROUND WATER BOARD)

Faridabad, the 18th August 2004

No. 3-1494/2004-Engg. Estt.—On the recommendation of the DPC Sh. Mangat Ram is promoted to the post of Driller-in-charge GCS (Gr. B) (Gazetted) in the pay scale of Rs. 7500-250-12000/- in CGWB on temporary basis w.e.f. 01.07.2004 (FN)

ASHIS CHAKRABORTY
Executive Engineer

The 28th September 2004

No. 3-1493/2004-Engss. Estt.—On the recommendation of the DPC Sh. Dayal Chand is promoted to the post of Driller-in-charge GCS (Gr. B) (Gazetted) in the pay scale of Rs. 7500-250-12000/- in CGWB on temporary basis w.e.f. 12.07.2004 (FN).

ASHIS CHAKRABORTY
Executive Engineer

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Focus Portfolio Private Limited

New Delhi-110019, the 05th October 2004

No. SES /560(5)/55/75060/291/2153—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Focus Portfolio Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. ABP Environmental Solutions Private Limited

New Delhi-110003, the 08th October 2004

No. U/s 560/74730/9685—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. ABP Environmental Solutions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. SAH
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. RPG Agencies Private Limited

New Delhi-110003, the 08th October 2004

No. U/s 560/55621/9689—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. RPG Agencies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. SAH
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Time World Private Limited

New Delhi-110003, the 08th October 2004

No. U/s 560(3)/55-70426/9693—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the

date hereof the name of M/s. Time World Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. SAH
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. G R Equipment Private Limited

New Delhi-110003, the 08th October 2004

No. U/s 560(3)/55-74324/9696—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. G R Equipment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. SAH
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Baker Bun India Private Limited

New Delhi-110019, the 11th October 2004

No. SES 560(5)/55/111768/239/2282—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Baker Bun India Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Windlass Information Systems Limited

New Delhi-110003, the 13th October 2004

No. 560(5)/55/103649/2339—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Windlass Information Systems Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Venous Housing & Constructions Private Limited

New Delhi-110019, the 14th October 2004

No. SES 560(5)/55-89325/306/2393—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the name of M/s. Venous Housing & Constructions Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Suman Finlease Private Limited

New Delhi-110019, the 14th October 2004

No. 560(5)/05/33177/207/2396—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Suman Finlease Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Litho Colour Craft Private Limited

New Delhi-110019, the 14th October 2004

No. 560(5)/55/103204/2399—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Litho Colour Crafts Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Contentguard. Com Private Limited

New Delhi-110019, the 14th October 2004

No. 560(5)/55/104405/2402—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Contentguard. Com Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Teviraena Gardens Private Limited

New Delhi-110019, the 14th October 2004

No. 560(5)/55/99137/2405—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that the name of M/s. Teviraena Gardens Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kasbri Exim Private Limited

New Delhi-110019, the 14th October 2004

No. 560(5)/55/90827/2408—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kasbri Exim Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anmol Enterprises Private Limited

Jaipur, the 08th October 2004

No. ROC/JPR/560/2101/1376—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Anmol Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company is dissolved.

V. K. KHOOBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kamdhenu East Private Limited

Jaipur, the 11th October 2004

No. ROC/560/5783/1382—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Kamdhenu East Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company is dissolved.

V. K. KHOOBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Jaipur, the 15th October 2004

No. ROC/560/1323—Notice is hereby given pursuant
to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act,
1956 the following Companies (Total 548—List attached)

that at the expiration of three months from the date hereof
the names of the said Companies unless cause is shown to
the contrary will be struck off from the Register and the
said Companies shall be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

LIST OF COMPANIES

| Sl. No. | Name of the Company | Company No. & CIN No. |
|---------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 01. | M/s Dada Jindusttsur Gyan Sindhu Ltd. | 4,093-U80302RJ1987PLC004093 |
| 02. | M/s Mag Pvt. Ltd. | 3,663-U74300RJ1986PTC003663 |
| 03. | M/s Tushar Capital Service | 8,190-U28933RJ1994PTC008190 |
| 04. | M/s Star Lite LeaFin Ltd. | 9,141-U65910RJ1994PTC009141 |
| 05. | M/s Malti Agencies Pvt. Ltd. | 5,709-U55101RJ1990PTC005709 |
| 06. | M/s Khinasara Strips Pvt. Ltd. | 2,235-U27107RJ1981PTC002235 |
| 07. | M/s Wadhwa Transport Company Pvt. Ltd. | 14,645-U60210RJ1980PTC014645 |
| 08. | M/s Jiwatram Chit Fund Pvt. Ltd. | 1,201-U55101RJ1965PLC001201 |
| 09. | M/s Satyam Royan Pvt. | 4,556-U17117RJ1988PTC004556 |
| 10. | M/s Shri Bajrang Timber Pvt. Ltd. | 14,219-U20211RJ1997PTC014219 |
| 11. | M/s Osho Capital Pvt. Ltd. | 10,325-U67120RJ1995PTC010325 |
| 12. | M/s Golecha Enterprises Pvt. Ltd. | 2,320-U51101RJ1981PTC002320 |
| 13. | M/s Survival Rubber Mills Pvt. Ltd. | 15,069-U25191RJ1998PTC015069 |
| 14. | M/s Lenient Tex Pvt. Ltd. | 13,993-U17124RJ1997PTC013993 |
| 15. | M/s Navajoti Publicity and Allied Services Pvt. Ltd. | 2,947-U74300RJ1984PTC002947 |
| 16. | M/s Anukul Syntex Pvt. Ltd. | 4,607-U17118RJ1988PTC004607 U14101RJ1995PTC010330 |
| 17. | M/s Shri Raj Krishna Parami Exports Pvt. Ltd. | 13015-U51311RJ1996PTC013015 |
| 18. | M/s Supremo Eleectrions Pvt. Ltd. | 13036-U29299RJ1996PTC013036 |
| 19. | M/s Shree Ganesh Finserve Pvt. Ltd. | 13091-U67120RJ1997PTC013091 |
| 20. | M/s Regency Motor Company Ltd. | 13112-U34103RJ1997PTC013112 |
| 21. | M/s Heera Trade Links Pvt. Ltd. | 13148-U27107RJ1997PTC013148 |
| 22. | M/s Shri Shanker Oils Pvt. Ltd. | 13153-U15142RJ1997PTC013153 |
| 23. | M/s Rajasthan State Electricity Corp. Ltd. | 13170-U40102RJ1997PTC013170 |
| 24. | M/s Dharamraj Lease & Finance Ltd. | 13249-U65910RJ1997PTC013249 |
| 25. | M/s Jasprit Dairy Pvt. Ltd. | 13260-U15203RJ1997PTC013260 |
| 26. | M/s Quality Fincap Pvt. Ltd. | 13275-U67120RJ1997PTC013275 |
| 27. | M/s IPE Professionals Pvt. Ltd. | 13294-U67190RJ1997PTC013294 |
| 28. | M/s Sans Kriti Exports Pvt. Ltd. | 13299-U18101RJ1997PTC013299 |
| 29. | M/s Glory Food Products Pvt. Ltd. | 13403-U15499RJ1997PTC013403 |
| 30. | M/s Naruka Holiday Resorts Pvt. Ltd. | 13415-U55102RJ1997PTC013415 |
| 31. | M/s Ankleshwar Marbles Pvt. Ltd. | 13507-U14101RJ1997PTC013507 |
| 32. | M/s Anu Taxspares Pvt. Ltd. | 13513-U45201RJ1997PTC013513 |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--|-----------------------------|
| 33. | M/s Jharkhand Exports Pvt. Ltd. | 13681-U17118RJ1997PTC013681 |
| 34. | M/s Rajasthan Lithotripsy Hospital & Urology Research Centre Pvt. Ltd. | 13720-U85110RJ1997PTC013720 |
| 35. | M/s Pan Build Pvt. Ltd. | 13722-U26939RJ1997PTC013722 |
| 36. | M/s Vaidya Toures & Carriers Pvt. Ltd. | 13751-U63040RJ1997PTC013751 |
| 37. | M/s Nitisha Overseas Pvt. Ltd. | 13758-U18101RJ1997PTC013758 |
| 38. | M/s AJM Foods (India Pvt. Ltd. | 13822-U28992RJ1997PTC013822 |
| 39. | M/s Trishrs Lime & Chemicals Pvt. Ltd. | 13829-U24117RJ1997PTC013829 |
| 40. | M/s Nanda Marbles Pvt. Ltd. | 13867-U14101RJ1997PTC013867 |
| 41. | M/s N. R. Fin Cap Pvt. Ltd. | 13882-U67120RJ1997PTC013882 |
| 42. | M/s Madhav Auto Parks Pvt. Ltd. | 13926-U34300RJ1997PTC013926 |
| 43. | M/s Palriwal Construction Company Pvt. Ltd. | 13968-U45201RJ1997PTC013968 |
| 44. | M/s Bharat Educational Institute Pvt. Ltd. | 13500-U80302RJ1997PTC013500 |
| 45. | M/s Jaipur Public School Ltd. | 14000-U80211RJ1997PLC014000 |
| 46. | M/s Traditional Marketing Ltd. | 14013-U52201RJ1997PLC014013 |
| 47. | M/s Status Card Pvt. Ltd. | 14045-U92199RJ1997PTC014045 |
| 48. | M/s Dharti Dhan Minerals Pvt. Ltd. | 14107-U14102RJ1997PTC014107 |
| 49. | M/s Euro Com Enterprises (India) Pvt. Ltd. | 14172-U18101RJ1997PTC014172 |
| 50. | M/s Kanbro Capsules Pvt. Ltd. | 14203-U24232RJ1997PTC014203 |
| 51. | M/s Surya Wheat Products Pvt. Ltd. | 14279-U15311RJ1997PTC014279 |
| 52. | M/s Midland Club Pvt. Ltd. | 14309-U92419RJ1997PTC014309 |
| 53. | M/s Ambika Hardware Pvt. Ltd. | 14404-U28939RJ1997PTC014404 |
| 54. | M/s Shreshth Medicines Pvt. Ltd. | 14450-U24232RJ1997PTC014450 |
| 55. | M/s Sachha Suitings Pvt. Ltd. | 14445-U18108RJ1997PTC014445 |
| 56. | M/s Odessy Hotel Pvt. Ltd. | 14457-U55101RJ1997PTC014457 |
| 57. | M/s B and B Exports Pvt. Ltd. | 14611-U18101RJ1998PTC014611 |
| 58. | M/s Gomti Sagar Ice and Cold Storage Pvt. Ltd. | 14499-U63022RJ1997PLC014499 |
| 59. | M/s DAP Ventures Pvt. Ltd. | 14657-U55101RJ1998PTC014657 |
| 60. | M/s Raj Begu heritage Resorts Pvt. Ltd. | 14744-U55102RJ1998PTC014744 |
| 61. | M/s Purnim Ajayfin Enterpress Pvt. Ltd. | 14764-U67120RJ1998PTC014764 |
| 62. | M/s Overseas Colonisers Pvt. Ltd. | 14975-U45201RJ1998PTC014975 |
| 63. | M/s Dr. Narendra's Hospital Pvt. Ltd. | 14621-U85110RJ1998PTC014621 |
| 64. | M/s Shakambhari Buildcon Pvt. Ltd. | 15017-U51432RJ1998PTC015017 |
| 65. | M/s Nova Care Pharmachem Pvt. Ltd. | 15060-U24232RJ1998PTC015060 |
| 66. | M/s Inter City Card Services Pvt. Ltd. | 15094-U74999RJ1998PTC015094 |
| 67. | M/s Shree Ganesh Agrocon Pvt. Ltd. | 15175-U72100RJ1998PTC015175 |
| 68. | M/s ADMG Architect & Builders Pvt. Ltd. | 15189-U51432RJ1998PTC015189 |
| 69. | M/s Chirag Residency Resorts Pvt. Ltd. | 15232-U55102RJ1998PTC015232 |
| 70. | M/s Moti Jewellery Pvt. Ltd. | 15251-U36111RJ1998PTC015251 |
| 71. | M/s Naju Media Solutions Pvt. Ltd. | 15252-U72200RJ1998PTC015252 |
| 72. | M/s Album Net Pvt. Ltd. | 15258-U72100RJ1998PTC015258 |
| 73. | M/s BCM Marbles Pvt. Ltd. | 15274-U14101RJ1998PTC015274 |
| 74. | M/s Laxmi Powerloom Factory Pvt. Ltd. | 15277-U74999RJ1998PTC015277 |
| 75. | M/s Sarvodaya Herbspharma Pvt. Ltd. | 15312-U24234RJ1999PTC015312 |

| 1 | 2 | 3 |
|------|---|-----------------------------|
| 76. | M/s Mansoon Resorts Pvt. Ltd. | 15388-U55102RJ1999PTC015388 |
| 77. | M/s Canasta Computers Pvt. Ltd. | 15413-U72100RJ1999PTC015413 |
| 78. | M/s Shree Shyam Irrigation Pvt. Ltd. | 15556-U29212RJ1999PTC015556 |
| 79. | M/s Pradeep Cinevision Pvt. Ltd. | 14176-U92111RJ1997PTC014176 |
| 80. | M/s Ajaymeru Agroaqua Pvt. Ltd. | 13809-U15142RJ1997PTC013809 |
| 81. | M/s Monika Capital Services Pvt. Ltd. | 13404-U67120RJ1997PTC013404 |
| 82. | M/s Nestors Mulberrys Ltd. | 15506-U15432RJ1999PLC015506 |
| 83. | M/s Naruka Security & Detective Services Pvt. Ltd. | 15619-U74920RJ1999PTC015619 |
| 84. | M/s Rajgarhia Cold Storage Pvt. Ltd. | 15669-U63022RJ1999PTC015669 |
| 85. | M/s Gemtek Tools & Bits Pvt. Ltd. | 15711-U28939RJ1999PTC015711 |
| 86. | M/s Motrep Exports Pvt. Ltd. | 15786-U24246RJ1999PTC015786 |
| 87. | M/s Narsingh Plantation Pvt. Ltd. | 15790-U02001RJ1999PTC015790 |
| 88. | M/s Jaipur Bio Fertilizers Pvt. Ltd. | 15795-U24124RJ1999PTC015795 |
| 89. | M/s Cosela Hospitality Pvt. Ltd. | 15811-U85110RJ1999PTC015811 |
| 90. | M/s Meva Ice Pvt. Ltd. | 15918-U63022RJ1999PTC015918 |
| 91. | M/s GSC Impex Pvt. Ltd. | 15962-U24232RJ1999PTC015962 |
| 92. | M/s Forte Technology Consultants Pvt. Ltd. | 15969-U74210RJ1999PTC015969 |
| 93. | M/s Ven Aesthetic Creations Pvt. Ltd. | 15983-U17118RJ1999PTC015983 |
| 94. | M/s Skyline Infotech Pvt. Ltd. | 15675-U72200RJ1999PTC015675 |
| 95. | M/s Shree Karani Dali Mills Pvt. Ltd. | 1042-U15313RJ1957PTC001042 |
| 96. | M/s Maheshwari Minerals & Chemicals Pvt. Ltd. | 2409-U14107RJ1982PTC002409 |
| 97. | M/s Bankers Book Publishing House Pvt. Ltd. | 2257-U22122RJ1981PTC002257 |
| 98. | M/s Elbbec Travels Pvt. Ltd. | 2939-U63040RJ1984PTC002939 |
| 99. | M/s Jodhpur Cement Industries Pvt. Ltd. | 2878-U26943RJ1984PTC002878 |
| 100. | M/s Ammdac Dyes Pvt. Ltd. | 1794-U24114RJ1978PTC001794 |
| 101. | M/s Saraf Properties Pvt. Ltd. | 2304-U70101RJ1981PTC002304 |
| 102. | M/s Brew Malt (India) Ltd. | 1566-U15532RJ1974PLC001566 |
| 103. | M/s United Iron & Steel Merchants Association (Sriganganagar) Pvt. Ltd. | 959-U27101RJ1953PTC000959 |
| 104. | M/s Badri Das Girdhar Das Pvt. Ltd. | 1374-U18101RJ1971PTC001374 |
| 105. | M/s Maru Agro Products Pvt. Ltd. | 2798-U51214RJ1983PTC002798 |
| 106. | M/s Dev Rajasthan Glazed Tiles Ltd. | 2102-U31300RJ1980PLC002102 |
| 107. | M/s Khalsa Metals Pvt. Ltd. | 2357-U27101RJ1981PTC002357 |
| 108. | M/s Meru Theatres Pvt. Ltd. | 2311-U92120RJ1981PTC002311 |
| 109. | M/s Todi Wooden Mills Ltd. | 1811-U17117RJ1978PLC001811 |
| 110. | M/s Super Marbles Pvt. Ltd. | 2565-U14101RJ1982PTC002565 |
| 111. | M/s Ankur Ispat Pvt. Ltd. | 2670-U29130RJ1983PTC002670 |
| 112. | M/s Kasliwal Brothers Pvt. Ltd. | 1328-U26932RJ1970PTC001328 |
| 113. | M/s Jaipur Industries & Trading Corporation Pvt. Ltd. | 391 |
| 114. | M/s Arya Sahitya Maudal Ltd. | 31 |
| 115. | M/s Shri Guru Nanak Steel Mill Pvt. Ltd. | 2300-U27107RJ1981PTC002300 |
| 116. | M/s Shiv Publishers Pvt. Ltd. | 2689-U22122RJ1983PTC002689 |
| 117. | M/s Sun Shine Lucky Saving (P) Ltd. | 1329-U26932RJ1970PTC001329 |
| 118. | M/s Trading & Saving Sun Shine Co. Pvt. Ltd. | 1569-U24222RJ1974PTC001579 |
| 119. | M/s Hem Kund Cement Ltd. | 2731-U26943RJ1983PLC002731 |

| 1 | 2 | 3 |
|------|--|-----------------------------|
| 120. | M/s Jodhpur Chemoplast Pvt. Ltd. | 2452-U24117RJ1982PTC002452 |
| 121. | M/s Friends Logistics Pvt. Ltd. | 2408-U27101RJ1982PTC002408 |
| 122. | M/s Carnation Tex Tiles Pvt. Ltd. | 2226-U17124RJ1981PTC002226 |
| 123. | M/s Dalson Sids Pvt. Ltd. | 2700-U17101RJ1983PTC002700 |
| 124. | M/s S. D. Properties Pvt. Ltd. | 1424-U70101RJ1972PTC001424 |
| 125. | M/s Raj Woollens Ltd | 1821-U17117RJ1978PLC001821 |
| 126. | M/s Vigorous Detectives Pvt. Ltd. | 1743-U74920RJ1977PTC001743 |
| 127. | M/s Babu Lal Ramesh Chand Pvt. Ltd. | 1842-U51211RJ1978PTC001842 |
| 128. | M/s Rajputana Securities & Detective Pvt. Ltd. | 2395-U24920RJ1982PTC002395 |
| 129. | M/s Dhir Investment Pvt. Ltd. | 2587-U26943RJ1982PTC002587 |
| 130. | M/s Electrical Sales Pvt. Ltd. | 1931-U51101RJ1979PTC001931 |
| 131. | M/s Reliance Rubber Ltd. | 2493-U25191RJ1982PLC002493 |
| 132. | M/s Brait Cements Ltd. | 2778-U26943RJ1983PLC002778 |
| 133. | M/s Diamond Minerals Ltd. | 1812-U14219RJ1978PTC001812 |
| 134. | M/s Shakti Tyres Pvt. Ltd. | 2377-U25111RJ1981PTC002377 |
| 135. | M/s Fleming Laboratories Pvt. Ltd. | 2990-U |
| 136. | M/s Baldwa Fabrics (P) Ltd. | 2533-U17124RJ1982PTC002533 |
| 137. | M/s Marudhra Cables Pvt. Ltd. | 1996-U31300RJ1980PTC001996 |
| 138. | M/s Aashish Transports Pvt. Ltd. | 1905-U60231RJ1997PTC001905 |
| 139. | M/s K.V.S. Construction (P) Ltd. | 2720-U45201RJ1983PTC002720 |
| 140. | M/s Rajasthan Phosphorous & Chemicals Ltd. | 1749-U24117RJ1977PLC001749 |
| 141. | M/s Shri Vrudhi Chemicals Pvt. | 12643-U24117RJ1996PTC012643 |
| 142. | M/s Pahadwali Capital Pvt. Ltd. | 11066-U67120RJ1995PTC011066 |
| 143. | M/s M. Tex Overseas Pvt. Ltd. | 10257-U18101RJ1995PTC010257 |
| 144. | M/s Bagree Hospital Pvt. Ltd. | 10593-U85110RJ1995PTC010593 |
| 145. | M/s Chunni Lal Constructions Pvt. Ltd. | 10878-U45201RJ1995PTC010878 |
| 146. | M/s V.J. Bwid Con Pvt. Ltd. | 12947-U45201RJ1996PTC012947 |
| 147. | M/s AGK Packaging Pvt. Ltd. | 10342-U74950RJ1995PTC010342 |
| 148. | M/s Shri Aditya Varna Chemical Pvt. Ltd. | 11186-U29117RJ1995PTC011186 |
| 149. | M/s Karal Information Services Pvt. Ltd. | 10760-U92112RJ1995PTC010760 |
| 150. | M/s Speed Well Road Liners Pvt. Ltd. | 11786-U60221RJ1996PTC011786 |
| 151. | M/s Sancheti Securities Pvt. Ltd. | 10180-U67120RJ1995PTC010180 |
| 152. | M/s Kabra Bearings Pvt. Ltd. | 10710-U29130RJ1995PTC010710 |
| 153. | M/s Zen Store Spin Tex Pvt. Ltd. | 10117-U18101RJ1995PTC010117 |
| 154. | M/s Zen Star Investment Pvt. Ltd. | 10123-U65993RJ1995PTC010123 |
| 155. | M/s Shree M. Ashoka Mills Pvt. Ltd. | 11462-U18101RJ1996PTC011462 |
| 156. | M/s Zen India Impex Pvt. Ltd. | 10219-U51102RJ1995PTC010219 |
| 157. | M/s Kar's Finance Ltd. | 11766-U67120RJ1996PTC011766 |
| 158. | M/s Bhamasa Finance and Marketing Pvt. Ltd. | 11770-U67120RJ1996PTC011770 |
| 159. | M/s Gisha Export Pvt. Ltd. | 11070-U14102RJ1995PTC011070 |
| 160. | M/s Shakun Expotrade Pvt. Ltd. | 10605-U51102RJ1995PTC010605 |
| 161. | M/s Sun Finex Pvt. Ltd. | 12185-U67120RJ1996PTC012185 |
| 162. | M/s Chirayu Marbles Pvt. Ltd. | 10023-U14101RJ1995PTC010023 |
| 163. | M/s Saptarishi Marmo Pvt. Ltd. | 10022-U14101RJ1995PTC010022 |
| 164. | M/s Shiv Shanker Biid Cam Pvt. Ltd. | 11156-U29299RJ1995PTC011156 |

| 1 | 2 | 3 |
|------|---|-----------------------------|
| 165. | M/s Peyash Spinners Pvt. Ltd. | 10570-U17114RJ1995PTC010570 |
| 166. | M/s Micro Capsules Ltd. | 10553-U24232RJ1995PTC010553 |
| 167. | M/s Maa Finsec Pvt. Ltd. | 12145-U67120RJ1996PTC012145 |
| 168. | M/s P.L. Fabtex Pvt. Ltd. | 10674-U18101RJ1995PTC010674 |
| 169. | M/s Jai Shree Nath Spring Auto Pvt. Ltd. | 11993-U34300RJ1996PTC011993 |
| 170. | M/s Shivam Studios Pvt. Ltd. | 4566-U74940RJ1988PTC004566 |
| 171. | M/s Suzuki Finlease Pvt. Ltd. | 10210-U65910RJ1995PTC010210 |
| 172. | M/s TPD Resorts Pvt. Ltd. | 10116-U55101RJ1995PTC010116 |
| 173. | M/s TPD Stock Brokings Pvt. Ltd. | 11790-U67120RJ1996PTC011790 |
| 174. | M/s Rachna Minerals Pvt. Ltd. | 15567-U14102RJ1999PTC015567 |
| 175. | M/s Apnaghar Buildcon Pvt. Ltd. | 10969-U45201RJ1995PTC010969 |
| 176. | M/s Lalsotwala Properties Pvt. Ltd. | 12708-U45201RJ1996PTC012708 |
| 177. | M/s Registhan Hotels Pvt. Ltd. | 12843-U45201RJ1996PTC012843 |
| 178. | M/s S. Chouhan Chemicals Pvt. Ltd. | 10206-U27201RJ1995PTC010206 |
| 179. | M/s ABC Leafin Pvt. Ltd. | 11957-U65910RJ1996PTC011957 |
| 180. | M/s Mass Agro Farmers Pvt. Ltd. | 11522-U70109RJ1996PTC011552 |
| 181. | M/s Jogmaya Marbles Pvt. Ltd. | 12428-U14101RJ1996PTC012428 |
| 182. | M/s Basara Minerals & Chemicals Pvt. Ltd. | 10726-U24117RJ1995PTC010726 |
| 183. | M/s Access Liaison And Placement Services Pvt. Ltd. | 12812-U74910RJ1996PTC012812 |
| 184. | M/s Baheti Leasings Pvt. Ltd. | 12681-U65910RJ1996PTC012681 |
| 185. | M/s Utkarsh Fincon Pvt. Ltd. | 10216-U67120RJ1995PTC010216 |
| 186. | M/s Mass Creation Pvt. Ltd. | 11538-U74300RJ1996PTC011538 |
| 187. | M/s Mass Infin Pvt. Ltd. | 11551-U65993RJ1996PTC011551 |
| 188. | M/s Lubilee Fincom Pvt. Ltd. | 12061-U67120RJ1996PTC12061 |
| 189. | M/s Classic Beamers Pvt. Ltd. | 11539-U74241RJ1996PTC011539 |
| 190. | M/s Parihar Motors Pvt. Ltd. | 11940-U34300RJ1996PTC011940 |
| 191. | M/s Neha Finvest Pvt. Ltd. | 11728-U65993RJ1996PTC011728 |
| 192. | M/s Chemtak Polymers Pvt. Ltd. | 10860-U24117RJ1995PTC010860 |
| 193. | M/s Pink City Fin-Stock & Lease. Ltd. | 11434-U67120RJ1996PTC011434 |
| 194. | M/s Kundan Estates and Hotel Pvt. Ltd. | 12082-U70101RJ1996PTC012082 |
| 195. | M/s Terapanthi Exports Pvt. Ltd. | 10676-U51102RJ1995PTC010676 |
| 196. | M/s Koral Financial Services Pvt. Ltd. | 12798-U67120RJ1996PTC012798 |
| 197. | M/s Regal Finlease Pvt. Ltd. | 11928-U65910RJ1996PTC011928 |
| 198. | M/s Gold Line Fincap Pvt. Ltd. | 12800-U67120RJ1996PTC012800 |
| 199. | M/s Goodmorning India Travels House Pvt. Ltd. | 10269-U63040RJ1995PTC010269 |
| 200. | M/s K. N. Imported Articles Ltd. | 12110-U51399RJ1996PTC012110 |
| 201. | M/s Sky Line Shipping Agencies Pvt. Ltd. | 12468-U63090RJ1996PTC012468 |
| 202. | M/s R.S. Vidhya Fashion Agencies Pvt. Ltd. | 12771-U74994RJ1996PTC012771 |
| 203. | M/s Pushpa Motors Pvt. Ltd. | 11911-U34300RJ1996PTC011911 |
| 204. | M/s Fortune Network Pvt. Ltd. | 11260-U92111RJ1995PTC011260 |
| 205. | M/s Isha Cafes Pvt. Ltd. | 12610-U55209RJ1996PTC012610 |
| 206. | M/s Arnish Distributors & Fabricators Pvt. Ltd. | 11608-U25201RJ1996PTC011608 |
| 207. | M/s Hotel Hemlani Pvt. Ltd. | 11439-U RJ1996PTC011439 |
| 208. | M/s SIR Securities Pvt. Ltd. | 10460-U67120RJ1995PTC010460 |
| 209. | M/s K. K. Medi Prob Pvt. Ltd. | 10026-U73100RJ1995PTC010026 |

| 1 | 2 | 3 |
|------|---|-----------------------------|
| 210. | M/s Rey'a Pharma Pvt. Ltd. | 11644-U24232RJ1996PTC011644 |
| 211. | M/s Cauveri Fin Mark Pvt. Ltd. | 11679-U67120RJ1996PTC011679 |
| 212. | M/s Tusar Production Pvt. Ltd. | 12390-U92132RJ1996PTC012390 |
| 213. | M/s Premier Felt Company Pvt. Ltd. | 11125-U17117RJ1995PTC011125 |
| 214. | M/s Mon-vally Holdings Pvt. Ltd. | 10684-U65993RJ1995PTC010684 |
| 215. | M/s Aphaarma Export Pvt. Ltd. | 12786-U24232RJ1996PTC012786 |
| 216. | M/s Silver Line Finlease Pvt. Ltd. | 12799-U65710RJ1996PTC012799 |
| 217. | M/s White Line Marketing Pvt. Ltd. | 11530-U24232RJ1996PTC011530 |
| 218. | M/s Yash Cement Pvt. Ltd. | 10859-U26943RJ1995PTC010859 |
| 219. | M/s Siddarth Computer Leasing Co. Pvt. Ltd. | 10139-U65910RJ1995PTC010139 |
| 220. | M/s Novelty Mincham Pvt. Ltd. | 12794-U14219RJ1996PTC012794 |
| 221. | M/s Ankita Marbles And Minerals Pvt. Ltd. | 11182-U14101RJ1995PTC011182 |
| 222. | M/s Classic Chambers Pvt. Ltd. | 11898-U45201RJ1996PTC011898 |
| 223. | M/s Sunny Jewellery Pvt. Ltd. | 12059-U36911RJ1996PTC012059 |
| 224. | M/s Kay Jay Finlease Pvt. Ltd. | 10686-U65910RJ1995PTC010686 |
| 225. | M/s Kay Arr Cap Pvt. Ltd. | 10009-U67120RJ1995PTC010009 |
| 226. | M/s Television Aquarius Pvt. Ltd. | 12448-U32101RJ1996PTC012448 |
| 227. | M/s Visible Finance Pvt. Ltd. | 12243-U65923RJ1996PTC012243 |
| 228. | M/s Madho Shyam Hospital Pvt. Ltd. | 10728-U85110RJ1995PTC010728 |
| 229. | M/s Nanesh Finance & Investment Pvt. Ltd. | 10972-U67120RJ1995PTC010972 |
| 230. | M/s Mohit Finvest Pvt. Ltd. | 12702-U65993RJ1996PTC012702 |
| 231. | M/s Gym-dim Resorts Pvt. Ltd. | 11560-U55102RJ1996PTC011560 |
| 232. | M/s PBM Overseas Pvt. Ltd. | 11483-U51311RJ1996PTC011483 |
| 233. | M/s Ecofin Alloys Pvt. Ltd. | 10261-U27107RJ1995PTC010261 |
| 234. | M/s Kansal Gramintes and Export Pvt. Ltd. | 11830-U14101RJ1996PTC011830 |
| 235. | M/s Tirupati Drugs Pvt. Ltd. | 10592-U24232RJ1995PTC010592 |
| 236. | M/s Ram Doot Cement Pvt. Ltd. | 10844-U26943RJ1995PTC010844 |
| 237. | M/s Prestine Financial Services Pvt. Ltd. | 12291-U67120RJ1996PTC012291 |
| 238. | M/s Monilek Properties and Builders Pvt. Ltd. | 10584-U45201RJ1995PTC010584 |
| 239. | M/s Zuberi Engineering Services Pvt. Ltd. | 11934-U45201RJ1996PTC011934 |
| 240. | M/s Hemgiri Irrigations Pvt. Ltd. | 12222-U29212RJ1996PTC012222 |
| 241. | M/s P. C. Agrawal & Co Pvt. Ltd. | 11914-U67120RJ1996PTC011914 |
| 242. | M/s Lawreshwar Foot Wears Pvt. Ltd. | 11494-U19201RJ1996PTC011494 |
| 243. | M/s Namaste Marbles and Granites Pvt. Ltd. | 10552-U14101RJ1995PTC010552 |
| 244. | M/s JDL Credit & Capital Pvt. Ltd. | 11901-U65923RJ1996PTC011901 |
| 245. | M/s Meecon Chemicals Ltd. | 12210-U23200RJ1996PTC012210 |
| 246. | M/s Rathore Tex-N-Prints Pvt. Ltd. | 11169-U18101RJ1995PTC011169 |
| 247. | M/s Jaipur-fin-lease Pvt. Ltd. | 11673-U65910RJ1996PTC011673 |
| 248. | M/s Shubham Associates Pvt. Ltd. | 10279-U45201RJ1995PTC010279 |
| 249. | M/s Abhimanyu Tours & Travels Pvt. Ltd. | 11132-U63040RJ1995PTC011132 |
| 250. | M/s Wheel Engineering Pvt. Ltd. | 10985-U45201RJ1995PTC010985 |
| 251. | M/s Eleness Estates Pvt. Ltd. | 12745-U70101RJ1996PTC012745 |
| 252. | M/s Bhala Securities Pvt. Ltd. | 11674-U67120RJ1996PTC011674 |
| 253. | M/s Parnami Stampings Ltd. | 11809-U74999RJ1996PTC011809 |
| 254. | M/s Satyam Fin-ser Pvt. Ltd. | 12259-U65923RJ1996PTC012259 |

| 1 | 2 | 3 |
|------|--|-----------------------------|
| 255. | M/s Satyam Granimarmo Pvt. Ltd. | 12261-U14101RJ1996PTC012261 |
| 256. | M/s Marketing Point Pvt. Ltd. | 12224-U51214RJ1996PTC012224 |
| 257. | M/s A. G. Kakrewala Pvt. Ltd. | 11241-U14220RJ1995PTC011241 |
| 258. | M/s Banswara Cements Works Pvt. Ltd. | 11933-U26943RJ1996PTC011933 |
| 259. | M/s Ghumar Hotels & Resorts Pvt. Ltd. | 12637-U55101RJ1996PTC012637 |
| 260. | M/s RPG Tours Limited | 11794-U63040RJ1996PTC011794 |
| 261. | M/s Citiline Capital Ltd. | 11756-U67120RJ1996PTC011756 |
| 262. | M/s Murli Farms & Resorts Ltd. | 12977-U70109RJ1996PTC012977 |
| 263. | M/s Sofeom Suspension Ltd. | 11541-U34300RJ1996PTC011541 |
| 264. | M/s Sushil Appliances Pvt. Ltd. | 11921-U25201RJ1996PTC011921 |
| 265. | M/s Satyam Ladies Club Ltd. | 11938-U92412RJ1996PTC011938 |
| 266. | M/s Marks & Marks Garments Pvt. Ltd. | 6489-U17124RJ1992PTC006489 |
| 267. | M/s Sunrise Cement Pvt. Ltd. | 6005-U26943RJ1991PTC006005 |
| 268. | M/s Mittal Protinex (India) Ltd. | 6803-U15497RJ1992PLC006803 |
| 269. | M/s Foresight Chemtech Pvt. Ltd. | 7169-U29117RJ1993PTC007169 |
| 270. | M/s Pacific Spinners Ltd. | 7594-U17111RJ1993PLC007594 |
| 271. | M/s H. B. Exports Pvt. Ltd. | 7532-U51101RJ1993PTC007532 |
| 272. | M/s Shrestha Investments Pvt. Ltd. | 7140-U63040RJ1993PTC007140 |
| 273. | M/s System's Electro Projects & Development (India) Ltd. | 6897-U29299RJ1992PLC006897 |
| 274. | M/s Aditya Hydrated Lime Pvt. Ltd. | 6048-U14101RJ1991PTC006048 |
| 275. | M/s Ashi-Ashu Infratrade Pvt. Ltd. | 7499-U14101RJ1993PTC007499 |
| 276. | M/s Saraogistit-Chart Pvt. Ltd. | 7493-U18101RJ1993PTC007493 |
| 277. | M/s Sohanlal Sarawgi & Sons Pvt. Ltd. | 7770-U45201RJ1993PTC007770 |
| 278. | M/s Dezyn System Pvt. Ltd. | 6144-U72300RJ1991PTC006144 |
| 279. | M/s Kota Electrodes Pvt. Ltd. | 6323-U31909RJ1991PTC006323 |
| 280. | M/s Jaidevi-Ginning & Processing Company Pvt. Ltd. | 6083-U01405RJ1991PTC006083 |
| 281. | M/s Ram Cotsyn Company Pvt. Ltd. | 6600-U17111RJ1992PTC006600 |
| 282. | M/s Jasols Exports Pvt. Ltd. | 6866-U51101RJ1992PTC006866 |
| 283. | M/s Pam Office Automation Pvt. Ltd. | 7686-U30009RJ1993PTC007686 |
| 284. | M/s Durga Bhawani Solvex Pvt. Ltd. | 6210-U15142RJ1991PTC006210 |
| 285. | M/s Noori Hospital Pvt. Ltd. | 6119-U85110RJ1991PTC006119 |
| 286. | M/s Getwell & K. K. Mri Research Centre Pvt. Ltd. | 7422-U85195RJ1993PTC007422 |
| 287. | M/s E. T. Granites Pvt. Ltd. | 6750-U14102RJ1992PLC006750 |
| 288. | M/s I. B. S. Technologies Ltd. | 7023-U51395RJ1992PLC007023 |
| 289. | M/s Protech Laproscopies Ltd. | 6666-U85195RJ1992PLC006666 |
| 290. | M/s Raj Plantations Ltd. | 7439-U02001RJ1993PLC007439 |
| 291. | M/s Herald Technological Company Ltd. | 7556-U72100RJ1993PLC007556 |
| 292. | M/s Svenska Investment & Leasing Ltd. | 7238-U14101RJ1993PTC007238 |
| 293. | M/s Shanti Upwan Estates Pvt. Ltd. | 6837-U70101RJ1992PTC006837 |
| 294. | M/s Rishi Marbles Pvt. Ltd. | 7196-U14101RJ1993PTC007196 |
| 295. | M/s Chordia Techno Consultants Pvt. Ltd. | 7679-U74140RJ1993PTC007679 |
| 296. | M/s Siddha Coldstorage Pvt. Ltd. | 7332-U63022RJ1993PTC007332 |
| 297. | M/s Sarvodaya Polyplast Pvt. Ltd. | 6441-U19201RJ1992PTC006441 |
| 298. | M/s Koolwal Agro Pvt. Ltd. | 6655-U |

| 1 | 2 | 3 |
|------|---|-----------------------------|
| 299. | M/s Patloon Fashion Pvt. Ltd. | 7412-U74994RJ1993PTC007412 |
| 300. | M/s Bikaner Sanitary Wares Pvt. Ltd. | 7873-U26914RJ1993PTC007873 |
| 301. | M/s Ganpati Technofeb Pvt. Ltd. | 7784-U27107RJ1993PTC007784 |
| 302. | M/s Chhabra Marbles & Granites Pvt. Ltd. | 6711-U14101RJ1992PTC006711 |
| 303. | M/s Charbhujanath Cement Company Ltd. | 7315-U26943RJ1993PLC007315 |
| 304. | M/s Mount Woolgrowth & Exports Ltd. | 6801-U17117RJ1992PLC006801 |
| 305. | M/s Jans Hotels Pvt. Ltd. | 7696-U55101RJ1993PTC007696 |
| 306. | M/s Sonal Proteins Pvt. Ltd. | 6550-U15497RJ1992PTC006550 |
| 307. | M/s Kabirchand Agro Mills Pvt. Ltd. | 7745-U15311RJ1993PTC007745 |
| 308. | M/s Virendra Bhatnagar Cement Company Pvt. Ltd. | 6120-U26943RJ1991PTC006120 |
| 309. | M/s Manda Cement Pvt. Ltd. | 6829-U26943RJ1992PTC006829 |
| 310. | M/s Keshav Finimpex Pvt. Ltd. | 7940-U67120RJ1994PTC007940 |
| 311. | M/s Piotech Electronics Pvt. Ltd. | 6784-U51395RJ1992PTC006784 |
| 312. | M/s Onini Agrotech Pvt. Ltd. | 7392-U01122RJ1993PTC007392 |
| 313. | M/s Summitra Sales Pvt. Ltd. | 16428-U74994RJ2000PTC016428 |
| 314. | M/s Balram Goyal Properties Pvt. Ltd. | 16010-U70101RJ1999PTC016010 |
| 315. | M/s Nency Estate Pvt. Ltd. | 16772-U70100RJ2000PTC016772 |
| 316. | M/s Shankaram Infosys Pvt. Ltd. | 16837-U72200RJ2001PTC016837 |
| 317. | M/s K.M. Jain Hospitals Ltd. | 16682-U85110RJ2000PLC016682 |
| 318. | M/s Ashadeep Marketing Pvt. Ltd. | 16763-U51399RJ2000PTC016763 |
| 319. | M/s B. K. Minechem Pvt. Ltd. | 16158-U26939RJ2000PTC016158 |
| 320. | M/s Marudhar C. T. Scan Center Pvt. Ltd. | 16308-U85195RJ2000PTC016308 |
| 321. | M/s A.J. Films Pvt. Ltd. | 16456-U92112RJ2000PTC016456 |
| 322. | M/s UPL Infotech Pvt. Ltd. | 16460-U72200RJ2000PTC016460 |
| 323. | M/s Chetana Human Development Consultants Pvt. Ltd. | 16497-U74140RJ2000PTC016497 |
| 324. | M/s Shatabdi Club & Resorts Ltd. | 16718-U55201RJ2000PLC016718 |
| 325. | M/s Silver Buildestate Pvt. Ltd. | 16758-U70100RJ2000PTC016758 |
| 326. | M/s Synergy Infosft Pvt. Ltd. | 16791-U72200RJ2000PTC016791 |
| 327. | M/s Blue Planet Technologies Pvt. Ltd. | 16806-U72200RJ2000PTC016806 |
| 328. | M/s Fairway Network Marketing & Shoppers Pvt. Ltd. | 17497-U52190RJ2002PTC017497 |
| 329. | M/s SKY Deep Couriers Pvt. Ltd. | 16040-U64120RJ1999PTC016040 |
| 330. | M/s Gaurav Buildcon Pvt. Ltd. | 16085-U45201RJ2000PTC016085 |
| 331. | M/s Soft Line Infotech Ltd. | 16230-U72100RJ2000PLC016230 |
| 332. | M/s Horizon Health Care Distributor Pvt. Ltd. | 17396-U24232RJ2002PTC017396 |
| 333. | M/s Surabhi Appliances (India) Pvt. Ltd. | 16027-U29308RJ1999PTC016027 |
| 334. | M/s Invention Digisoft (Pvt.) Ltd. | 16084-U72200RJ2000PTC016084 |
| 335. | M/s I.D. Sharma, Memorial Medical And Nursing Training Centre Pvt. Ltd. | 16146-U85110RJ2000PTC016146 |
| 336. | M/s IRIS Consultancy Ltd. | 16179-U74140RJ2000PLC016179 |
| 337. | M/s Umesh Impex Pvt. Ltd. | 16184-U36101RJ2000PTC016184 |
| 338. | M/s Samrat Green Marbles Pvt. Ltd. | 16405-U14101RJ2000PTC016405 |
| 339. | M/s Titan Micro Devices Lab Pvt. Ltd. | 16417-U72200RJ2000PTC016417 |
| 340. | M/s USC Marketing Pvt. Ltd. | 16534-U50300RJ2000PTC016534 |
| 341. | M/s Jupiter Ads Services Pvt. Ltd. | 16604-U74300RJ2000PTC016604 |
| 342. | M/s Robusta Healthcare Ltd. | 16658-U85110RJ2000PLC016658 |

| 1 | 2 | 3 |
|------|---|-----------------------------|
| 343. | M/s ZEC Steel Pipes (India) Pvt. Ltd. | 16672-U27109RJ2000PTC016672 |
| 344. | M/s Yasoda Darshan Hotel Pvt. Ltd. | 16721-U55101RJ2000PTC016721 |
| 345. | M/s Venus Fabtex Pvt. Ltd. | 16882-U17120RJ2001PTC016882 |
| 346. | M/s Manish And Manoj Information Technology Pvt. Ltd. | 16973-U72200RJ2001PTC016973 |
| 347. | M/s Bhoj Nagarwala Sugar Company Pvt. Ltd. | 17275-U15421RJ2001PTC017275 |
| 348. | M/s Wonder Granites Pvt. Ltd. | 3960-U14102RJ1987PTC003960 |
| 349. | M/s Anubhav Marbles Pvt. Ltd. | 4606-U14101RJ1988PTC004606 |
| 350. | M/s Unirem Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 3838-U24232RJ1986PTC003838 |
| 351. | M/s Paras Enterprises Pvt. Ltd. | 3125-U51101RJ1984PTC003125 |
| 352. | M/s Nirmal Algographics And Systems Pvt. Ltd. | 5298-U72100RJ1990PTC005298 |
| 353. | M/s Electro Mechanical Metal Forming Pvt. Ltd. | 3442-U28939RJ1985PTC003442 |
| 354. | M/s Mangal Shree Impex Pvt. Ltd. | 3932-U18101RJ1987PTC003932 |
| 355. | M/s Kumar Wood Products Pvt. Ltd. | 3222-U20291RJ1985PTC003222 |
| 356. | M/s P.S. Pole Pvt. Ltd. | 3297-U26956RJ1985PTC003297 |
| 357. | M/s Spectrum Granites Pvt. Ltd. | 5684-U14102RJ1990PTC005684 |
| 358. | M/s Yaya Granite India Ltd. | 5607-U14102RJ1990PLC005607 |
| 359. | M/s Saraf Granites Ltd. | 5626-U14102RJ1990PLC005626 |
| 360. | M/s Sonu Food Products Pvt. Ltd. | 4280-U15499RJ1988PTC004280 |
| 361. | M/s Graphic Commercial Complex Pvt. Ltd. | 3962-U51101RJ1987PTC003962 |
| 362. | M/s Universal Remedies Pvt. Ltd. | 3835-U24232RJ1986PTC003835 |
| 363. | M/s Harsha Plastic Pvt. Ltd. | 4613-U25209RJ1988PTC004613 |
| 364. | M/s High Esteem Exports Pvt. Ltd. | 5737-U18101RJ1990PTC005737 |
| 365. | M/s Shree Hanu Marbles Pvt. Ltd. | 3069-U14101RJ1984PTC003069 |
| 366. | M/s Sulabh Synthetics Pvt. Ltd. | 4540-U24304RJ1988PTC004540 |
| 367. | M/s Trishul Marbles Pvt. Ltd. | 5490-U14101RJ1990PTC005490 |
| 368. | M/s Chandra Metals Pvt. Ltd. | 5930-U28939RJ1991PTC005930 |
| 369. | M/s Rangoli Drugs And Pharmaceutical Pvt. Ltd. | 5410-U24232RJ1990PTC005410 |
| 370. | M/s Saka Impex Pvt. Ltd. | 5233-U51311RJ1989PTC005233 |
| 371. | M/s Ashoka Hospital Pvt. Ltd. | 5670-U85110RJ1990PTC005670 |
| 372. | M/s Hira Kiran Medics Pvt. Ltd. | 5990-U24232RJ1991PTC005990 |
| 373. | M/s Behror Cement Co. Pvt. Ltd. | 5625-U26943RJ1990PTC005625 |
| 374. | M/s Sri Balaji Marbles Pvt. Ltd. | 3071-U14101RJ1984PTC003071 |
| 375. | M/s Saraswati Chlor Alkalies Pvt. Ltd. | 4788-U24117RJ1989PTC004788 |
| 376. | M/s Rinki Financial & Consultations Pvt. Ltd. | 3794-U50101RJ1986PTC003793 |
| 377. | M/s Berrys And Berrys Pvt. Ltd. | 3730-U55101RJ1986PTC003730 |
| 378. | M/s Sarganer Cottage Resort Pvt. Ltd. | 5485-U55102RJ1990PTC005485 |
| 379. | M/s Abha Marbles & Tiles Pvt. Ltd. | 5055-U14101RJ1989PTC005055 |
| 380. | M/s Bergen Automatic Pvt. Ltd. | 4841-U31909RJ1989PTC004841 |
| 381. | M/s Trans Lab (India) P. Ltd. | 3067-U24232RJ1984PTC003067 |
| 382. | M/s Marmou 84 Pvt. Ltd. | 3014-U14101RJ1984PTC003014 |
| 383. | M/s P.G. Cement Pvt. Ltd. | 5933-U26943RJ1991PTC005933 |
| 384. | Promotion India Network Pvt. Ltd. | 5856-U64203RJ1991PTC005856 |
| 385. | M/s Akai Projects & Construction Company Pvt. Ltd. | 3020-U45201RJ1984PTC003020 |
| 386. | M/s Apsara Marbles Pvt. Ltd. | 4490-U14101RJ1988PTC004490 |
| 387. | M/s Ajmer Bottling Pvt. Ltd. | 3344-U15541RJ1985PTC003344 |

| 1 | 2 | 3 |
|------|--|----------------------------|
| 388. | M/s Sharma Cement Pvt. Ltd. | 3719-U26943RJ1986PTC003719 |
| 389. | M/s Stellar Real Estates Pvt. Ltd. | 3762-U70101RJ1986PTC003762 |
| 390. | M/s Rama Shilpa Pvt. Ltd. | 4266-U36911RJ1988PTC004266 |
| 391. | M/s Ankur Asbestos Pvt. Ltd. | 3674-U26999RJ1986PTC003674 |
| 392. | M/s Sikar Cement Pvt. Ltd. | 3250-U26943RJ1985PTC003250 |
| 393. | M/s Attlika Builder And Contractors Pvt. Ltd. | 3975-U45201RJ1987PTC003975 |
| 394. | M/s Rajasthan Technology Park Ltd. | 4142-U70101RJ1987PLC004142 |
| 395. | M/s Gopi Marble Pvt. Ltd. | 5497-U14101RJ1990PTC005497 |
| 396. | M/s Get Well Diagnostics Ltd. | 3470-U85195RJ1985PLC003470 |
| 397. | M/s Desert Electrical Pvt. Ltd. | 5397-U51395RJ1990PTC005397 |
| 398. | M/s Aditya Laboratories Pvt. Ltd. | 3051-U85195RJ1984PTC003051 |
| 399. | M/s Santi Laboratories Pvt. Ltd. | 5001-U85195RJ1989PTC005001 |
| 400. | M/s Sunil Kumar Pvt. Ltd. | 3429-U17111RJ1985PTC003429 |
| 401. | M/s Vaibhav Apartment Pvt. Ltd. | 5475-U70101RJ1990PTC005475 |
| 402. | M/s Agrawal Parafins Pvt. Ltd. | 5600-U23201RJ1990PTC005600 |
| 403. | M/s Ashoka Talc Products Pvt. Ltd. | 3630-U24246RJ1986PTC003630 |
| 404. | M/s Ganpati Tourist Services Pvt. Ltd. | 5621-U63040RJ1990PTC005621 |
| 405. | M/s Unique Stones Pvt. Ltd. | 3982-U14101RJ1987PTC003982 |
| 406. | M/s K. T. Marbles Pvt. Ltd. | 5807-U14101RJ1991PTC005807 |
| 407. | M/s Shanti Overseas Pvt. Ltd. | 3019-U51420RJ1984PTC003019 |
| 408. | M/s Elegance Housing Finance Ltd. | 5568-U26943RJ1990PTC005568 |
| 409. | M/s Virat Pharma Pvt. Ltd. | 4550-U24232RJ1988PTC004550 |
| 410. | M/s Calcite Chemical Industries Pvt. Ltd. | 3426-U24119RJ1985PTC003426 |
| 411. | M/s Globe Marble (India) Pvt. Ltd. | 3398-U14101RJ1985PTC003398 |
| 412. | M/s Prashar Leasing & Holding Company | 3651-U51395RJ1986PTC003651 |
| 413. | M/s Shree Poly Industries Pvt. Ltd. | 3063-U25201RJ1984PTC003063 |
| 414. | M/s Solania Marble & Granties Pvt. Ltd. | 5722-U14101RJ1990PTC005722 |
| 415. | M/s Liberty Exclusive Pvt. Ltd. | 3563-U19201RJ1986PTC003563 |
| 416. | M/s Tirupati Ceramics Pvt. Ltd. | 5810-U26933RJ1991PTC005810 |
| 417. | M/s Dewan Marketing & Services Pvt. Ltd. | 3386-U51101RJ1985PTC003386 |
| 418. | M/s Pushpa Oil Industries Pvt. Ltd. | 3302-U15141RJ1985PTC003302 |
| 419. | M/s Dharu Estt. Pvt. Ltd. | 5117-U70101RJ1989PTC005117 |
| 420. | M/s IMC (Pipe) Products Pvt. Ltd. | 3324-U27107RJ1985PTC003324 |
| 421. | M/s Super Computers Ltd. | 3774-U72100RJ1986PLC003774 |
| 422. | M/s Surya Kiran Marble Pvt. Ltd. | 3693-U14101RJ1986PTC003693 |
| 423. | M/s Gangwal Builders Pvt. Ltd. | 4579-U45201RJ1988PTC004579 |
| 424. | M/s Dahanuka Consultants & Investments Pvt. Ltd. | 5524-U51110RJ1990PTC005524 |
| 425. | M/s Kwaliti Carpets and Rugs Pvt. Ltd. | 5920-U17222RJ1991PTC005920 |
| 426. | M/s Bioline Detergent Products Pvt. Ltd. | 4218-U24243RJ1987PTC004218 |
| 427. | M/s A. M. Drugs Pvt. Ltd. | 3823-U24232RJ1986PTC003823 |
| 428. | M/s Accurate Cements Pvt. Ltd. | 5784-U26943RJ1991PTC005784 |
| 429. | M/s Sudesh Oil Products Pvt. Ltd. | 3112-U74994RJ1984PTC003112 |
| 430. | M/s Shah Steel Rolling Mills Pvt. Ltd. | 3107-U27107RJ1984PTC003107 |
| 431. | M/s Vakil Coal Sales Pvt. Ltd. | 5972-U23101RJ1991PTC005972 |
| 432. | M/s Neo-Craft Exports Pvt. Ltd. | 4188-U18101RJ1987PTC004188 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|----------------------------|-----|
| 433. | M/s Super Space Tronics Pvt. Ltd. | 4037-U31907RJ1987PTC004037 | 872 |
| 434. | M/s Dhawal Rugs Pvt. Ltd. | 5246-U17222RJ1989PTC005246 | 873 |
| 435. | M/s Shree Radhika Carpet Industries Pvt. Ltd. | 4969-U17222RJ1989PTC004969 | 874 |
| 436. | M/s Vinayaks Tea and Allied Industries Ltd. | 3566-U15491RJ1996PLC003566 | 875 |
| 437. | M/s Nem Housing Finance Pvt. Ltd. | 8034-U67120RJ1994PLC008034 | 876 |
| 438. | M/s Abhinay Suitings Pvt. Ltd. | 8063-U18108RJ1994PTC008063 | 877 |
| 439. | M/s Wage Profolio P Leasing Pvt. Ltd. | 8081-U65910RJ1994PTC008081 | 878 |
| 440. | M/s Arihant Lockers & Finvest Ltd. | 8165-U27107RJ1994PTC008164 | 879 |
| 441. | M/s Extasias (India) Pvt. Ltd. | 8192-U18101RJ1994008192 | 880 |
| 442. | M/s Shakti Communication Pvt. Ltd. | 8207-U64201RJ1994PTC008207 | 881 |
| 443. | M/s Janjari Cement Works Pvt. Ltd. | 8241-U26943RJ1994PTC008241 | 882 |
| 444. | M/s Yash Securities Pvt. Ltd. | 8258-U51101RJ1994PTC008258 | 883 |
| 445. | M/s S.S. Fire Proction Pvt. Ltd. | 8266-U29193RJ1994PTC008266 | 884 |
| 446. | M/s Himanshu Chem (India) Pvt. Ltd. | 8309-U22211RJ1994PTC008309 | 885 |
| 447. | M/s Parmatma Chemicals Pvt. Ltd. | 8325-U24117RJ1994PTC008325 | 886 |
| 448. | M/s G. S. Capitals Services Pvt. Ltd. | 8336-U67120RJ1994PTC008336 | 887 |
| 449. | M/s Gokul Sangemermar Pvt. Ltd. | 8340-U14101RJ1994PTC008340 | 888 |
| 450. | M/s Hariyana Distributers Pvt. Ltd. | 8355-U51101RJ1994PTC008355 | 889 |
| 451. | M/s Agroha Securities Pvt. Ltd. | 8363-U67120RJ1994PTC008363 | 890 |
| 452. | M/s Paramount Leathers Ltd. | 8415-U19201RJ1994PLC008415 | 891 |
| 453. | M/s Built Well Granites Pvt. Ltd. | 8429-U14102RJ1994P008429 | 892 |
| 454. | M/s Anmol Suiting Pvt. Ltd. | 8455-U18108RJ1994PTC008455 | 893 |
| 455. | M/s Rajdeep Offsets Pvt. Ltd. | 8497-U22121RJ1994PTC008497 | 894 |
| 456. | M/s Omdoa Ashai Wire Ropes Ltd. | 8499-U31300RJ1994PLC008499 | 895 |
| 457. | M/s Kalika Housing Pvt. Ltd. | 8508-U01409RJ1994PTC008508 | 896 |
| 458. | M/s Dhandia Finance Pvt. Ltd. | 8521-U14101RJ1994PTC008521 | 897 |
| 459. | M/s Pal Mata Synthetics Pvt. Ltd. | 8527-U24304RJ1994PTC008527 | 898 |
| 460. | M/s Rayasthali Lease Finance Ltd. | 8532-U65910RJ1994PLC008532 | 899 |
| 461. | M/s Panchana Finance Ltd. | 8539-U51101RJ1994PTC008539 | 900 |
| 462. | M/s Nalwaya Motors Pvt. Ltd. | 8547-U50101RJ1994PTC008547 | 901 |
| 463. | M/s Yinayaka Communications Pvt. Ltd. | 8617-U64201RJ1994PTC008617 | 902 |
| 464. | M/s N. Hance Mtocijeses Pvt. Ltd. | 8648-U72200RJ1994PTC008648 | 903 |
| 465. | M/s A.D. Fusion India Pvt. Ltd. | 8654-U74300RJ1994PTC008654 | 904 |
| 466. | M/s Gulabi Nagar Gases Pvt. Ltd. | 8664-U24111RJ1994PTC008664 | 905 |
| 467. | M/s Ankit Processors Pvt. Ltd. | 8740-U17117RJ1994PTC008740 | 906 |
| 468. | M/s Balaji Crushers Pvt. Ltd. | 8749-U45500RJ1994PTC008749 | 907 |
| 469. | M/s Plutus (India) Pvt. Ltd. | 8769-U36911RJ1994PTC008769 | 908 |
| 470. | M/s Swentemk Investment Pvt. Ltd. | 8856-U65993RJ1994PTC008856 | 909 |
| 471. | M/s Shriya Fabrics Pvt. Ltd. | 8871-U17124RJ1994PTC008871 | 910 |
| 472. | M/s Sarovar Resorts Pvt. Ltd. | 8988-U55102RJ1994PTC008988 | 911 |
| 473. | M/s Sobhgyashali Developers Pvt. Ltd. | 9012-U45201RJ1994PTC009012 | 912 |
| 474. | M/s Amrusa Capital & Finance Pvt. Ltd. | 9023-U67120RJ1994PTC009023 | 913 |
| 475. | M/s Kavita Finance Pvt. Ltd. | 9088-U67120RJ1994PTC009088 | 914 |
| 476. | M/s Parshwarnath Marble Pvt. Ltd. | 9024-U14101RJ1994PTC009024 | 915 |
| 477. | M/s Shree Narsing Marbles Pvt. Ltd. | 9117-U14101RJ1994PTC009117 | 916 |

| 1 | 2 | 3 |
|------|---|--------------------------------|
| 478. | M/s Altab Marble Pvt. Ltd. | 9120-U14101RJ1994PTC009120 |
| 479. | M/s Rubia Exports Pvt. Ltd. | 9163-U51909RJ1994PTC009163 |
| 480. | M/s Jai Mining & Stones Pvt. Ltd. | 9234-U14101RJ1994PTC009234 |
| 481. | M/s Newton Resorts Pvt. Ltd. | 9237-U55101RJ1994PTC009237 |
| 482. | M/s Matsya Chemicles & Plastisizers Pvt. Ltd. | 9240-U24299RJ1994PTC009240 |
| 483. | M/s Shree Balaji Wev. Mills Pvt. Ltd. | 9248-U17100RJ1994PTC009248 |
| 484. | M/s Madh Shree Sangemermar Pvt. Ltd. | 9262-U14290RJ1995PTC009262 |
| 485. | M/s Kensal Securities Pvt. Ltd. | 9270-U65990RJ1995PTC009270 |
| 486. | M/s Max Holdings Pvt. Ltd. | 9326-U65923RJ1995PTC9326 |
| 487. | M/s Chandra Marbles Pvt. Ltd. | 9327-U14101RJ1995PTC009327 |
| 488. | M/s L.N. Capital Services Pvt. Ltd. | 9340-U67120RJ1995PTC009340 |
| 489. | M/s Paramount Capital Pvt. Ltd. | 9345-U67120RJ1995PTC009345 |
| 490. | M/s Precious Leasing Pvt. Ltd. | 9377-U65910RJ1995PTC009377 |
| 491. | M/s Sneha marbles Pvt. Ltd. | 9383-U14101RJ1995PTC009383 |
| 492. | M/s Malpani Lea-Fin Pvt. Ltd. | 9395-U65910RJ1995PTC009395 |
| 493. | M/s Annu Awas Nirman Pvt. Ltd. | 9416-U45201RJ1995PTC009416 |
| 494. | M/s Premier Distilleries Ltd. | 9427-U15511RJ1995PLC009427 |
| 495. | M/s CIS Exim (India) Pvt. Ltd. | 9446-U24232RJ1995PTC009446 |
| 496. | M/s Jugal Bhatia Pvt. Ltd. | 9447-U25111RJ1995PTC009447 |
| 497. | M/s premium Overseas Ltd. | 9460-U36911RJ1995PLC009460 |
| 498. | M/s Singhal Finance Pvt. Ltd. | 9517-U65910RJ1995PTC009517 |
| 499. | M/s Sariska Club & Resorts Ltd. | 9540-U55101RJ1995PTC009540 |
| 500. | M/s Kunika Investment Pvt. Ltd. | 9555-U65993RJ1995PTC009555 |
| 501. | M/s Amit Sangemermar Pvt. Ltd. | 9603-U14101RJ1995PTC009603 |
| 502. | M/s Span Exim Pvt. Ltd. | 9639-U18109RJ1995PTC009639 |
| 503. | M/s Roongta Classic Finance Pvt. Ltd. | 9668-U65910RJ1995PTC009668 |
| 504. | M/s Rahul Shara Trading Pvt. Ltd. | 9718-U65993RJ1995PTC009718 |
| 505. | M/s Bellering Shoppee Pvt. Ltd. | 9752-U18101RJ1995PTC009752 |
| 506. | M/s Mateshwari Marbles Pvt. Ltd. | 9801-U14101RJ1995PTC009801 |
| 507. | M/s Glacier Leasfin Pvt. Ltd. | 9808-U65910RJ1995PTC009808 |
| 508. | M/s Reliable Infocom Pvt. Ltd. | 9884-U27320RJ1995PTC009884 |
| 509. | M/s Super Finlease Ltd. | 9945-U65910RJ1995PTC009945 |
| 510. | M/s Symbiosis Credit Management Pvt. Ltd. | 9950-U67120RJ1995PTC009950 |
| 511. | M/s Overseers Specialty Chemicals Ltd. | 9952-U24117RJ1995PTC009952 |
| 512. | M/s Bhanu Fertilizers Pvt. Ltd. | 13557-515U24124RJ1997PTC013557 |
| 513. | M/s Bhanu Plywood Pvt. Ltd. | 13558-U20211RJ1997PTC013558 |
| 514. | M/s Bhanu Motels Pvt. Ltd. | 13559-U55101RJ1997PTC013559 |
| 515. | M/s Bhanu Kesri Cables & Plastics Pvt. Ltd. | 13560-U31300RJ1997PTC013560 |
| 516. | M/s Bhanu Agencies Pvt. Ltd. | 13561-U51101RJ1997PTC013561 |
| 517. | M/s Bhanu Dhanu Finlease Pvt. Ltd. | 13562-U65910RJ1997PTC013562 |
| 518. | M/s Bhanu Alloys Pvt. Ltd. | 13563-U27101RJ1997PTC013563 |
| 519. | M/s Bhanu Gases Pvt. Ltd. | 15591-U24111RJ1999PTC015591 |
| 520. | M/s Naveen foot wear (India) Pvt. Ltd. | 14215-U19201RJ1997PTC014215 |
| 521. | M/s Special Effects Entertainment Pvt. Ltd. | 14274-U92112RJ1997PTC014274 |
| 522. | M/s Nisha Containers Ltd. | 14281-U28992RJ1997PLC014281 |

| 1 | 2 | 3 |
|------|--|-----------------------------|
| 523. | M/s Kilol Construction Pvt. Ltd. | 13212-U45201RJ1997PTC013212 |
| 524. | M/s Dugar Fincaps Pvt. Ltd. | 14819-U85195RJ1998PTC014819 |
| 525. | M/s Prospectus Job Recruitment Pvt. Ltd. | 15051-U74910RJ1998PTC015051 |
| 526. | M/s Neelam Travels Pvt. Ltd. | 15524-U63040RJ1999PTC015524 |
| 527. | M/s Centemial Hotels And Resorts Pvt. Ltd. | 15551-U55101RJ1999PTC015551 |
| 528. | M/s SPS Decostone Pvt. Ltd. | 15854-U14101RJ1999PTC015854 |
| 529. | M/s Shri Sandstone Associated Pvt. Ltd. | 18361-U |
| 530. | M/s Vinayak Polysacks Pvt. Ltd. | 17530-U25202RJ2002PTC017530 |
| 531. | M/s Saraswati Tradelinks Pvt. Ltd. | 17907-U52190RJ2002PTC017907 |
| 532. | M/s Novelty marbles Pvt. Ltd. | 9666-U14101RJ1995PTC009666 |
| 533. | M/s Dholpur Wires Pvt. Ltd. | 3772-U31300RJ1986PTC003772 |
| 534. | M/s Devi Securities Services Pvt. Ltd. | 8671-U18108RJ1994PTC008671 |
| 535. | M/s I-View Consultants Pvt. Ltd. | 10092-U74140RJ1995PTC010092 |
| 536. | M/s Shikher Savings Pvt. Ltd. | 11623-U67120RJ1996PTC011623 |
| 537. | M/s Paradise Savings Pvt. Ltd. | 11625-U67120RJ1996PTC011625 |
| 538. | M/s Kaveri Poly Gold Pvt. Ltd. | 12675-U20211RJ1996PTC012675 |
| 539. | M/s Raj Tourism cum tourist Services Pvt. Ltd. | 16859-U63040RJ2001PTC016859 |
| 540. | M/s Jai Meenesh Resorts and Hotels Pvt. Ltd. | 13117-U55101RJ1997PTC013117 |
| 541. | M/s Saturn traders Pvt. Ltd. | 15461-U51311RJ1999PTC015461 |
| 542. | M/s Nirmal Finance and Properties Pvt. Ltd. | 1423U67120RJ1972PTC001423 |
| 543. | M/s Jaipur Kidney Stone and Urological Research Center Pvt. Ltd. | 5643-U85110RJ1990PTC005643 |
| 544. | M/s Mohannurli Travels Pvt. Ltd. | 1774-U63040RJ1978PTC001774 |
| 545. | M/s G. T. Oils Pvt. Ltd. | 5644-U15141RJ1990PTC005644 |
| 546. | M/s Golden Jubilee (Rajasthan) Agro Plantation Pvt. Ltd. | 14282-U02001RJ1997PLC014282 |
| 547. | M/s Chandan Builders and Mining Pvt. Ltd. | 5793-U45201RJ1997PTC005793 |
| 548. | M/s Maharshi Oil Mills Pvt. Ltd. | 5340-U15141RJ1990PTC005340 |

V. K. KHUBCHANDANI

Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and application under Simplified Exist Scheme-2003 under Section 560 and of the following Companies

Jalandhar City, the 01st October 2004

No. ROC/560(5)/SES-2003/123 to 143/5828—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have been struck off from the Register of Companies and the Companies stand dissolved from the date of publication of this notice:—

| Sl. No. | Co. No. | Name of the Company |
|---------|---------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 19153 | M/s. HKS Finlease Private Limited |
| 2. | 15534 | M/s. HKS Investment Limited |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|---|
| 3. | 08596 | M/s. FMS Electronics Private Limited |
| 4. | 18298 | M/s. Gopal Packaging Private Limited |
| 5. | 15454 | M/s. Gee Gee Seals Private Limited |
| 6. | 24937 | M/s. Mathoda Estates Private Limited |
| 7. | 24965 | M/s. Mathoda Properties Private Limited |
| 8. | 15414 | M/s. Bee Vee Investments Private Limited |
| 9. | 05552 | M/s. Diamond Knitters Private Limited |
| 10. | 12891 | M/s. Diji Marketing Private Limited |
| 11. | 19391 | M/s. Hans Enterprises Private Limited |
| 12. | 20678 | M/s. Prayag Agro Forestry (India) Limited |
| 13. | 23400 | M/s. Synapps Technologies Limited |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|--|
| 14. | 20434 | M/s. Guru Teg Bahadur Forests Limited |
| 15. | 11417 | M/s. Gagan Hospital Private Limited |
| 16. | 23526 | M/s. Dynamic Route Private Limited |
| 17. | 15744 | M/s. Rammer Credit and Finance Private Limited |
| 18. | 19147 | M/s. Nanda Hotels Private Limited |
| 19. | 18117 | M/s. V. J. S. Finance Private Limited |
| 20. | 12905 | M/s. Mahendru Hire Purchase Private Limited |
| 21. | 07812 | M/s. Transworld Overseas Private Limited |

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and application under Simplified Exist Scheme-2003 under Section 560 and of the following Companies

Jalandhar City, the 01st October 2004.

No. ROC/560(5)/SES-2003/5830—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have been struck off from the Register of Companies and the Companies stand dissolved from the date of publication of this notice:—

| Sl. No. | Co. No. | Name of the Company |
|---------|---------|---|
| 1. | 16022 | M/s. H. H. Processors Private Limited |
| 2. | 23835 | M/s. Pearl Technologies Private Limited |
| 3. | 18002 | M/s. Sushil Exim Private Limited |
| 4. | 16026 | M/s. Atam Exports Private Limited |
| 5. | 16272 | M/s. C. D. Computers Private Limited |
| 6. | 12110 | M/s. Gilco Telefax Private Limited |
| 7. | 12112 | M/s. Gilco Satellite Communications Private Limited |
| 8. | 08132 | M/s. Gilco Carpets Private Limited |
| 9. | 15737 | M/s. Dhillon Pipes Private Limited |
| 10. | 09106 | M/s. Monica Holiday Resorts Private Limited |
| 11. | 19145 | M/s. Chandigarh Traders Private Limited |
| 12. | 16776 | M/s. A. R. Capital Services Limited |
| 13. | 15299 | M/s. Excel Computers Private Limited |
| 14. | 13951 | M/s. Femmy Marketing Private Limited |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|--|
| 15. | 13416 | M/s. Paras Fincap Limited |
| 16. | 17824 | M/s. R. M. Cones Private Limited |
| 17. | 23557 | M/s. Bluebay Software Network Limited |
| 18. | 23556 | M/s. Gardinar Infosys Limited |
| 19. | 12228 | M/s. Dhinjan Engineering Private Limited |
| 20. | 21748 | M/s. Nalley's Canada & P. S. Sangha Enterprises Limited |
| 21. | 17957 | M/s. Chirag Consultanta Private Limited |
| 22. | 21811 | M/s. Punjab Mushroom Industrial Park Limited |
| 23. | 16060 | M/s. Gee Ess Storwell Private Limited |
| 24. | 17052 | M/s. Super Hitt Impex Private Limited |
| 25. | 19803 | M/s. Krishna Rugs & Carpets Company Private Limited |
| 26. | 08186 | M/s. Raju Spices Private Limited |
| 27. | 13690 | M/s. Aanchal Hospitals Private Limited |
| 28. | 06355 | M/s. Kwaliti Spinners Private Limited |
| 29. | 16397 | M/s. M. B. Bikes Private Limited |
| 30. | 23942 | M/s. Parkash Shakun Investment Company Private Limited |
| 31. | 05566 | M/s. Mandrin Technologies Private Limited |
| 32. | 16234 | M/s. Olympic Spinners Limited |
| 33. | 19871 | M/s. Olympic Foods Private Limited |
| 34. | 13898 | M/s. Bhambri Gases Private Limited |
| 35. | 19955 | M/s. Wood Worth Plantation Limited |
| 36. | 21218 | M/s. SIR Poultry Farm Private Limited |
| 37. | 10574 | M/s. Rubikon Pharmaceuticals Private Limited |
| 38. | 08922 | M/s. S. N. Hospitals Private Limited |
| 39. | 15949 | M/s. Atal Solvex Private Limited |
| 40. | 15826 | M/s. Balachaur Finance & Investments Private Limited |
| 41. | 15072 | M/s. J. L. S. Finance Private Limited |
| 42. | 09008 | M/s. Lilly Hire Purchase Private Limited |
| 43. | 22152 | M/s. Jagirdar Finance Private Limited |
| 44. | 23003 | M/s. Quantum Cyber Netics Private Limited |
| 45. | 14378 | M/s. Agroscope Consultants And Engineers Private Limited |
| 46. | 14199 | M/s. Unique Shoes Private Limited |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|---|
| 47. | 10154 | M/s. Aroma Credit Services Private Limited |
| 48. | 17271 | M/s. Sham Lal Bansal And Company Private Limited |
| 49. | 09739 | M/s. V. V. S. Mercantile Private Limited |
| 50. | 22335 | M/s. Arad Meters Limited |
| 51. | 16116 | M/s. Lilly Fun Park Private Limited |
| 52. | 16115 | M/s. Crazy Fun-N-Fun Park Private Limited |
| 53. | 11231 | M/s. Pipal Finance Property Consultants Private Limited |
| 54. | 16504 | M/s. Chandigarh Poultries Private Limited |
| 55. | 04218 | M/s. Jagdamba Woolens Private Limited |
| 56. | 13009 | M/s. Momaak Engineers Private Limited |
| 57. | 16280 | M/s. Anuj Poultries Limited |
| 58. | 21186 | M/s. Rowan Pharmaceuticals Private Limited |
| 59. | 19606 | M/s. Blue Heaven Finance Company Private Limited |
| 60. | 16840 | M/s. Tara Finlease Private Limited |
| 61. | 16200 | M/s. Pujani Forest & Resorts Private Limited |
| 62. | 18300 | M/s. Chetan Strips Private Limited |
| 63. | 18160 | M/s. Vejeta Agro Products Private Limited |
| 64. | 15896 | M/s. Amson Financial Services Limited |
| 65. | 16266 | M/s. Innovative Exhibitors Private Limited |
| 66. | 19174 | M/s. Kamal Netra News Limited |
| 67. | 18500 | M/s. Chhabra & Chhabra Fmancers Private Limited |
| 68. | 18720 | M/s. Chirag Checmi Links Private Limited |
| 69. | 15608 | M/s. Modern Distilleries Private Limited |
| 70. | 16338 | M/s. Danish Dairies Limited |
| 71. | 16376 | M/s. Hill Daale Hotels Private Limited |
| 72. | 13446 | M/s. Himgiri Resorts Private Limited |
| 73. | 23810 | M/s. Kiran Technologies Private Limited |
| 74. | 22571 | M/s. Malik Verma Builders Private Limited |
| 75. | 15439 | M/s. Spear Investments Private Limited |
| 76. | 16450 | M/s. Paul Cargos Private Limited |
| 77. | 08234 | M/s. Pacific Cables Private Limited |
| 78. | 18756 | M/s. Roost Resorts Private Limited |
| 79. | 12694 | M/s. Neelam Forgings Private Limited |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|--------------------------------------|
| 80. | 13555 | M/s. Pujax Overseas Private Limited |
| 81. | 13924 | M/s. Manohar Shoes Limited |
| 82. | 14465 | M/s. Sant Maltings Private Limited |
| 83. | 03828 | M/s. Polka Paints Private Limited |
| 84. | 22737 | M/s. Madav Marketing Private Limited |
| 85. | 17816 | M/s. Garfin Machs Private Limited |

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Polytex Processors Limited

Jalandhar City, the 13th October 2004

No. ROC/560(5)/5183/1155—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Polytex Processors Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Dooba Worsted Spinners Limited

Jalandhar City, the 13th October 2004

No. ROC/560(5)/5177/1156—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dooba Worsted Spinners Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Nakodar Cotton Waste Spinning Mills Limited

Jalandhar City, the 13th October 2004

No. ROC/560(5)/4644/1157—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nakodar Cotton Waste Spinning Mills Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Sangrur Worsted Spinning Mills Limited

Jalandhar City, the 13th October 2004

No. ROC/560(5)/5180/1158—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sangrur Worsted Spinning Mills Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Ludhiana Worsted Spinners Limited

Jalandhar City, the 13th October 2004

No. ROC/560(5)/5182/1159—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ludhiana Worsted Spinners Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Dooba Shoddy Spinners Mills Limited

Jalandhar City, the 13th October 2004

No. ROC/560(5)/5178/1160—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dooba Shoddy Spinners Mills Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Veekay Investments Company Limited

Kanpur-208001, the 04th October 2004

No. 560(5)/LC/SES-6267/6871—"Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Veekay Investments Company Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved"

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
U. P. & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Dalmia Power Corporation Limited

Kanpur-208001, the 12th October 2004

No. 560(5)/LC/SES-18173/7105—"Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dalmia Power Corporation Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved".

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
U. P. & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Midlands Private Limited

Kanpur-208001, the 12th October 2004

No. 560(5)/LC/SES-364/7107—"Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Midlands Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved".

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
U. P. & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s R. P. Pandey Investment & Financial Consultants
Private Limited

Kanpur-208001, the 12th October 2004

No. 560(5)/LC/SES-18070/7109—"Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. R. P. Pandey Investment & Financial Consultants Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved".

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
U. P. & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Zain Leather Crafts Private Limited

Kanpur-208001, the 12th October 2004

No. 560(5)/LC/SES-24405/7113—"Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Zain Leather Crafts Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved".

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
U. P. & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Amritdhara Farms Private Limited

Kanpur-208001, the 12th October 2004

No. 560(5)/LC/SES-11109/7115—"Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Amritdhara Farms Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved".

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
U. P. & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Karm Electronics Private Limited

Kanpur-208001, the 12th October 2004

No. 560(5)/LC/SES-13659/7123—"Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Karm Electronics Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved".

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
U. P. & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Lucky Overseas Private Limited

Kanpur-208001, the 12th October 2004

No. 560(5)/LC/SES-15755/7117—"Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lucky Overseas Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved".

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
U. P. & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Jaiswal Infotech Private Limited

Kanpur-208001, the 12th October 2004

No. 560(5)/LC/SES-24759/7125—"Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jaiswal Infotech Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved".

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
U. P. & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Allahabad Alloys Private Limited

Kanpur-208001, the 12th October 2004

No. 560(5)/LC/SES-10026/7119—"Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Allahabad Alloys Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved".

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
U. P. & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Mathura Madnani Corporation Private Limited

Kanpur-208001, the 12th October 2004

No. 560(5)/LC/SES-3237/7127—"Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mathura Madnani Corporation Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved".

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
U. P. & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s The Metal Goods Mfg. Company Private Limited

Kanpur-208001, the 12th October 2004

No. 560(5)/LC/SES-1535/7121—"Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. The Metal Goods Mfg. Company Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved".

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
U. P. & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Ritab Informatics Private Limited

Kanpur-208001, the 12th October 2004

No. 560(5)/LC/SES-21018/7129—"Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ritab Informatics Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved".

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
U. P. & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Infocons Consultancy Private Limited

Ranpur-208001, the 12th October 2004

No. 560(5)/LC/SES-26543/7131—"Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Infocons Consultancy Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved".

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
U. P. & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Mahsha Enterprises Private Limited

Ranpur-208001, the 12th October 2004

No. 560(5)/LC/SES-14808/7133—"Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mahsha Enterprises Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved".

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
U. P. & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Ranpur-208001, the 14th October 2004

No. 560(5)/LC/7195—"Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved".

| Sl. No. | Co. No. | Name of the Company |
|---------|----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 20-15483 | M/s. Shakumbari Electrodes Private Limited |
| 2. | 20-11259 | M/s. Prag Polymers (LKO) Private Limited |
| 3. | 20-21130 | M/s. Naini Mutual Benefits (I) Limited |
| 4. | 20-24321 | M/s. Devi Handlooms Private Limited |
| 5. | 20-17568 | M/s. Palia Investment Private Limited |
| 6. | 20-13943 | M/s. Dia Engineering & Builders Private Limited |
| 7. | 20-21969 | M/s. Oriental Buildcom (India) Limited |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|----------|---|
| 8. | 20-10921 | M/s. Shivalik Machinery Private Limited |
| 9. | 20-10541 | M/s. Eureka Advertising Private Limited |
| 10. | 20-24943 | M/s. Mahalaxmi Lubricants Private Limited |
| 11. | 20-24119 | M/s. AVK Petro Chemicals Limited |
| 12. | 20-15698 | M/s. Roopapur Agrotech Limited |
| 13. | 20-9031 | M/s. B. N. Gasket Manufacturing Company Private Limited |

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies,
U.P. & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Mumbai-400002, the 04th October 2004

No. 560(5)/2000—"Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off from the Register of Companies and the following Companies are dissolved:—

| Sl. No. | Co. No. | Name of the Company |
|---------|---------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 55009 | M/s. Siddheshwar Land Developers Private Limited |
| 2. | 97444 | M/s. Himraj Finance & Holding Private Limited |
| 3. | 33000 | M/s. Sagar Chemical & Fertilizers Private Limited |
| 4. | 90007 | M/s. Boundless Finance & Securities Private Limited |
| 5. | 90027 | M/s. Tiptop Computech Private Limited |
| 6. | 90296 | M/s. Jairam Iron & Steel Private Limited |
| 7. | 91200 | M/s. Chouksey Gas Private Limited |
| 8. | 92544 | M/s. Jianal Impex Limited |
| 9. | 92595 | M/s. Neeraj Knitting Industries Private Limited |
| 10. | 92605 | M/s. Polygon Engineering Co. (India) Private Limited |
| 11. | 92799 | M/s. Pearl Promotions & Campaigns Private Limited |
| 12. | 93489 | M/s. Capricorn Finvestrade Private Limited |
| 13. | 94706 | M/s. Puma Capital Services Private Limited |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|--|
| 14. | 98186 | M/s. Aanchal Herbs Limited |
| 15. | 95420 | M/s. P. Paleja & Sandeep Consultancy Private Limited |
| 16. | 95774 | M/s. Seawind Holding Private Limited |

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Mumbai-400002, the 04th October 2004

No. 560/(5)/2000—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off from the Register of Companies and the following Companies are dissolved:—

| Sl. No. | Co. No. | Name of the Company |
|---------|---------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 66858 | M/s. Winsure Properties & Investments Private Limited |
| 2. | 86554 | M/s. Cuff-N-Collar Creations Private Limited |
| 3. | 115850 | M/s. Graeme Marketing Private Limited |
| 4. | 19563 | M/s. Kanan Exports and Trading Company Private Limited |
| 5. | 53836 | M/s. Arch Unique Consultant Private Limited |
| 6. | 107936 | M/s. Web Trade Invest Company Private Limited |
| 7. | 80670 | M/s. Multi Trade International Private Limited |
| 8. | 92118 | M/s. Katria Ispat Private Limited |
| 9. | 43162 | M/s. Supreme Tools Private Limited |
| 10. | 30260 | M/s. Rajendra Jhaveri Holdings Private Limited |
| 11. | 30247 | M/s. Dilip Jhaveri Finance and Trading Company Private Limited |
| 12. | 79884 | M/s. Dhruv Overseas (India) Private Limited |
| 13. | 58183 | M/s. Saj Metals Private Limited |
| 14. | 41283 | M/s. Onlooker Communications & Advertising Private Limited |
| 15. | 38875 | M/s. Aparna Dye Chem Products Private Limited |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|---|
| 16. | 45880 | M/s. Evisqgo Pharma Private Limited |
| 17. | 43971 | M/s. Rinks Enterprises Private Limited |
| 18. | 16278 | M/s. Ritu Films Private Limited |
| 19. | 45119 | M/s. Halwasiya Investment and Trading Private Limited |
| 20. | 82120 | M/s. Nisarg Agro Private Limited |

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Kaickers Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 06th October 2004

No. 2883/11089/560/12980—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kaickers Industries Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the said Company is dissolved".

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
application under Fast Track Scheme under Section 560
of the Companies Act, 1956 and of the following
Companies

Mumbai-400002, the 06th October 2004

No. ROC/560(3)/2000—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL. V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved:—

| Sl. No. | Co. No. | Name of the Company |
|---------|---------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 49282 | M/s. Brajraj Sales Private Limited |
| 2. | 46505 | M/s. Majestic Sales & Services Private Limited |
| 3. | 83224 | M/s. Ruan Aqua Farm Private Limited |

| | |
|-----------|--|
| 4. 89671 | M/s. Pukshya Polycarbonates Private Limited |
| 5. 89618 | M/s. Simplex Tex Home Furnishings Ltd. |
| 6. 81386 | M/s. Sputnik Systems Private Limited |
| 7. 81999 | M/s. Advance Adaptive Technologies Private Limited |
| 8. 41031 | M/s. Aakanksha Engineering Plastics Limited |
| 9. 29978 | M/s. Greaves Midwest Engineering Company Limited |
| 10. 68001 | M/s. Shugun Publication Private Limited |
| 11. 66850 | M/s. Arjay Agro Expo Private Limited |
| 12. 66607 | M/s. Shree Swati Stocks Brokers Private Limited |
| 13. 66599 | M/s. H. E. Daniel India Private Limited |
| 14. 66450 | M/s. Fort Foundation Private Limited |
| 15. 66140 | M/s. Visual Idea Advertsing Private Limited |

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of

M/s N. T. Engineering Private Limited

Pondicherry-605011, the 08th October 2004

No. 445/560(3)/2004—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the company M/s. N. T. Engineering Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

M. KANNAN
Registrar of Companies
Pondicherry

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Karaikal Sugars Limited

Pondicherry-605011, the 08th October 2004

No. 755/560(3)/2004—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the company M/s. Karaikal Sugars Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

M. KANNAN
Registrar of Companies
Pondicherry